4इ किसी भी तरह के विज्ञापन एवं समाचार के लिए संपर्क करें मो0: 9891706853

दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

समाज जागरण

RNI: UPHIN/2021/84200

नोएडा उत्तर प्रदेश,दिल्ली एनसीआर, हरियाणा,पंजाब बिहार,मध्य प्रदेश, छतीसगढ, झारखण्ड असम से प्रसारित

वर्षः 1 अंकः 339 नोएडा, (गौतमबुद्धनगर) शुक्रवार 29 सितम्बर 2023 http://samajjagran.in पृष्ट - 12 मूल्य 05 रुपया

चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने वह कर दिखाया जो...;

ISRO चीफ सोमनाथ ने दी खुशखबरी, आगे का प्लान भी बताया

नई दिल्लीः इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस. सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि भारत के मून मिशन ह्यचंद्रयान-3' के रोवर 'प्रज्ञान' ने वह काम कर दिया है जो इससे किये जाने की अपेक्षा की गई थी और यदि यह वर्तमान निष्क्रिय अवस्था (स्लीप मोड) से सक्रिय होने में विफल रहता है तो भी कोई समस्या नहीं होगी. दरअसल, इसरो चीफ गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर दर्शन करने गये थे और इसके बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी अब एक्सपीओसैट या एक्स-रे पोलरिमीटर उपग्रह प्रक्षेपण के लिए तैयारी कर रही है और यह प्रक्षेपण नवंबर या दिसंबर में किया जा सकता है.

चंद्रमा पर वर्तमान में 'प्रज्ञान' के स्लीप मोड या निष्क्रिय अवस्था में होने की स्थिति पर इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्रमा पर तापमान शून्य से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने पर अत्यधिक

अरे गजब! प्रज्ञान को लेकर अभी बाकी है उम्मीद



प्रतिकूल मौसम के कारण इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, तो यह फिर से सक्रिय हो जायेगा. उन्होंने कहा, ह्यअगर यह सक्रिय नहीं हुआ तो भी ठीक है क्योंकि रोवर ने वह काम कर दिया है जो इससे करने की अपेक्षा की गई थी.'

इसरो ने पिछले सप्ताह कहा था कि चंद्रमा पर सुबह होने के साथ ही 'चंद्रयान-3' के सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर 'विक्रम' और रोवर 'प्रज्ञान' के साथ संपर्क स्थापित कर इन्हें फिर से सक्रिय करने का प्रयास कर रहा है ताकि वे वैज्ञानिक प्रयासों को जारी रख सकें. चंद्रमा पर रात होने से पहले, लैंडर और रोवर दोनों क्रमशः चार और दो सितंबर को निष्क्रिय अवस्था में चले गये थे.

इसरो चीफ सोमनाथ ने आगामी मिशन के बारे में कहा कि इसरो अब एक्सपीओसैट या एक्स-रे पोलरिमीटर उपग्रह के लिए तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा, 'यह एक्सपोसैट तैयार है और इसे हमारे पीएसएलवी रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जायेगा. हमने अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसका प्रक्षेपण नवंबर या दिसंबर में किया जा सकता है.' सोमनाथ ने कहा कि एक और मिशन 'इन्सैट-3डीएस' की भी तैयारी है, जो एक जलवायु उपग्रह है और जिसे दिसंबर में प्रक्षेपित किया जायेगा.

उन्होंने कहा, 'फिर हम एसएसएलवी डी3 का प्रक्षेपण करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं यह हमारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है. यह तीसरा प्रक्षेपण है. यह प्रक्षेपण नवंबर या दिसंबर में किया जायेगा. इसके बाद नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार या निसार की बारी आयेगी. इसे अगले साल फरवरी में प्रक्षेपित किया जायेगा.' उन्होंने कहा कि 'गगनयान' मिशन के परीक्षण यान 'डी1' का प्रक्षेपण अक्टूबर में किया जायेगा.

पूर्व क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवाग के भाई को कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित

विनोद कश्यप
प्रभारी दैनिक समाज जागरण
पंजाब हरियाणा व चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, सितम्बरः* भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग के भाई विनोद सहवाग के विरुद्ध चण्डीगढ़ के मनीमाजरा क्षेत्र थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में विनोद सहवाग के साथ 2 अन्य व्यक्तियों पर भी यही मामला है।

चण्डीगढ़ पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 174-ए(1974 के अधिनियम 2) धारा 82 के तहत मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। चण्डीगढ़ की जिला अदालत इन तीनों को भगोड़ा घोषित कर चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि केस दर्ज करने में आनाकानी करने वाले एस एच ओ को लाइन हाज़िर कर दिया गया है।

हरियाणा के रोहतक में गाँव बहादुरगढ़ के पास जाल्टा फूड्स एण्ड बिवरेजिस नामक फैक्टरी है। इस फैक्टरी में प्लास्टिक की बोतलों में जलजीरा, कोल्ड ड्रिंक्स भरने का काम किया जाता है। इस फैक्टरी में पूर्व क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवाग के भाई विनोद सहवाग, हैवेंट सुधीर मल्होत्रा और विष्णु मितल की पार्टनरशिप है। यह फैक्टरी हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित नैना प्लास्टिक फैक्टरी से बोतलें खरीदा करती थी। आरोपी कम्पनी जाल्टा फूड्स ने शिकायत करने वाले नैना प्लास्टिक के मालिक को चैक दिया। लेकिन जब उन्होंने वह चैक भुगतान करने के लिए बैंक में लगाया तो वो बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायत करने वाले ने आरोपी कम्पनी के संचालकों के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया। अदालत ने जिन आरोपी संचालकों को भगोड़ा घोषित कर दिया है, उनमें वीरेन्द्र सहवाग का भाई विनोद सहवाग भी शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के 30 सितंबर को रामपुर आगमन पर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक आयोजित

शावेज अहमद/ समाज जागरण

रामपुर।भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधियों एवं जिला पदाधिकारी की बैठक राम विहार स्थित जिला कार्यालय पर संपन्न हुई बैठक में जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू ने बताया कि जतिन प्रसाद कैबिनेट मिनिस्टर लोक कल्याण विभाग प्रातः 10:00 बजे कोसी मंदिर रोड पर उत्सव पैलेस में सभा को संबोधित करेंगे उनके कार्यक्रमों के बारे में तैयारी पूर्ण कर ली गई है । उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिनांक 30 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे रामपुर आ रहे हैं। उनके आगमन के वारे में चर्चा करते उनके कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा गई।

उक्त बैठक में सांसद घनशाम सिंह लोधी, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी, विधायक आकाश सक्सेना, पैक्सफेड चेयरमैन सूर्य प्रकाश पाल, मोहनलाल सैनी, अभय गुप्ता, रविंद्र सिंह रवि, राजीव मांगलिक, अशोक बिश्नोई, हरीश गंगवार, सतनाम सिंह, बीना भारद्वाज, कुलवंत औलख, मोहन लोधी, अनुज सक्सेना, पंकज लोधी, अवधेश शर्मा, राजू शर्मा, सुरेश गंगवार, आदि उपस्थित थे।

आकर्षक ऑफर, मात्र 300 मे लगवाए विज्ञापन

समाज जागरण के दुसरे वर्षगांठ पर आप सभी के लिए आकर्षक ऑफर है। मात्र 300 रुपये मे तीन एडिशन मे लगवाएँ विज्ञापन। 200 रुपये मे समाज जागरण पोर्टल पर।। 1 अक्टुबर से 15 अक्टुबर तक साइज 3X5 Cm

महाआरती के अंतिम दिन पहुंचे लोजपा नेता प्रकाश चन्द्रा व भाजपा नेता प्रमोद चन्द्रवंशी

दैनिक समाज जागरण
प्रेम कुमार प्रखंड संवाददाता हसपुरा

औरंगाबाद (बिहार) हसपुरा प्रखंड मुख्यालय स्थित भास्कर नगरी में श्री गणपति पूजा उत्सव कमिटी के द्वारा श्री राम-जानकी धर्मशाला में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन करने व महाआरती में पहुँचे लोजपा नेता सह समाजसेवी हैंड्स औफ प्रकाश चन्द्रा एवं भाजपा नेता प्रमोद सिंह चन्द्रवंशी। इनके साथ एम. एल. सी प्रतिनिधि राघव सिंह,पूर्व जिला पार्षद उपाध्यक्ष संजय सोम, पूर्व मुखिया विजय कुमार अकेला,कौशल शर्मा , डॉ. विपिन , मलहारा मुखिया संतोष शौंडिक,विनोद सिंह, चिंटू मिश्रा आदि गणमान्य लोग शामिल हुए।डॉ. प्रकाश चन्द्रा एवं चन्द्रवंशी ने पूजा अर्चना के दौरान क्षेत्र व प्रदेश में सुख शांति अमन चैन के लिए प्रार्थना किया। उन्होंने कहा की भगवान में सबसे श्रेष्ठ गणेश जी को ही माना जाता है, इनकी पूजा करने से बुद्धि का प्रकाश होता है। इस उत्सव में सभी अतिथिगणों को कमिटी के द्वारा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया ! बता दें की गणेश चतुर्थी के अवसर पर दस दिवसीय पूजा पाठ आरती का कार्यक्रम चलता है, जिसमें प्रतिदिन मुख्य श्रोता विशाल कपूर ने ससमय पंडित पमपम जी के सानिध्य में विधिवत पूजा किया !

शाम की महाआरती के बाद पलक , गुनगुन , सृष्टि, नैना , रिद्धि , आव्या आदि छात्राओं ने तलवारबाजी एवं भक्ति गाने पर डान्स कर सभी आये हुए अतिथियों, महिलाओं, श्रद्धालुओं का मन मोह लिया ! कमिटी के अध्यक्ष पिन्टू चौधरी, उपाध्यक्ष मुरारी केशरी,सचिव सौरभ ज्वाला , कोषाध्यक्ष जेपी गुप्ता,उप सचिव गोलू सत्या, महेश कुमार, अभिषेक शौंडिक , अविनाश कुमार, राजू भारती, घनश्याम चौरसिया, राजा बाबू, विनोद पटेल आदि कमिटी के सदस्यों ने सभी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया!

राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत नोएडा सेक्टर 122 में पोषण उत्सव का किया गया आयोजन।

दैनिक समाज जागरण

डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सेक्टर 122 में पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी पूनम तिवारी ने बताया कि आयोजित पोषण उत्सव में पोषण संबंधी पोस्टर्स, रंगोली के माध्यम से पोषण के संदेश जन समुदाय में प्रसारित किए गए। पोषण उत्सव में 9 महिलाओ की गोदभराई, 9 बच्चो का अन्नप्राशन किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा श्री अन्न से निर्मित व्यंजनों की प्रदर्शनी लगा लोगो को दैनिक आहार में श्री अन्न को सम्मिलित करने के लिए सलाह दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया गया। गर्भवती महिलाओ एवं धात्री महिलाओ को संतुलित आहार एवं पर्याप्त आराम की सलाह दी। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना शहर की मुख्य सेविकाओं सहित भारी मात्रा में आंगनवाड़ी वर्कर्स उपस्थित रही। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।

श्री राम लखन धार्मिक लीला कमेटी नोएडा ने रामलीला के मंचन के लिए कराया भूमि पूजन

दैनिक समाज जागरण

नोएडा । सेक्टर 46 स्थित रामलीला मैदान में श्री राम लखन धार्मिक लीला कमेटी के द्वारा बृहस्पतिवार को भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर शहर की गणमान्य लोगों के अलावा भाजपा, सपा , कांग्रेस आदि पार्टियों के पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे।

कमेटी के अध्यक्ष विपिन अग्रवाल ने कहा की हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेक्टर 46 के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जाएगा । उन्होंने बताया कि इस बार की रामलीला में कई ऐसे कलाकार भाग ले रहे हैं जिनके द्वारा बेहतर रामलीला का मंचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रामलीला महोत्सव का मंचन 15 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा, 15 अक्टूबर को गणेश पूजन के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ होगा ।

वही 24 अक्टूबर को रावण दहन किया जाना है, पंडित कृष्ण स्वामी ने विधि विधान से गणेश के आवाहन के साथ नवग्रह पूजन कराया, उसके उपरांत भगवान राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी का पूजन कराया गया आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया और उसके साथ-साथ वाइस चेयरमैन राजेंद्र जैन और कुमारी पूनम सिंह ने रामलीला स्थल पर हनुमान जी की पताका भी स्थापित की गई

भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य लोगों में दर्जा प्राप्त मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता, नोएडा महानगर अध्यक्ष भाजपा मनोज गुप्ता ,विकास बंसल , फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, कुलदीप गुप्ता, राधा कृष्ण गर्ग ,नरेश कुशल, अशोक श्रीवास्तव ,विनोद शर्मा , योगेंद्र चौधरी, राजीव त्यागी, अरुण गोयल,विकास जैन , ,राजकुमार बंसल ,प्रेम सिह, डॉक्टर एसपी जैन, वी राणा, ललित सिंगल ,डॉ एके त्यागी, ए के पांडे ,दीपेंद्र प्रताप सिंह ,रामकुमार तंवर ,सत्येंद्र शर्मा, पवन शर्मा ,हरेंद्र गुर्जर , सुनील चौधरी, राकेश यादव ,सुबे यादव, दीपक बिग, सतपाल यादव, आश्रय गुप्ता, विकास यादव ,मनोज चौहान, मनोज गोयल, बाबूलाल बंसल, मनदीप गर्ग ,अंकित जैन, संयम जैन, दीपांशु अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, तुषार गोयल ,वेदांत अग्रवाल, मनीत अग्रवाल,रविकांत मिश्रा ,नरेंद्र चोपड़ा, राजकुमार अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राजेंद्र जैन, कुमारी पूनम सिंह ,अशोक गोयल ,संदीप अग्रवाल ,संजय गोयल, रामवीर यादव, गौरव यादव ,गिर्राज अग्रवाल, भूपेंद्र मित्तल, प्रदीप अग्रवाल, अनुज गुप्ता ,कुलदीप गुप्ता, सौरव डायमंड, मुकेश गुप्ता, मनोज अग्रवाल, अनिल गुप्ता ,चंद्रशेखर अग्रवाल, शंकर मोदी ,आर एस अग्रवाल, गिरीश कपूर ,मनोज ,सुभाष भाटी, गौरव सिंघल,राजीव अग्रवाल, विकास बंसल, राम रतन शर्मा, राजेश जिंदल, मीनाक्षी, देवेंद्र त्रिपाठी, राकेश सलूजा ,महावीर गोयल ,बीएल शर्मा ,महेंद्र शाह, वीरेंद्र गर्ग मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

World Cup में आर अश्विन की सरप्राइज एंट्री, अक्षर को किया रिप्लेस, 12 साल पहले की यादें होंगी ताजा

नई दिल्ली. वर्ल्ड कप की शुरूआत में हफ्तेभर का समय है और टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन की तकदीर उनपर मुस्कुराती चुकी है. वो अश्विन जो वनडे क्रिकेट से दूर होते नजर आ रहे थे, अब वर्ल्ड कप में सरप्राइज एंट्री मार चुके हैं. इस बात की पुष्टि आईसीसी ने एक्स पर की. एशिया कप के दौरान टीम इंडिया के हरफनमौला खिलाड़ी अक्षर पटेल इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके चलते अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिला. सीरीज के बाद अब अश्विन को वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी जगह मिल चुकी है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले अश्विन ने आखिरी वनडे जनवरी 2022 में खेला था. उन्होंने 1.5 साल बाद वनडे में वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को अपनी फिरकी से परेशान किया. उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ 2 मैच खेले जिसमें उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए थे. अश्विन के अलावा युवा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को भी आजमाया जा रहा था लेकिन इस जंग में अनुभव को प्राथमिकता दी गई है. आईसीसी ने सभी टीमों के लिए स्क्वाड बदलने की आखिरी तारीख 28 सितंबर रखी थी. भारत ने समय रहते वर्ल्ड कप में बदलाव कर दिया है.

2011 वर्ल्ड कप स्क्वाड का थे हिस्सा

आर अश्विन इस बार 12 साल पहले की यादा ताजा करने के लिए तैयार हैं. 2011 वर्ल्ड कप में भी अश्विन टीम इंडिया का हिस्सा थे. उन्होंने टीम इंडिया की खिताबी जीत का जमकर लुत्फ उठाया था. वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैच के लिए अश्विन सहित पूरी टीम गुवाहटी पहुंच चुकी है.

के जी ने गलत क्या कहा ?

दैनिक समाज जागरण

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश की पत्रकारिता में गिरावट को लेकर की गयी टीप को रेखांकित कर प्रो विजयबहादुर सिंह ने कोई मूर्खता नहीं की,जो ऐसा कहते हैं वे विद्वान हो सकते हैं इसमें मुझे संदेह है ,क्योंकि न केजी सुरेश गलत हैं और न सिंह साहब।

सिंह साहब की फेसबुक दीवार पर टांकी गयी इस टीप के बाद मैंने अनेक विद्वान साथियों की प्रतिक्रियाएं पढ़ी । पहले तो सोचा जाने दीजिये,कौन गपड़तान में पड़े,लेकिन फिर ख्याल आया कि मौन धारण करना उचित नहीं है ।

मित्रों की जानकारी के लिए सूचित कर दूँ कि मै हिंदी पत्रकारिता का एक अनाम छात्र हूँ ,किन्तु मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश के तमाम नामचीन पत्रकारों से मन्त्र हासिल करने का अवसर मिला है। इस बिना पर मै कह सकता हूँ कि केजी सुरेश ने पत्रकारिता में गिरावट के लिए जो कारण बताया वो सौ फीसदी ठीक है ,भले ही स्वर्गीय राजेंद्र माथुर के छात्रों को वो अनुचित लगता हो।

अच्छी बात ये है कि कुलपति केजी सुरेश न मुझे जानते हैं और न मै उन्हें जानता हूँ और अगर जानता भी हूँ तो एक पत्रकार की तरह कम भी नहीं जानता। इसमें कोई मतभेद नहीं कि केजी सुरेश एक खास विचारधारा से दीक्षित हैं,इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते । उन्हें इसी विचारधारा की वजह से कुलपति का पद मिला इसमें भी कोई दो राय नहीं ,किन्तु दो राय इस बात में जरूर हैं कि उन्होंने जो कहा उसका उनकी विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है।

ये एक कटु सत्य है कि आज की पत्रकारिता में आई गिरावट के सौ कारण हो सकते हैं, और हैं भी । किन्तु एक बड़ा कारण ये भी है कि आज का पत्रकार अपनी भाषा और उसके साहित्य से या तो विमुख है या उसकी साहित्य में कोई रूचि नहीं है। साहित्य से अलगाव की वजह से हिंदी की पत्रकारिता ने बहुत कुछ गंवा दिया है। मुमकिन है कि देश के तमाम स्थापित पत्रकारों को लगता हो कि हिंदी पत्रकारिता के लिए साहित्य से लगाव होना जरूरी नहीं है,पर मुझे लगता है कि साहित्यधारा से गुजरे बिना हिंदी का कोई पत्रकार सम्पूर्ण हो ही नहीं सकता।

पत्रकारिता अभिव्यक्ति का माध्यम है और अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का संस्कार बहुत आवश्यक शर्त है। हिंदी के शब्दकोश में लाख से ज्यादा शब्द हैं ,देश का कोई हिंदी पत्रकार इन सभी शब्दों से भिज्ञ नहीं हो सकता किन्तु जो पत्रकार हिंदी साहित्य के आदि साहित्यकारों के साथ ही वर्तमान काल के साहित्यकारों को पढ़-लिख चुका होगा उसे पता है कि

किस शब्द की मार और धार कैसी है ? मै चार दशक से अधिक समय तक कलम घिसने के बाद अपने आपको अपूर्ण पाता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी की व्याकरण का अनुशासन नहीं आता । मै 'व ' और ' ब ' का ' श' और ' स ' का सही प्रयोग नहीं कर पाता। इसके बावजूद मुझे इस बात का अभिमान भी है कि मुझे हिंदी साहित्य से गुजरने का गंभीर अनुभव है। मुझे हिंदी की लोकोक्तियों,मुहावरों,कहावतों,अलंकारों और रसों का समुचित ज्ञान है जो मेरी पत्रकारिता को भी एक अलग पहचान देता है। एक सपाट भाषा सहजता के नाम पर परोसी तो जा सकती है किन्तु उसके जरिये आप किसी को यानि अपने पाठक को शिक्षित नहीं कर सकते। आप अपने पाठक के साथ धोखा करते हैं।

कुछ साथी तर्क देते हैं कि पत्राकारिता भाषा का संस्कार देने का यंत्र नहीं है। मुमकिन है कि वे अपनी जगह सही हों किन्तु व्यापक अर्थों में देखें तो भाषा का प्रारम्भिक संस्कार हमारे यहां स्कूल के साथ ही अखबारों और पत्रिकाओं से हासिल किया जाता है। अब तो भाषा को बिगाड़ने के एक से अधिक माध्यम हमारे पास हैं । ऐसे में केजी सुरेश की चिंताओं को समझा जाना चाहिए । सुरेश की चिंता को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वे संघी मानसिकता के हैं। होंगे ,रहने दीजिये लेकिन संघी अस्पृश्य तो नहीं होता ? संघी भी भाषा की फिक्र करने का उतना ही अधिकारी है जितना कि कोई प्रगतिशील वामपंथी या कांग्रेसी मानसिकता का व्यक्ति।केजी सुरेश का विरोध करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं।

विचारधारा की वजह से हानि-लाभ होते हैं ,आगे भी होंगे और अतीत में भी हुए है। कम से कम मुझे तो अपनी विचारधारा की वजह से बहुत कुछ खोना पड़ा। मुझे इस खोने पर क्षोभ नहीं गर्व होता है। मुझे जो मिला वो भी मेरी विचारधारा के लोगों ने नहीं दिया। मुझे जो दिया है मेरी भाषा और साहित्य के संस्कार ने दिया है।

एक बार की बात है अपने जमाने के प्रसिद्ध साहित्यकार क्षेमचन्द्र सुमन हमारे दफ्तर आये । उन्होंने बैठे-बैठे हमारे अखबार के एक पृष्ठ का पूरा प्रूफ पढ़ डाला और एक पेज में दो हजार गलतियां निकाल दीं।हम लज्जित भी हुए किन्तु हमारे संपादक काशीनाथ चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि -'सुमन जी हम अखबार निकलते हैं साहित्य का सृजन नहीं करते,हम विराम,अर्ध विराम और हलन्त के फेर में पड़ेंगे तो हमारा आज का अखबार दो दिन बाद निकलेगा । सुमन जी हंसे और बोले -पंडित जी ये कुतर्क है । भाषा के दोष के लिए समय नहीं बुद्धि जिम्मेदार है । आप सतर्क होकर पढ़ना जानते हैं तो लिखना अपने आप आ जाता है।

मैंने पत्रकारिता में भले कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं किये किन्तु एक ऐसी पीढ़ी जरूर तैयार की जो साहित्य से अनभिज्ञ नहीं है। हमारे विश्व विद्यालय भी यदि छात्रों को धर्मांध बनाने के बजाय भाषा के संस्कार देने में सतर्कता बरतें तो मुमकिन है कि हमें अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे पत्रकार मिलने लगें अन्यथा आज हिंदी के शीर्ष अखबारों की भाषा कुतर्कों के शेयर हिंदी से हिंगलिश तो हो ही गयी है। मैं संघी नहीं हूँ और न शायद कभी हो पाऊंगा । लेकिन केजी सुरेश की बात का समर्थन करा हूँ कि-' पत्रकारिता में ह्रास का कारण पत्रकारिता के छात्रों और शिक्षकों का साहित्य से अलगाव है । मुमकिन है कि आप इससे सहमत न हों। लोकतंत्र में असहमति न हो तो मजा ही नहीं है।

@ राकेश अचल

आतंकवाद की अंधी गलियां,

पाकिस्तान के बाद अब कनाडा आतंकवादियों की बड़ी मंडी।

दैनिक समाज जागरण

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 20 सम्मेलन के दौरान यह बयान दिया था कि आतंकवाद के किसी भी स्वरूप को वैश्विक स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विश्व के कई देशों ने इसका खुले तौर पर समर्थन भी किया था। अब तक पाकिस्तान ही आतंकवादियों का बड़ा केंद्र बना हुआ था, आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का काम किया करता था और यही कारण है कि वह विकास की मुख्य धारा से अलग होकर कंगाल हो चुका है, जनता को खाने के लाले पड़े हुए हैं महंगाई चरम सीमा पर है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बड़े प्रोत्साहन से खालिस्तानी आतंकवादी अब कनाडा को अपना केंद्र बन चुके हैं पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकवादियों को भारत के विरोध में टेरर फंडिंग भी करता है और आवश्यक सलाह मशवरा देकर ट्रेनिंग देने का काम भी करता आया है, उन्हें कनाडा सरकार का खुला समर्थन प्राप्त है। कनाडा में रहकर खालिस्तानी आतंकवादी पंजाब और पूरे भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करते आ रहे हैं, ऐसे में कनाडा का भी वही हश्र होना है जो पाकिस्तान का हुआ है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रुद्रो आतंकवाद की राह पर आगे निकल चुके हैं। आतंकवादी खालिस्तानी उग्रवादियों को अपने पिता की तरह गलती की पुनरावृत्ति कर कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री खुला समर्थन दे रहे हैं। भारत पर एक कुख्यात आतंकवादी निज्जर की की कनाडा में घुसकर हत्या का बेबुनियादी और प्रमाण विहीन आरोप लगाकर कनाडा के प्रधानमंत्री और उनका देश विश्व में अलग-अलग पड़ चुके हैं। उनकी अपनी संसद में उनका खुलकर विरोध किया जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री को अपने इस बयान पर किसी भी देश का समर्थन प्राप्त नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस,जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के मंच से कनाडा को खरी खोटी सुनाई भी है यह तय बात है कि भारत का उस हत्या से कोई लेना-देना नहीं है। कनाडा अब पाकिस्तान की तरह विश्व मंच पर अकेला पड़ गया है।

आईए एक विश्लेषण करते हैं कि आतंकवाद का मनोविज्ञान क्या है और क्यों तेजी से अपना सर उठा रहा है। आतंकवाद एक मानसिक विकृति की विचारधारा है, जिसके द्वारा हिंसक कार्यों और गतिविधियों से जनमानस अशांति और भय की स्थापना करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना होता है। जिससे किसी भी क्षेत्र में आधिपत्य का अधिकार प्राप्त करने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लेकर जनमानस में अशांति का वातावरण निर्मित करने अपने मंसूबे पूरे कर आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक विध्वंस का तांडव मचाना होता है। कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित मानव विरोधी गतिविधियां ही हैं जो कि समाज के विरुद्ध लूट, अपहरण, बम विस्फोट,हत्या जैसे जघन्य अपराधों को जन्म देती है। आतंकवाद मूलतः धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश लिए हुए होता है। भारत में आतंकवाद धार्मिक और राजनीतिक ज्यादा परिलक्षित हुआ है। भारत में कश्मीर, लद्दाख, असम और मणिपुर मैं विभिन्न अलगाववादी समूह द्वारा हिंसक अपराधिक कृत्य कर लोगों को भयभीत तथा पलायन करने पर मजबूर करने का कृत्य राजनीतिक आतंकवाद ही है। अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा ,जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से अपराध को अंजाम देते हैं। देश में नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड ,बिहार और पश्चिम बंगाल में अपना मौत का परचम फेहरा के रखा है। नक्सलवाद मूलतः सामाजिक क्रांतिकारी समूह द्वारा सरकार के विरोध में आमजन तथा आदिवासियों के मध्य अपनी समानांतर सरकार चलाने हेतु हिंसक घटनाएं की हैं। यह आतंकवादी ग्रुप हिंसा के द्वारा अलग अलग तरीके से आतंकवाद फैलाने का प्रयास करते हैं ,यह ज्यादातर भीड़भाड़ वाले इलाकों में जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड रेल रेल पटरियों वायुयानो का अपहरण निर्दोष लोगों को बंदी बनाना बैंक में डकैतियां कर समाज में अराजकता तथा वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। भारत में नक्सलवाद तो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के नक्सल वाली क्षेत्र से पनपा है, जो पूरे भारत में धीरे-धीरे फैल कर हिंसक रूप अपनाए हुए हैं। आतंकवाद केवल भारत में न होकर उसका साम्राज्य वैश्विक स्तर पर भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फैला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद ने अनेक घटनाओं को जन्म देकर विश्व शांति सद्भावना की मूल कल्पना को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया है। दुनिया के प्रत्येक देश में आतंकवाद किसी न किसी रूप में आज मौजूद है। आतंकवाद कहीं रंगभेद, कहीं भाषा विभेद, कहीं राजनीतिक विचारधाराओं में विरोध और कहीं रंगभेद के कारण ,नस्ली समस्या आतंकवाद का कारण बनी है। यह समस्याएं हथियारों से सुलझाने के प्रयास में अत्यंत हिंसक बन गई हैं।

आतंकवाद को वृहद रूप देने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने भी बड़ा साथ दिया है, आतंकवादियों, नक्सलवादियों और नस्ल वादियों के लिए रसायनिक, नाभिकीय, जैविक मानव बम जैसे आधुनिक हथियार उपलब्ध होने से यह आतंकवादी गतिविधियां और भी खतरनाक हो गई है। इसके अलावा मीडिया में इंटरनेट उपलब्धता से यह सारी सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो जाती है इससे आतंकवादी और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। विश्व में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर 2001 आतंकवादी हमला मानव इतिहास की सबसे क्रूर तम हमला माना जाता है। पाकिस्तान के पेशावर जिले में आर्मी स्कूल में 150 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या भी एक क्रूर आतंकवादी घटना है' भारत में 1993 में मार्च में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट इसी तरह दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हमलावाराणसी बम विस्फोट, अहमदाबाद में बम विस्फोट, 2008 में मुंबई ताज होटल पर हमला,2016 में पठानकोट एयरबेस हमला, 2017 में अमरनाथ तीर्थयात्रियों हमला, 2019 में पुलवामा हमला आतंकवादी घटनाएं हैं जिससे मानवीय संवेदनाएं, शांति स्थापना की मूल धारणा की धज्जियां उड़ जाती है' भारत में तो नक्सलवाद भी आतंकवाद का एक वृहद रूप ले चुका है' आतंकवाद का सबसे भयानक रूप यह है की कोई भी देश यह नहीं जानता कि आतंकवाद का अगला निशाना कौन सा देश और कौन सी इमारत, रेलवे स्टेशन, वायुयान और कौन सा धार्मिक स्थल होगा' वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ असरक्षा की भावना पूरी तरह व्याप्त हो चुकी है' आतंकवाद का सबसे विस्तृत और भयानक रूप अफगानिस्तान में सरकार का तख्तापलट का ही है' वहां तालिबानी आतंकवादियों द्वारा सरकार को गिरा कर अफगानिस्तान देश पर जाकर वहां शासन स्थापित कर लिया था, और पूरी दुनिया तमाशबीन बनी रही। रूस यूक्रेन युद्ध में भी लाखों लोगों की आक्रमण कर हिंसक हत्या तानाशाही तथा मानसिक आतंकवाद का ही एक भयानक रूप है। पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत सहित अनेक कानून बनाए गए एवं उन पर अमल भी किया जा रहा है। पर आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए आतंकवादी विचारधारा को ही समूल रूप से नष्ट करना होगा, क्योंकि आतंकवाद कोई तात्कालिक कारणों से पैदा नहीं होता,यह एक घिनौनी, हिंसक आतंक पैदा करने वाली विचारधारा है। अशांति की इस विचारधारा में जन समुदाय में रोश तथा खौफ पैदा कर दिया है और यह मानवता के लिए अभिशाप की तरह व्याप्त हो गया है। जिससे विश्वव्यापी वैश्विक शांति की अवधारणा को नष्ट कर दिया है। वैसे तो पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ प्रयास किए जा रहे हैं पर हर देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि इस विचारधारा और इनकी गतिविधियों पर नजर रख इसे समूल नष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

संजीव स्तंभकार,चिंतक ,लेखक, रायपुर छत्तीसगढ़

विश्व हृदय दिवस

विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष '29 सितम्बर' को मनाया जाता है। अव्यवस्थित जीवन शैली और असंतुलित खानपान के चलते दुनिया भर में हृदय रोग के पीड़ितों की संख्या तेजीसे बढ़ी है। भागती-दौड़ती जिंदगी में लोगों को अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने का मौका नहीं मिलता, जिसका उन्हें भारी खामियाजा चुकाना पड़ता है। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार दिल की बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, इसके लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं होती। महिलाओं में हृदय रोग की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, बावजूद इसके वे इस बीमारी के जोखिमों को नजरअंदाजकर देती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक दिल ही है, जिस पर सबसे अधिक बोझ पड़ता है। तनाव, थकान, प्रदूषण आदि कई वजहों से रक्त का आदान-प्रदान करने वाले इस अति महत्वपूर्ण अंग को अपना काम करने में मुश्किल होती है, इसीलिए 'विश्व हृदय दिवस' लोगों में यह भावना जागृत करता है कि वे हृदय की बीमारियों के प्रति सचेत रहें।

शुरूआत

दुनिया भर में हर साल होने वाली 29 प्रतिशत मौतों की एक प्रमुख वजह हृदय की बीमारियां और हृदयाघात हैं। हृदय की बीमारियों और दिल के दौरे से हर साल 1.71 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। आम लोगों को इन बीमारियों व दिल के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने के प्रति जागरुक करने के मकसद से वर्ष 2000 में 'विश्व हृदय दिवस' मनाने की शुरूआत की गई। अब तक सितम्बर के अंतिम रविवार को 'विश्व हृदय दिवस' मनाया जाता रहा था, लेकिन 2014 से इसे 29 सितम्बर के दिन ही मनाया जाएगा। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (डब्ल्यूएचओ) की भागीदारी से स्वयंसेवी संगठन 'वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन' हर साल 'विश्व हृदय दिवस' मनाता है।[1] बढ़ते हृदय रोगों की संख्या और पीड़ितों की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र ने साल 2000 से हर साल 29 सितंबर को 'विश्व हृदय दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया। साल 2009 और 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने 'विश्व हृदय दिवस' की थीम 'ऑफिस में हृदय स्वास्थ' थी और इस साल इसकी थीम है 'वन वर्ल्ड, वन होम, वन हर्ट' यानि 'एक संसार, एक घर और एक दिल', जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र हर व्यक्ति को अपने हृदय के प्रति जागरूक बनाना चाहता है।

उद्देश्य

हृदय रोग पूरे विश्व में आज एक गंभीर बीमारी के तौर पर उभरा है। हर साल 'विश्व हृदय दिवस' के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। अपने देश में तो अब कम उम्र के लोग भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है 'तनाव'। तनाव हृदय का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज की भागदौड़ वाली जीवन शैली में लोगों में तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इसलिए इस बीमारी से पूरी तरह बचना तो मुश्किल है, लेकिन जहां तक संभव हो, इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए।

तनाव के समय आवश्यकता होती है कि हम अपने हृदय की आवाज सुनें, हृदय को दुरुस्त रखने के लिए तनाव दूर भगाएं। तनाव के कारण मस्तिष्क से जो रसायन स्रावित होते हैं, वे हृदय की पूरी प्रणाली खराब कर देते हैं। तनाव से उबरने के लिए योग का भी सहारा लिया जा सकता है। हृदय हमारे शरीर का ऐसा अंग है, जो लगातार पंप करता है और पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को संचालित करता है।

मृतात्माओं का श्राद्ध करना पुण्यकर्म

दैनिक समाज जागरण

पितृपक्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या को संपन्न होता है। इसमें मृत पूर्वजों का आव्हान कर श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र या छोटे पुत्र व नाती को होता है। इस पक्ष में शारीरिक श्रृंगार अथवा तेल नहीं लगाया जाना चाहिए। श्राद्ध में ब्राम्हणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। श्राद्ध पक्ष में ऐसा माना जाता है कि कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिये नये परिधान या नवीन कोई भी कार्य नहीं किया जाता। ऐसा करना अशुभ व हानिकारक माना जाता है। वहीं एकदम इसके उलट यह भी मान्यता है कि इस पक्ष के दौरान मृत्यु को प्राप्त करने वाले की आत्मा सीधे स्वर्ग जाती है।

श्राद्ध से तात्पर्य ही सम्मान, प्रकट करना हैं, चाहे वह मृत हो अथवा जीवित। पितृपक्ष में पितरों की मरण तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। गया (बिहार) में श्राद्ध करने का बड़ा महत्व माना गया है। इसके पार्श्व में एक पौराणिक कथा है, जो इस प्रकार है। एक समय असुरवंश का गयासुर नामक असुर अपनी आसूरी प्रवृत्ति के खिलाफ तप और भगवदध्यान में लीन हो गया। यह देखकर उसके मित्रों कुटुंबियों को गहरा आश्चर्य हुआ कि यह गयासुर आखिरकार चाहता क्या है? उसके पास तो धन वैभव, भोग-विलास सभी कुछ तो है, तब उसे और क्या चाहिये कोई समझ नहीं पाया। सबने उसे तप से हटाने का लाख प्रयास भी किया पर असफल ही रहे। उसके निरंतर कठोर तप से आखिर ब्राम्हाजी उसके सामने पहुंचे और कहने लगे- तुम्हारी तपस्या फलीभूत हुई..देखों मैं स्वयं जगत्पिता ब्रम्हा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने यहां आया हूं। परंतु ब्रम्हा की बातों का उस पर तनिक भी असर नहीं हुआ। वह बड़े शांत भाव से बोला- प्रभु आप मेरे पास यहां आये, इसके लिये आपका आभारी हूं, आगे उसने कहा- प्रभु मैं कुछ पाने के लिये तप नहीं कर रहा हूं मैं स्वयं को पवित्र बनाना चाहता हूं। हां, यदि आप मुझसे कुछ चाहें, तो मुझे वह आपको प्रदान करने में गहरा आत्म संतोष प्राप्त होगा। उसकी बातों से ब्रम्हा भी चकित रह गये। कुछ मांगना छोड़ उलट देने की बात कह रहा है। तब ब्रम्हा ने कहा" वत्स मैं बार-बार नहीं आता, तुम जो चाहो मांग लो" परंतु उसने कहा " प्रभु मुझे लोभ में मत डालिये। मेरा लक्ष्य तो पवित्रता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर जीवन का समग्र रुपान्तरण करना है। और वह सब तो भगवान की परम चेतना में निमग्न होने से ही संभव है हां, आपने मुझपे बड़ी कृपा की है मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे परम संतोष होगा। ब्रम्हाजी ने कहा "अच्छा तुम मुझे देना ही चाहते हो तो अपनी वह विशाल देह मुझे दे दो। मैं तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना चाहता हूं। यह सुन उसने अपने शरीर को तत्क्षण ही ब्रम्हा को दान कर दिया। ब्रम्हाजी उसके शरीर पर वर्षों यज्ञ संपन्न करते रहे, परंतु वह अविचल मृत्यु से दूर था। आखिर इतने कठोर तप के बाद भी कुछ इच्छा नहीं रखना उलटे ब्रम्हा को ही दान देने का साहस उसे पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ बना गया था। यही कारण था कि ब्रम्हा भी हैरान हो गये। उन्होंने तब सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु को पुकारा। विष्णु जब आए तो उनके चरणों पर गयासुर गिर पड़ा। श्री विष्णु के दर्शन से वह निहाल हो गया। विष्णु ने उससे कहा- वत्स तुम्हारा तप पूर्ण हो गया। मांगों तुम जो चाहो, वह में तुम्हें दूंगा। उसने गद्गद कंठ से कहा- "प्रभु मैंने सिर्फ पवित्रता की चाहत रखी है वही मुझे मिले।" विष्णु, भक्त के स्वरों से विव्हल हो गये। कहने लगे. गयासुर तुम परम पवित्र हो, पवित्रतम हो। मेरा वरदान है कि तुम्हारा शरीर जिस क्षेत्र में हैं, जहां तुमने तप किया है, वह भविष्य में तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। जग इसे गयाधाम कहकर पुकारेगा। वहां जो भी जब अपने पितरों पुरखों का श्राद्ध करेंगे, वे पितर, मृतात्मांए तुम्हारे पवित्रता के अंश से पवित्र हो जायेंगी, और उन्हें मुक्ति मिलेगी। बस तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि पितरों का गया में जाकर श्राद्ध करने से उनकी आत्मायें मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। इसी कारण वहां एक बार श्राद्ध कर्म करने के बाद दुबारा श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है।

पितृपक्ष आने के पूर्व घर की साफ सफाई लिपाई पुताई की जाती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के पूरे पन्द्रह दिनों के दौरान पूर्वजन मृतकों की आत्माएं अलग -अलग दिनों में पहुंचती हैं। जिसकी मृत्यु जिस तिथि को हुई होती हैं उसका श्राद्ध उसी तिथि करते हैं। वे उसी तिथि को पहुंचते हैं पर कुछ तिथियां भी नियत हैं जैसे सप्तमी और अष्टमी के दिन घर के पुरुष मृतात्माओं के आने का दिन माना गया है। नवमी के दिन छोटी बड़ी स्त्री आत्माओं का आगमन होता हैं। चौदहवें तिथि को बच्चों कुंवारों आदि की आत्मा आती है।

पितृपक्ष के प्रथम दिन में पितरों के आगमन हेतु पूजा पाठ कर उनकी आत्मा की संतुष्टी हेतु एक स्वच्छ स्थान पर उनके मनपसंद पकवान रखे जाने प्रारंभ कर दिये जाते हैं। प्रतीक स्वरुप पशुपक्षियों को भी खिलाये जाते हैं, उनके खा लेने पर आत्माओं ने भोग स्वीकार कर लिया माना जाता है कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान घर अनाज आदि से भरापूरा रहना चाहिये, जिससे बरक्कत होती हैं ऐसा नहीं होने पर आने वाली मृतात्माएं कुपित होती हैं। पद्रहवें दिन सभी पितरों के नाम से हवन कर पूरे पन्द्रह दिनों के फूल फल इत्यादि को एकत्र करें और जलाशयों में विसर्जित कर दिया जाता है। पूजाविधि इस पक्ष के दौरान नित्य प्रातः उठकर घर को स्वच्छकर स्नान करें। एवं एक स्वच्छ स्थान पर गोबर लीपकर चौक (गेंहू के आटे से) बनाकर उसे फूलों से सजाते हैं । फिर, एक आसन में बैठकर तर्जनी ऊंगली कुशा लेकर अपने पितरों का नामोच्चार करते हुये उन्हें जल अर्पित करते जाते हैं। . इसके पश्चात चंदन, हल्दी, रोली, फूल फल एवं उनके मनपसंद पकवानों के साथ चावल उड़द दाल, तिल, गुड़ शक्कर चढ़ाते है फिर अग्नि देकर धूप करते हैं। इस प्रकार पूजा विधि संपन्न होती है।

-सुरेश सिंह बैस "शाश्वत"

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक रमन कुमार झा द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस बी-42 सेक्टर 07 नोएडा से मुद्रित कराकर नियर दुर्गा पब्लिक स्कूल श्याम लाल कॉलोनी बरौला सेक्टर 49 नोएडा 201304, गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।
संपर्क 9891706853, संपादक- रमन कुमार झा, समस्त विवादों का निपटारा गौतमबुद्धनगर न्यायालय मे होगा। Website: https://samajjagran.in/ Email: vatankiawaz@gmail.com UPHIN/2021/84200

अगस्त में परिवहन निगम को हुई एक अरब से अधिक की आय

यात्रियों की सुविधाओं पर भी योगी सरकार की नजर

लखनऊ, 28 सितंबरः योगी सरकार एक तरफ जहां यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को लेकर पूरी तरह संजीदा है, वहीं परिवहन निगम की विशेष सुविधाओं पर भी पूरी नजर रखी है। यूपीएसआरटीसी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा 8 राज्यों एवं नेपाल के बीच अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय बस सेवा का संचालन भी किया जाता है। इसमें दिल्ली, उत्तराखंड,राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं नेपाल शामिल है। कुल 2326 बसों का संचालन किया जाता है। इन बसों के संचालन से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को अगस्त 2023 में 1 अरब दो करोड़ 38 लाख 78 हजार 430 रुपये की आय को हुई है।

यात्रियों की सुविधा पर पूरा ध्यान

योगी सरकार के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से यात्री धार्मिक एवं व्यक्तिगत कार्यों से आते रहते हैं। साथ ही प्रदेश के निवासी भी अन्य राज्यों में धार्मिक एवं व्यक्तिगत कार्यों से जाते रहते हैं। अपने देश एवं प्रदेश के यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा प्रदेश के अंदर और प्रदेश से लगे राज्यों के मध्य बसों का संचालन किया जाता है, जिससे यात्रियों को आवागमन में असुविधा न हो। इन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का अनुबंध है।

प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए राजधानी से जल्द चलेंगी कई अन्य बसें परिवहन मंत्री के मुताबिक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा प्रदेश की सीमा से लगे अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए बसों के संचालन के क्षेत्र में कार्य तेजी से चल रहा है। जल्द ही प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए राजधानी से बस सेवाएं संचालित की जाएंगी। साथ ही प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों को भी प्रदेश की सीमा से लगे अन्य राज्यों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि लोग इन धार्मिक स्थलों एवं पर्यटन स्थलों पर जाकर वहां धार्मिक व व्यक्तिगत कार्यों के साथ ही पर्यटन का भी लुफ्त उठा सकें।

आकर्षक ऑफर, मात्र 300 मे लगवाए विज्ञापन
समाज जागरण के दुसरे वर्षगांठ पर आप सभी के लिए आकर्षक ऑफर है। मात्र 300 रुपये मे तीन एडिशन मे लगवाएँ विज्ञापन। 200 रुपये मे समाज जागरण पोर्टल पर।। 1 अक्टुबर से 15 अक्टुबर तक
साइज 3X5 Cm

भाजपा की तीसरी 'तीसरी सूची में शहडोल सांसद का नाम आ जाय तो नहीं होगी कोई अतिश्योक्ति

शहडोल/ शहडोल संभाग के अंतर्गत बांधवगढ़ मानपुर, जयसिंहनगर, जैतपुर अनूपपुर एवं ब्यौहारी विधानसभाओं में प्रत्याशी अभी घोषित होना है। जिले की विधानसभा से वर्तमान समय पर जय सिंह नगर से जयसिंह मरावी विधायक ,जैतपुर विधानसभा से श्रीमती मनीषा सिंह विधायक है एवं व्यवहारी सीट से शरद कोल विधायक हैं यह तीनों विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। शहडोल संभाग में एकमात्र सीट कोतमा अनारक्षित सीट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है और पहली सूची में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हीरा श्याम को प्रत्याशी बनाया जा चुका है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा दूसरी सूची में प्रदेश के सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है ऐसे में शहडोल संभाग के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट की दौड़ में शामिल दावेदार सकते में आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो शहडोल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शहडोल जिले की जयसिंहनगर या जैतपुर सीट से सांसद हिमाद्री सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है ।

शहडोल लोकसभा में इतने अंतर से कोई नहीं जीता

बहुत ही चौकाने वाली बात यह भी है कि शहडोल संसदीय क्षेत्र में आज तक किसी दूसरे प्रत्याशी को इतने अधिक वोट नहीं मिले. मालुम हो कि चुनाव के जो परिणाम आए उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हिमाद्री सिंह को साढे चार लाख से अधिक वोट प्राप्त हुए थे। इतने वोट इस संसदीय क्षेत्र से कभी भी कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं पाया है।

चुनाव नजदीक ही आ गए हैं तथा यह चर्चा हो रही है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता भी लगाया जा सकता है। अर्थात 10 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी

की तीसरी सूची भी जारी की जा सकती है। जिले की भी सियासत के विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पार्टियों की राजनैतिक गतिविधियां तेज हो चुकी है तथा अभी भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने कहीं भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है जबकि भाजपा ने दो विधानसभा सीटों में प्रत्याशी घोषित कर दिया है तथा मतदाता भी अब चुनावी मूड में है ।कौन जीतेगा कौन हारेगा सीटो से प्रत्याशी घोषित किसकी लहर चलेगी, किसकी नहीं,किसकी सरकार बनेगी, चर्चाए आम मतदाताओं के बीच चल रही है।

2023 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को जो दूसरी सूची जारी की गई है तथा जारी किए गए 39 प्रत्याशियों की सूची में 03 दिग्गज केन्दीय मंत्रियों सहित 07 सांसदो को चुनावी मैदान में उतारा गया है इससे शहडोल एवं उमरिया जिले में भी काफी राजनैतिक हलचल तेज हो गई है. तथा सियासत के गलियारों में लोग चर्चाए कर रहे हैं कि अब कौन सी सीट से किसे उत्तार दिया जाएगा कोई निश्चित नहीं है। ऐसी भी जन चर्चा है कि शहडोल संसदीय क्षेत्र की वर्तमान सांसद के अलावा पूर्व सांसद ज्ञान सिंह को उमरिया जिले की किसी भी विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है।

नई स्कीम के जरिए डाटा सेंटर परियोजना को नई उड़ान देगी योगी सरकार

-यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने नई स्कीम के जरिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में रिक्त प्लॉट्स के लिए शुरू की आवेदन प्रक्रिया

-डाटा सेंटर परियोजना के अंतर्गत 5 केटेगरी के प्लॉट्स के लिए निवेश मित्र पोर्टल के जरिए मांगे गए हैं आवेदन

-28.17 करोड़ से लेकर 176 करोड़ रुपए के बीच निर्धारित किया है प्लॉट्स का प्रीमियम, 2.81 करोड़ से 17.67 करोड़ रुपए के बीच रहेगी रजिस्ट्रेशन फीस

-जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे व बुद्ध सर्किट से निकटता के कारण पॉड ट्रांजिट सिस्टम समेत तमाम सुविधाओं का मिलेगा प्लॉट लेने वालों को लाभ

लखनऊ/ ग्रेटर नोएडा, 28 सितंबर। उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने व देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर राज्य की पहचान स्थापित कर रही योगी सरकार ने अब औद्योगिक विकास को नई गति देने के की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर परियोजना के अंतर्गत रिक्त प्लॉट्स की बिक्री के लिए सीएम योगी की मंशा के अनुरूप एक नई स्कीम जारी की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने सेक्टर 28 में 5 केटेगरी के प्लॉट्स के लिए निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे हैं। बुधवार 27 सितंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया के अंतर्गत 28.17 करोड़ से लेकर 176 करोड़ रुपए के बीच प्लॉट्स का प्रीमियम निर्धारित किया गया है जबकि 2.81 करोड़ से 17.67 करोड़ रुपए के बीच अलग-अलग केटेगरीज के हिसाब से प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे व बुद्ध सर्किट से निकटता के कारण बेहतर कनेक्टिविटी और पॉड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में भारत में अपनी तरह की पहली विश्व स्तरीय परियोजना समेत तमाम सुविधाओं का लाभ प्लॉट लेकर औद्योगिक इकाई लगाने वालों को मिलेगा। इस परियोजना में प्लॉट्स लेने के इच्छुक आवेदक 26 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं व अधिक जानकारी के लिए यीडा की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं।

प्लॉट्स का विवरण हुआ जारी

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने के लिए गठित संस्था इनवेस्ट यूपी तथा यीडा की वेबसाइट पर डाटा सेंटर परियोजना के लिए रिक्त प्लॉट्स का आंकड़ा साझा किया गया है। इसके अनुसार, प्लॉट्स के क्षेत्रफल, सेक्टर, प्रति स्क्वेयर मीटर रेट ऑफ अलॉटमेंट, प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्ज (पीएलसी), रेजिस्ट्रेशन अमाउंट व कुल प्रीमियम के बारे में जानकारी दी गई है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में 1.25 लाख स्क्वेयर मीटर की प्लॉटिंग संख्या डी-1 के लिए रेट अलॉटमेंट प्रति स्क्वेयर मीटर की दर 12786 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर 10 प्रतिशत पीएलसी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन अमाउंट 17.67 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं, टोटल प्रीमियम 176.73 करोड़ रुपए (पीएलसी सहित) निर्धारित किया गया है जो कि सर्वाधिक है। इसी प्रकार अन्य चार केटेगरीज में भी प्लॉटिंग्स, रजिस्ट्रेशन व प्रीमियम अमाउंट समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का विवरण इच्छुक आवेदनकर्ता इनवेस्ट यूपी व यीडा की आधिकारिक वेबसाइटों के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की अन्य जानकारी व शंका निराकरण के लिए यीडा की ई-मेल आईडी industry@yamunaexpresswayauthority.comपर ई-मेल किया जा सकता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यीडा ने मिलाया हाथ

इस परियोजना के आवेदन समेत बैंकिंग ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए यीडा ने बैंक ऑफ बड़ौदा से हाथ मिलाया है और वह बतौर बैंकिंग पार्टनर परियोजना में हिस्सेदारी निभाएगा। उल्लेखीय है कि चाहें औद्योगिक प्लॉट्स की नीलामी हो या फिर ड्रॉ प्रक्रिया के जरिए निर्धारण हो, इन सभी को अंजाम देने के लिए लीस्ट ह्यूमन इंटरफियरेंस यानी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश न के बराबर रखी गई है। इससे, पोर्टल पर अंकित सभी पात्र आवेदनकताओं की पात्रता का आंकलन कर इंटरफेस उन आवेदनों का निर्धारण करता है जो सबसे पात्र होते हैं। इस तरह, बिना किसी भ्रष्टाचार व छेड़खानी मुक्त प्रक्रिया के जरिए पात्र आवेदकों का चुनाव सुनिश्चित किया जाता है और यीडा समेत सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में इसी व्यवस्था के जरिए आवेदकों का निर्धारण सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

योगी सरकार की एक और उपलब्धि, यूपी के 100% गांवों को मिला ओडीएफ प्लस का दर्जा

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर पेश की स्वच्छता की मिसाल

95,767 गांवों ने ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ खुद को ओडीएफ+ घोषित किया

पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया

राष्ट्रव्यापी 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के बीच हासिल हुई उपलब्धि, अकेले यूपी में 88 लाख लोगों ने जन आंदोलन और श्रमदान में लिया भाग

लखनऊ, 28 सितंबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत सभी 95,767 गांवों यानी 100% गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ओडीएफ प्लस गांव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बरकरार रखा है। आज तक, देश भर में 4.4 लाख (75%) गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है, जो 2024-25 तक एसबीएम-जी चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

9 माह में 80 हजार गांव जुड़े

उत्तर प्रदेश ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में तेजी से प्रगति की है। 1 जनवरी 2023 तक, राज्य में केवल 15,088 गांव थे जिन्हें ओडीएफ प्लस घोषित किया गया था। केवल 9 महीने में, राज्य ने मिशन मोड में ओडीएफ प्लस हासिल करने के लिए प्रयास किए। पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया और इस त्वरित गति के परिणामस्वरूप ओडीएफ प्लस की समयबद्ध उपलब्धि हासिल हुई। प्रदेश के 95,767 ओडीएफ प्लस गांवों में से 81,744 गांव ओडीएफ प्लस आकांक्षी गांव हैं, जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। 10,217 गांव ओडीएफ प्लस राइजिंग गांव हैं जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है और 3,806 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल गांव हैं।

स्वच्छता ही सेवा से जुड़े 88 लाख लोग

100% की यह उपलब्धि पूरे देश में संचालित हो रहे स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) झ 2023 अभियान के दौरान हासिल की गई है। एसएचएस प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस वर्ष, अब तक, लगभग 88 लाख लोगों ने बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सा लिया और श्रमदान किया है, जिससे ओडीएफ प्लस स्थिति की उपलब्धि में तेजी आई है।

ग्राम पंचायतों और सफाई कर्मियों का सम्मान

ओडीएफ प्लस उपलब्धि का जश्न उन ग्राम पंचायतों के सम्मान के साथ मनाया गया जिन्होंने अनुकरणीय कार्य किया और अपनी ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया। पूरे राज्य में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और सफाई कर्मियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया, जिससे उन्हें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में और योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। पुरस्कार विजेताओं में ग्राम पंचायत को एक मॉडल के रूप में बनाने में उनके योगदान के लिए 60 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतें शामिल हैं। साथ ही 75 सफाई कर्मियों (प्रत्येक 75 जिलों में से एक) को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

जागरूकता के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

इन ग्राम पंचायतों में जागरूकता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जैसे ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, आरआरसी और मॉडल गांव के लाइव मॉडल के प्रदर्शन से सीखा गया और उसे लागू किया गया। साथ ही विभिन्न मनोरंजन के साधन जैसे कचरा मुक्त थीम पर जादू शो, कठपुतली शो जैसे स्थानीय/लोक मीडिया समूहों को शामिल करके सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ओडीएफ प्लस मॉडल गांव वह है जो न सिर्फ अपनी ओडीएफ स्थिति को बरकरार रखे हुए हैं बल्कि इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है। साथ ही इन गांवों में अधिकतम स्वच्छता और न्यूनतम कूड़ा, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल दिखाई देता है। सार्वजनिक स्थानों पर यहां कोई प्लास्टिक कचरा डंप नहीं होता और ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेश नियमित प्रदर्शित होते हैं।

संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की प्रतिदिन होगी निगरानी, लापरवाही पर गिरेगी गाज

3 से 31 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलेगा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान

16 से 31 अक्टूबर के बीच सभी निकायों में दस्तक अभियान का भी होगा संचालन

प्रतिदिन संपन्न गतिविधियों की नगरीय निकाय निदेशालय को देनी होगी सूचना

अभियान में शिथिलता और लापरवाही बरतने वाल कर्मियों पर होगी कठोर कार्रवाई

लखनऊ, 28 सितंबर। संचारी रोगों के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम अक्टूबर माह में भी जारी रहेगी। 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश भर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान (16 से 31 अक्टूबर) के तहत विशेष सतर्कता बरती जाएगी। खास बात ये है कि इस पूरे अभियान की प्रतिदिन निगरानी और रिपोर्टिंग होगी तथा शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले उत्तरदायी कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में नगरीय निकाय निदेशालय के निदेशक द्वारा समस्त नगर आयुक्त एवं जल संस्थान व जलकल विभाग के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में संचारी रोगों व दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए योगी सरकार ने कई विभागों के समन्वय से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान संचालित कर रही है। इसमें न सिर्फ संचारी रोगों को फैलने से रोकने की कार्यवाही की जा रही है, बल्कि पीड़ित रोगियों के इलाज की भी समुचित व्यवस्था की गई है।

निर्धारित माइक्रोप्लान के अनुसार प्रतिदिन हो संचालन नगरीय निकाय निदेशालय के निदेशक नितिन बंसल द्वारा जारी पत्र में कहा गया

जश्ने ईद मिलादुन्नबी का बड़े ही धूमधाम से निकल गया जुलूस

मुरादाबाद। के ब्लॉक कुंदरकी में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर बड़ी धूमधाम के साथ जश्ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया।

पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष में मुस्लिम समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम से जुलूस ए मोहम्मदी निकल गया। वहीं जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान मुस्लिम समाज में खासा उत्साह देखा गया। बता दे कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रजब माह के 12 रबी उल अव्वल को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। वही मुस्लिम समाज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को जश्ने ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाते हैं। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी में मुस्लिम समुदाय के द्वारा धार्मिक स्थलों सड़कों व अपने मकान को इलेक्ट्रॉनिक झालरों से सजाते हैं। वहीं जुलूस ए मोहम्मदी में मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में शामिल रहे।धूमधाम के साथ मनाया जश्ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व इस दौरान मौजूद हाफिज हारून, मोहम्मद आलम, ग्राम प्रधान हसीन दूल्हा, अबू नसर, इमरान पाशा, डॉक्टर शमीम, ताहिर हुसैन, महबूब अली, हाजी दिलशाद, अजहर हुसैन, सजर हुसैन, हाजी यमीन इंतेकाव आलम, मोहम्मद नजीर, समस्त क्षेत्रवासी मौजूद रहे

जश्ने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़े ही धूमधाम से निकाला गया

कुंदरकी : क्षेत्र ग्राम इमरतपुर उधौ में जश्ने ईद मिलादुन्नबी पर निकाला गया जुलुस गुरुवार को जश्ने ईद मिलादुन्नबी के अवसर परे ग्राम इमरतपुर उधौ मे जुलूस को बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। इस जुलूस में मुस्लिम समाज के विभिन्न संगठनों के साथ ही सैकड़ों लोग शामिल हुए। जो हाथों में झंडे लेकर अलग-अलग मोहल्ले से होते हुए जुलूस में शामिल हुए। सभी ने भाईचारे और एकता के साथ त्यौहार को मनाकर शांति पूर्वक तरीके से जुलूस निकाला हैं। जामा मस्जिद के इमाम साहबे ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर कौमी एकता का संदेश देने के लिए यह जुलूस निकाला गया है। उन्होंने बताया कि जुलूस जामा मस्जिद से शुरू होकर ईदगाह के मैदान पर पहुंचा। जहां उलेमाओं ने सलातो सलामे पेश किया। इसके बाद मुल्क की खुशी और भाईचारे के लिए दुआ की गई। जिसमें मौलाना दिलशाद हुसैन, मौलाना गुड्डू ,मौलाना साजिद हुसैन, फिरोज आलम ,रजाबुल हुसैन, डॉक्टर शाहनवाज ,डॉक्टर असलम, शादाब ,भूरे हुसैन, मास्टर मोहसिन, इरशाद ,दिलशाद हुसैन , बिलाल, गुलाम मुस्तफा ,मुंशीर हुसैन, रियाजुल हुसैन ,फैजान ,मोहम्मद आसिफ, कासिम, शाहनवाज , जहांगीर ,इत्यादि लोग मौजूद रहे

ग्राम पंचायत चन्नौडी में पेसा मास्टर ट्रेनर का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

चन्नौडी/ मध्य प्रदेश शासन के निदेर्शानुसार मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में नवांकुर संस्था श्री बजरंग ग्राम विकास समिति चन्नौडी सेक्टर

क्रमांक 5 में पेसा मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसके मुख्य अतिथि उपनिदेशक राज्य कार्यालय मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भोपाल के अमिताभ श्रीवास्तव म,प्र,जनअभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पाण्डे औड्ड पेसा मास्टर ट्रेनर जिला समन्वयक पप्पू कोल जनअभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक आशीष मुखर्जी के उपस्थिति में पेसा मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण किया गया।

अमिताभ श्रीवास्तव ने पेसा अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताये की हमारे गांव के ग्राम सभा को एक विशेष अधिकार प्राप्त है जब हम अपने ग्राम सभा के द्वारा जल जंगल और जमीन के संरक्षण एवं सुरक्षा ग्राम सभा को दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के आर्थिक विकास का अधिकार प्राप्त हुआ है जिसे हम अपने गांव में ही तेंदूपत्ता अपने समिति के माध्यम से खरीद और बेच सकते हैं जनजाति समुदायों को यह अधिकार समुदाय अपनी व्यवस्था का खुद संचालक बन सके उन्होंने गांव में जाकर नजरी नक्शा बनवाकर लोगों को जानकारी दी।

जनअभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पाण्डे ने पेसा के बारे में जानकारी देते कहे कि यह हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छा और गांव सुरक्षा के लिए वाद निवारण समिति के माध्यम से छोटे-मोटे वाद विवाद का अपने समिति के माध्यम से उसका निपटारा कर सकते हैं ।अपने गांव के विकास के लिए यह अधिकार प्राप्त है पेसा नियम के तहत हमें सुरक्षा प्रदान करता है ।इस कार्यक्रम में पंचायत स्पेक्टर दिलीप पैकरा,उपसरपंच सतेन्द्र प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र सिंह,नवांकुर संस्था अध्यक्ष हनीफ,पेसा ट्रेनर मोहन उपाध्याय,मीनू जैन जी,मेंटर पूर्णिमा मुखर्जी दीप्ति पांडे ,रूही,कैलाश पांडे रोहिणी वर्मा,दीपेश शर्मा, अभिलाष चतुर्वेदी, नीरज मिश्रा, सुधीर ,कैलाश गुप्ता एवं पेसा मोबिलाइजर पंच सरपंच बीएसडब्लू ए एम एस डब्लू के छात्र छात्रायें सामाजिक कार्यकर्ता समस्त ग्राम प्रस्फुटन समिति के लोग उपस्थित रहे।मोबलजर पलक मिश्रा ने पेसा अधिनियम की जानकारी देते हुए उपस्थिति लोगों के बीच अपना बिचार साझा की।

ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मरीजो को फल वितरित

अनूपपुर। ईद मिलाद अन नबी के के पावन अवसर पर जिला चिकित्सालय अनूपपुर में अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किया गया। समाजसेवी एवं वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद रईस खान के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों से इस पावन अवसर पर फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। इस अवसर पर मोहम्मद रईस खान पूर्व अध्यक्ष वक्फ बोर्ड अनूपपुर , मोहम्मद सलीम सदर , लियाकत अली,शेख अब्दुला, अकबर हुसैन,बाबा खान, राशिद मंसूरी, अजहर, रियाज (चिंटू),अब्दुल हक, राज,जावेद, अब्दुल सलाम ,ईजहार, अफसर अली,आशू, गुड्डू मिस्त्री,सिकंदर, शन्नो, आदि उपस्थित रहे।

औरंगाबाद के दाउदनगर में शहीद-ए-आजम भगत सिंह का मनाया गया जयंती समारोह

दैनिक समाज जागरण विश्वनाथ आनंद वरीय संवाददाता मगध प्रमंडल.

औरंगाबाद (बिहार)--"शहीद-ए-आजम ने हिंदुस्तान को एक शोषणमुक्त समाजवादी-लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा था लेकिन आज तक उनके सपनों का हिंदुस्तान तो नहीं ही बना बल्कि आज देश के बचे-खुचे लोकतांत्रिक ढांचे को भी ढहा कर एक फासीवादी-सांप्रदायिक राष्ट्र बनाने का कुचक्र रचा जा रहा है ।"-उक्त बातें आज यहां नगर भवन,दाऊदनगर परिसर में 'शहीद-ए-आजम-भगत सिंह सामाजिक विकास संस्थान' के तत्वावधान में आयोजित भगत सिंह जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए इंसाफ मंच के सदर तथा भाकपा(माले) राज्य कमिटी के सदस्य कामरेड अनवर हुसैन ने कही । उन्होंने कहा कि आज की तारीख सांप्रदायिक-फासीवादी निजाम के हमलों से देश के बचे-खुचे लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करना ही भगत सिंह सहित तमाम शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी ! इसके लिए भगत सिंह के अनुयायियों को गांवों में जाकर किसानों और मजदूरों को भगत सिंह के विचारों से अवगत कराना होगा ।इस जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित शहीद भगत सिंह 'स्मृति-सभा' को संबोधित करते हुए आज के इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि- भाकपा(माले) के जिला सचिव कॉ मुनारिक राम ने कहा कि आज देश के अन्दर हर एक आम आदमी के लिए शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार, इन्साफ इत्यादि मानवीय-जीवन की बेहतर परिस्थितियां तैयार करने के लिए संघर्ष करना ही शहीद-ए-आजम भगत सिंह एवं उनके साथियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी ; क्योंकि इसी तरह के मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए इन उन्होंने अपनी कुबार्नी दी थी । इनके अलावा इस श्रद्धांजलि सभा को दाऊदनगर के पूर्व चेयरमैन-धर्मेन्द्र कुमार दबगर,महिला नेत्री- मीना सिंह,अख्तरी बानो,अरविंदो मिशन स्कूल की शिक्षिका- सिंपी सिन्हा,भाकपा(माले) के नगर सचिव- बिरजू चौधरी, गोह कॉलेज के गणित के विभागाध्यक्ष-राजकमल कुमार सिंह, प्रह्लाद प्रसाद,संस्थान के उपाध्यक्ष- अवधेश कुमार,संस्थान के कोषाध्यक्ष- संजय कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता-महेंद्र राम, शिक्षक संघ(गोप गुट)'मूल' के जिला सचिव-अवधेश कुमार शिक्षक नेता गोपाल प्रसाद गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य सु-

रेन्द्र सिंह, मो कयूम अंसारी, भाकपा(माले) दाऊदनगर के प्रखंड सचिव - चन्द्रमा पासवान,विद्यार्थी-विवेक चन्द्र सैनी,इत्यादि वक्ताओं ने भी संबोधित किया ।इस सभा ने सर्वसम्मति से एक सात-सूत्री प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें- दाऊदनगर नसरीगंज पुल का नामकरण "शहीद भगत सिंह सेतु" करने/शहीद-ए-आजम भगत सिंह सहित तीनों शहीदों के शहादत-दिवस 23 मार्च के दिन सरकार द्वारा सार्वजनिक-छुट्टी घोषित करने/संसद एवं देश के सभी विधान सभाओं में भगत सिंह सहित राजगुरु एवं सुखदेव की तस्वीर लगाने/ संसद भवन के समक्ष तीनों शहीदों की मूर्ति लगाने/भगत सिंह के द्वारा रचित सभी दस्तावेजों को प्रकाशित कर देश के सभी पुस्तकालयों में मुफ्त में उपलब्ध कराने/ देश के सभी राज्यों की राजधानियों के प्रमुख चौराहे पर भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा लगाने तथा स्कूल-कॉलेजों की पाठ्य-पुस्तकों में भगत सिंह,राजगुरु,सुखदेव की जीवनी को शामिल करने की मांग केन्द्र-सरकार सहित सभी राज्यों की सरकारों से की गई । इस सभा ने इसके साथ ही एक अन्य संकल्प प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें उक्त सभी मांगों को मानने के लिए सरकार को बाध्य करने हेतु भगत सिंह के विचारों को मानने वाले सभी संगठनों का एक संयुक्त मंच बनाने तथा मंच के नेतृत्व में धारावाहिक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया । इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद चंद्रवंशी तथा संचालन संस्थान के सचिव सत्येन्द्र कुमार ने किया। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरआत में संस्थान के अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद चंद्रवंशी के नेतृत्व में उपस्थित गणमान्य लोगों,स्थानीय शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों ने तीनों शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए तथा इनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा । अन्त में इन्कलाब जिंदाबाद/ शहीद भगत सिंह,राजगुरु,सुखदेव अमर रहें/,साम्राज्यवाद पूंजीवाद मुदार्बाद/समाजवाद जिंदाबाद/इत्यादि गगन-भेदी नारों के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया.

शहीद-ए-आजम वीर भगत सिंह की मनाई गई जयंती

दैनिक समाज जागरण विश्वनाथ आनंद वरीय संवाददाता मगध प्रमंडल.

गया (बिहार)- शहीद ए आजम वीर भगत सिंह की जयंती टिकारी के बेलहड़िया मोड़ के समीप मनाया गया. उपस्थित लोगों ने शहीद ए आजम वीर भगत सिंह की प्रतिमा पर

पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया एवं उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला.इस दौरान उपस्थित होने वालों में मुकेश विद्यार्थी, रौशन गहलौत, प्रदीप यादव, सामाजिक कार्यकर्ता मो जफर बारी अंसारी उर्फ छोटू मियां आदि लोगों का नाम शामिल है.

सशस्त्र सीमा बल 29 वीं वाहिनी के तत्वाधान में नदरपुर पंचायत के अलग-अलग गांवों में मेरी माटी ,मेरा देश के तहत निकाली गई कलश यात्रा.

दैनिक समाज जागरण विश्वनाथ आनंद वरीय संवाददाता मगध प्रमंडल.

गया (बिहार)- सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पर 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बीबीपेसरा गया बिहार के "ए" समवाय डोभी के कार्य क्षेत्र में मेरी माटी मेरा देश योजना के तहत अमृत कलश यात्रा निकाला गया. यह अमृत कलश यात्रा डोभी प्रखंड के नदरपुर पंचायत के विभिन्न गांवों में निकाला गया .यह यात्रा लगभग 5 किलोमीटर निकाली गई.इस दौरान हर घर से महिलाएं एक एक मुठ्ठी चावल और मिट्टी कलश में दी.कलश यात्रा में नालंदा पब्लिक स्कूल के बच्चे के साथ अन्य स्कूल के बच्चे भी शामिल रहे.साथ मुखिया प्रतिनिधि मुंदारिक यादव,उपमुखिया प्रतिनिधि प्रदीप केशरी अन्य जनप्रतिनिधि तथा समाज सेवी आदि ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल

बनाया ।ज्ञात हो कि देश की राजधानी दिल्ली में भारत सरकार द्वारा एक अमृत वाटिका का निर्माण कार्य प्रस्तावित है.शहीदो की याद में सशस्त्र सीमा बल जवानों द्वारा मिट्टी और चावल का संग्रह कर रही है जिसे जिला मुख्यालय के सहयोग से राजधानी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल "ए" समवाय के द्वारा अमर शहीदों की याद में अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है इस कार्यक्रम के तहत देश के कोने-कोने से निकल गई कलश यात्रा में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी.कलश में आने वाली मिट्टी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाया जाएगा.

51 कन्याओं का पूजन कर भंडारा का हुआ आयोजन

दैनिक समाज जागरण प्रेम कुमार प्रखंड संवाददाता हसपुरा

औरंगाबाद (बिहार)हसपुरा

प्रखंड मुख्यालय स्थित श्री राम जानकी धर्मशाला के प्रांगण में चल रहे 10

दिवसीय गणपति उत्सव के समापन के उपलक्ष्य में भंडारा का आयोजन किया गया। जिसमें 51 कन्याओं को कमिटी के सदस्यों द्वारा सभी कन्याओं का पैर पूजन किया गया ! कमिटी के अध्यक्ष पिन्टू चौधरी ने बताया की भंडारा का आयोजन गौतम कुमार के द्वारा किया गया। जिसमें लगभग 700 लोगों को प्रसाद स्वरूप हलवा पूड़ी खिलाया गया ! इस मौके पर दिव्यांशी, आव्या, आरुषि, आयुषी, शाही, ऑशिका आदि सहित अन्य कन्याओं का पूजन भी किया गया !

दहेज उत्पीड़न मामले में तीन फरार अभियुक्त गिरफ्तार।

दैनिक समाज जागरण गौतम कुमार अनुमंडल संवाददाता दाउदनगर

औरंगाबाद (बिहार)गोह थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न मामले में फरार

चल रहे तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर थाना लाया है। मामला गोह थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की है। थानाध्यक्ष कमलेश पासवान ने बताया कि वर्ष 2011 में पीड़िता रेणु देवी ने अपने ही पति इंदल साव , जेठ मुकेश कुमार व ससुर गया साव के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला न्यायालय में दर्ज कराया गया था। तब से यह तीनों आरोपित घर से फरार चल रहा था। जिसे गुप्त सूचना पर तीनों आरोपितों को घर से गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में भेज दिया है।

टिकारी के पंच देवता मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं भक्तों ने अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर भजन कीर्तन एवं संगीत कार्यक्रम का किया आयोजन.

दैनिक समाज जागरण विश्वनाथ आनंद वरीय संवाददाता मगध प्रमंडल.

गया (बिहार)- गया जिला के टिकारी में गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टिकारी स्थित पंचदेवता मंदिर प्रांगण में ग्रामीण क्षेत्रों से आए भक्तों श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन एवं संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसका आनंद श्रद्धालुओं भक्तों ने उठाया. भक्त गण ने भक्ति संगीत भजन कीर्तन की अनेकानेक प्रस्तुति करते नजर आए। एक पर एक भजन और ढोलक झाल वाद्ययंत्र से वातावरण गुंजावान होते रहा और लोग मंत्रमुग्ध झूमते रहे। कार्यक्रम की आगाज मंदिर स्थित गर्भ गृह में

पूजा अर्चना के साथ हुई। रामा गाइए गणपति जग वंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन के साथ हुई। बीच बीच में अनेकानेक भजन की लोगो ने प्रस्तुति करते नजर आए। करे बाबा दर्शनिया हमहु जैयब न। वाणावर पहाड़ के ऊपर बसे सिद्धेश्वर नाथ करे भजन व कीर्तनवमा हमहु जयबई न आदि संगीत भजन होती रही। इस मौके पर बाजितपुर, बेनीपुर, जगदर, इगुना रकासिया, से आए लोगों में श्री रामाधार सिंह, श्री अरुण सिंह, राधामोहन सिंह, सतेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, मनित ठाकुर, राजकुमार राम, शिवबल्लभ मिश्र, सुमंत सिंह, दिवाकर सिंह, सुरेंद्र सिंह, लक्ष्मी पासवान, कृष्णा पासवान, नागेंद्र सिंह, अमृत सिंह सहित दर्जनों लोगों की मौजदूगी पाई गई .

देवकुंड में अनंत चतुर्दशी पर भंडारे का किया गया आयोजन

दैनिक समाज जागरण गौतम कुमार अनुमंडल संवाददाता दाउदनगर

औरंगाबाद (बिहार)गोह प्रखंड के देवकुंड धाम में अनंत चतुर्दशी पर्व

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व में पुरूष व महिलाएं उपवास रख कर पुरोहित से भगवान विष्णु की भक्ति व श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की। भक्तों ने भगवान विष्णु की अनंत कथा ध्यान पूर्वक सुनी। तथा अनंत का डोरा भी धारण किया। परिवार के कल्याण व सुख समृद्धि को लेकर यह पूजा अर्चना की गई। वहीं देवकुंड मठाधीश कन्हैयानंद पुरी के नेतृत्व में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।

मणिपुर में बर्खास्त हो बीजेपी सरकार, लगे राष्ट्रपति शासन : डॉ0 संजय

दैनिक समाज जागरण विश्वनाथ आनंद वरीय संवाददाता मगध प्रमंडल

गया (बिहार)- बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ० संजय यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी और जानबूझकर की गई अनदेखी के कारण पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ा है.राज्य में हालात सुधारने में बीजेपी की राज्य सरकार नाकाम रही है. वहां न जवान सुरक्षित हैं और न पुलिसकर्मी.हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है.मासूम युवाओं का अपहरण कर मारा जा रहा है. जिनकी वीभत्स वीडियो और फोटो भी वायरल है.महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा हो रही है,फिर भी मोदी सरकार जनता को न बचा कर अपनी राज्य सरकार पर लगाम नही लगा रही

है.डॉ० संजय ने कहा कि देश भर में बीजेपी द्वारा जिस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत की राजनीति भड़काई जा रही है उससे देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है। राहुल गांधी लगातार मोहब्बत की राजनीति के द्वारा सामाजिक और धार्मिक सौहार्द फैला रहे हैं। देश की जनता अब मोदी के असली रूप को पहचान गई है। आने वाले चुनावों में जनता मोदी सरकार को जहर फैलाने की सजा सत्ता से बाहर कर के देगी। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश के संवैधानिक और सामाजिक-धार्मिक ढांचे को बचाने के हर सम्भव प्रयास में लगी रहती है.

मृत्यु के उपरांत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ही श्रद्धा कहलाती है - हिमांशु शेखर

दैनिक समाज जागरण विश्वनाथ आनंद वरीय संवाददाता मगध प्रमंडल.

विश्वनाथ आनंद

गया (बिहार)- मानव शरीर नश्वर है। आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर को त्यागकर दूसरे शरीर मे प्रवेश करती है। इसे ही हम मृत्यु कहते है। मृत्यु के उपरांत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ही श्राद्ध कहलाती है। कालांतर में इसमें कई कर्म काण्ड जुटते चले गए। पूर्वजों की पूजा की परंपरा हर धर्म मे है। प्राचीन काल से हिन्दू धर्म में पितृ पक्ष या पितरपख के दौरान फल्गु के तट पर पिण्डदान करने की परंपरा है। पौराणिक कथा के अनुसार गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल व सात पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है, एवं हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान राम भी अपने पिता का पिंडदान फल्गु के तट पर किया था। प्राचीन काल में गया जी तीर्थस्थल में 365 वेदियां थी, जहां एक वर्ष रहकर पिंडदान का कर्मकांड संपन्न किया जाता था, लेकिन समय के साथ कई वेदियां सिमट कर अब 54 रह गई है, लेकिन इस स्थल की महत्ता और पवित्रता आज भी बरकरार है। जीवन की आपाधापी को देखते हुए अब पिंडदान कर्मकांड को एक दिन, तीन दिन, पांच दिन , सात दिन और सत्रह दिन का विधान रखा गया है। श्रद्धालु अपने समय अनुसार कोई भी विधान चुन सकते है। विदेश में रह रहे श्रद्धालुओं के लिए तकनीक का सहारा लेते हुए ऑनलाइन पिंडदान की भी सुविधा प्रारंभ किया गया है, लेकिन यह हमारे संस्कृति के विरुद्ध है, हमें अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए समय निकालना चाहिए.इस वर्ष यह पिंडदान का कार्यक्रम 28 सितंबर से प्रारंभ होकर 15

अक्टूबर तक निर्धारित है। सभी वेदियों पर पिंडदान करने का समय और तारीख चिन्हित कर दिया गया है। 4 अक्टूबर को विष्णुपद स्थित 16 वेदी पर पिंडदान किया जाएगा। इसी तरह 7 अक्टूबर को भी 16 वेदी पर पिंडदान किया जाएगा ,उनमें प्रमुख वेदी कश्यप पद, मतंग पद, इंद्र पद अगस्त पद प्रमुख है। धर्मगुरुओं द्वारा वेदियों का काल्पनिक स्वरूप स्थापित किया जाता है, जिस पर श्रद्धालु पिंडदान करते है। धर्मज्ञाता हिमांशु शेखर ने कहा है कि,प्राचीन काल में कश्यप पद वेदी फल्गु से लगभग चालीस किलोमीटर दूर आज के टिकारी प्रखंड अंतर्गत केसपा गांव में स्थित था। प्राचीनकाल में इसी गांव में महर्षि कश्यप का आश्रम था। महर्षि कश्यप ने उसी आश्रम में रहकर कश्यपपुरी संहिता की रचना किया था,उन्ही के नाम पर उस स्थल का नाम कश्यपपुरी हुआ,जो कालांतर में अपभ्रंश होकर केसपा के नाम से जाना जाता है।हिमांशु शेखर ने पितृपक्ष मेलाआयोजन समिति एवं जिला प्रशासन से मांग किया है कि पितृपक्ष मेला में केसपा गांव को शामिल किया जाए, एवं सभी श्रद्धालुओं को कश्यप पद वेदी की वास्तविकता से परिचित कराया जाए। मूलवेदी पर पिंडदान करने से पुण्य की प्राप्ति अधिक होती है। केसपा गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आज की पीढ़ी को अवगत कराया जाना चाहिए एवं इस गांव को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए.

एसडीपीओ ने किया अंबा थाना का निरीक्षण

दैनिक समाज जागरण, विजय कुमार सिंह संवाददाता कुटुंबा प्रखंड

औरंगाबाद बिहार 28 सितंबर 2023 :- एसडीपीओ ने गुरुवार को अंबा

थाना का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण पंजी की जांच की। इस दौरान लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने व वारंट पेंडिंग को लेकर थानाध्यक्ष को सख्त निर्देश दिया। उन्होंने नियमित रूप से थाना क्षेत्र में गश्ती करने व कांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाने की बात कही। वहीं शराब माफियाओं का विरुद्ध छापेमारी करने तथा सघन वाहन जांच चलाने का निर्देश दिया।

फोन पर बात करते हुए नहर में गिरा युवक,मौत

दैनिक समाज जागरण, विजय कुमार सिंह संवाददाता कुटुंबा प्रखंड

औरंगाबाद (बिहार) 28 सितंबर 2023 :- फोन पर बात करने के क्रम में गुरुवार के दोपहर बारह बजे पथरा गांव के समीप एक युवक उत्तर कोयल नहर में गिर गया। नहर में पानी ज्यादा होने के कारण युवक डूब गया और बतरे नदी पर बने उत्तर कोयल नहर पुल के अंदर फंस गया। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मिलने पर प्रभारी थानाध्यक्ष माया कुमारी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने बताया कि नहर का पानी रुकवा कर लाश को पुल से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। लंबी सुरंगनुमा पुल होने के कारण कोई भी आदमी पुल के अंदर जाने को तैयार नहीं हुआ। चार घंटे की मशक्कत करने के बाद भी लाश बाहर नहीं निकली है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लाश पानी में फूलने के बाद ही बाहर आ पाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक ने घटना से कुछ देर पहले नहर पर चरवाहों से बात की थी। उन्हें मृतक ने बताया था कि वह कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बलिया अंतर्गत ढूंढा गांव का रहने वाला है। मृतक के नहर में गिरने के पश्चात चरवाहों होने घटना की सूचना अंबा थाना और ढूंढा गांव के लोगों को दी। घटना स्थल पर पहुंचे ढूंढा गांव के वार्ड सदस्य ने संभावना जताई है कि मृतक ढूंढा गांव निवासी अर्जुन भुईयां का 22 वर्षीय पुत्र बजरंगी भुईयां हो सकता है। माया कुमारी ने बताया कि लाश के पुल से बाहर निकालने के बाद ही शव की शिनाख्त हो पाएगा।

भव्य तरीके से दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर की गई बैठक

दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)

नबीनगर (बिहार) 28 सितंबर 2023 दुर्गा पूजा मंडप परिसर एनटीपीसी सुरार मे भव्य तरीके से दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर सुरार पूजा समिति द्वारा एक बैठक अयोजित किया गया। इस बैठक मे सुरार, घिरसिंडी, गोगराबांध, लालनगर, कदोखरी, सुहई एवम रेडिया के ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता मार्कण्डेय सिंह तथा संचालन सचिव धनंजय कुमार सिंह ने किया। बैठक में आय व्यय पर चर्चा किया गया।पंडाल बनाने से लेकर सजावट तक का पूरा जिमवारी समिति के संरक्षक बिनोद साव को दिया गया बैठक मे दिनाक 7 अक्तूबर को गांव के सभी लोगो द्वारा

सुबह में दुर्गा मंडप के प्रांगण का साफ सफाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक मे उपस्थिति सभी लोगो ने निर्णय लिया कि इस वर्ष दुर्गा पूजा धूम धाम से मनाया जाए।

बैठक में कृष्णा सिंह,राणा प्रताप सिंह,कुलदीप सिंह,संजय सिंह,प्रमोद राम,भोला यादव,बिनोद सिंह,जितेंद्र सिंह,मोहन यादव,विक्रांत कुमार,पिंटू ठाकुर,करुणाकर मिश्रा, अनिरुद्ध सिंह, रघुवंश राम,पंकज पासवान,सतेंद्र राम,जयंत कुमार, विनय सिंह,अनूप कुमार सिंह, लव कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

नबीनगर मे पैगम्बर मुहम्मद साहब की जयंती ईद ए मिलाद उन नबी के रूप मे मनाई गई

दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)

नबीनगर (बिहार) 28 सितंबर 2023 औरंगाबाद जिले के नगर पंचायत क्षेत्र नबीनगर मे आज ईद ए मिलाद उन नबी जिसे ईद मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है काफी उल्लास पूर्वक मनाया गया। यह त्योहार मुसलमानों का एक महत्त्व पूर्ण त्योहार है।मुस्लिम समुदाय द्वारा पैगम्बर मुहम्मद साहब के जयंती के उपलक्ष्य मे यह त्योहार पूरी दुनिया मे मनाया जाता है।यह अवसर इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल मे पड़ता है।इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय

के बच्चो द्वारा एक जुलूस भी निकाला गया जुलूस नबीनगर नगर पंचायत क्षेत्र के मस्जिद गली, शनीचर बाजार, पंडा मोहल्ला, परसिया, मंगल बाजार,न्यू एरिया बस स्टैंड तक गया इसके पूर्व चार बजे सुबह मे मस्जिद मे नमाज के बाद मिलाद कार्यक्रम हुआ।

इसके अतिरिक्त नबीनगर के खरौंधा, शेराजपुर, परसिया रघुनाथ गंज, टंडवा आदि क्षेत्रों से भी मुहम्मद पैगम्बर साहब की जयंती मनाए जाने की सूचना है।

हाईवा की टक्कर से ऑटो चालक की मौत

दैनिक समाज जागरण, विजय कुमार सिंह संवाददाता कुटुंबा प्रखंड

औरंगाबाद (बिहार) 28 सितंबर 2023 :- नेशनल हाईवे 139 पर संडा वन विभाग के समीप हाईवा की टक्कर से ऑटो चालक मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे की है। मृतक की पहचान पलामू जिला के सुदना डाल्टनगंज निवासी रामराज बैठा के 55 वर्षीय पुत्र बुधन बैठा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गाड़ी की रिजर्व बुकिंग में डाल्टनगंज से मदनपुर आया था और मदनपुर से सवारी बैठा कर डाल्टनगंज लौट रहा था उसी क्रम में उक्त घटनास्थल पर हाईवा ने ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी और फरार हो गया। हाईवा की टक्कर से अनियंत्रित होकर ऑटो विपरीत दिशा में मुड़ कर पलट गई। इस घटनाक्रम में ऑटो चालक के शरीर में अंदरूनी चोट आई। जिससे उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही अंबा थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऑटो में दो महिला और दो बच्चे सवार थे जिन्हें मामूली चोट आई थी। वे लोग अपने घर चले गए हैं। पुलिस द्वारा घटना की सूचना मिलने पर परिजन अंबा थाना पहुंच गए हैं।

मेरी माट्टी मेरा देश के तहत कलश यात्रा का आयोजन किया गया।

दैनिक समाज जागरण वीरेंद्र यादव जिला संवाददाता औरंगाबाद (बिहार) 28सितंबर2023:-

औरंगाबाद जिले के देव सीआरपीफ कैंप के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 47 बटालियन के कमांडेड श्री जियाउ सिंह के नेतृत्व में देव प्रखंड क्षेत्र के ऐरौरा, कंचनपुर, विश्रामपुर,तेतरिया सहीत ऐसे कई दर्जनों गांव में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया।यह कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा भी निकाली गई।कलश यात्रा में ऐरौरा पंचायत के मुखिया निरंजन साव साथ गांव की महिलाओं ने अपने घरों से मिटी लाकर डाला। सहायक कमांडेंट आयुष कुमार ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया मेरी मिट्टी मेरा देश जिसका उद्देश्य अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग गांव से 7500 कलश में मिट्टी लाए जाएगी । इस मिट्टी के उपयोग दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बने अमृत वाटिका को विकसित करने के लिए किया जाएगा । और दिल्ली में एक शिलाफलकम स्थापित की जाएगी। इस पर देश के शहीदों के नाम अंकित होगी। यह अमर वाटिका हमारे देश के नागरिकों का देश प्रति समर्पण का भाव व्यक्ति करेगी। इसके अलावा हमारे देश के सभी स्वतंत्रता सेनानी का नाम अंकित किया जाएगा। भारत अपने आजादी के 75वर्ष पूरा कर चुकी है। इस उपलक्ष में पूरा देश अमृत

उत्सव के रूप में मना रहा है। इसी के तहत गांव गांव में जाकर घर घर से मिटी संग्रह की जा रही है। इस दौरान इंस्पेक्टर जुगी लाल,सब इंस्पेक्टर के साथ सीआरपीफ के दर्जनों जवान उपस्थित रहें।

नबीनगर के सोनवर्षा से दो शराबी गिरफ्तार भेजे गए जेल

दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)

नबीनगर (बिहार) 28 सितंबर 2023 औरंगाबाद जिले के नबीनगर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव के समीप से पुलिस गश्ती के दौरान दो नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया है । पी एस आई अनित कुमार एवम सशस्त्र बल ने सोनबरसा गांव के निवासी राजू कुमार सिंह पिता सतेंद्र सिंह एवम अजय कुमार सिंह पिता स्वर्गीय बृजदेव सिंह को नशे की हालत मे गिरफ्तार किया।

थानानाध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया कि उक्त दोनों को रेफरल अस्पताल मे शराब पीने की पुष्टि के बाद प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

झाड़ग्राम टूरिज्म तथा होमस्टे मालिकों के द्वारा कांकराझोर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया

बिभूति भूषण भद्र समाज जागरण झाड़ग्राम जिला संवाददाता

कांकराझोर, अमलासोल और अमझरना के सैकड़ो छात्र छात्रों और ग्रामीणों के बीच बुधबार को विश्व पर्यटन दिवस सह पर्यटन जागरूकता शिविर, झाड़ग्राम पर्यटन द्वारा आयोजित किया गया। होमस्टे मालिकों द्वारा समर्थित इस जागरूकता शिविर में मुख्य ध्यान उपरोक्त स्थानों को स्वच्छ और हरा-भरा करने के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करना है। झाड़ग्राम टूरिज्म के संस्थापक सुमित दत्ता ने कहा की पंचायत प्रधान और भुलावेदा रेंज अधिकारी से इस क्षेत्र में बहुत सारे कूड़ेदान स्थापित करने तथा डीएफओ के आदेश का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया गया।बिना अनुमति के जंगल में प्रवेश न करने की बात कही गई।पर्यटकों को हाथियों की आवाजाही से अवगत कराने की बात कही गई। उक्त शिविर में छात्रों को उपहार वितरित किया गया। ग्रामीणों को कांकराझोर के फिल्म पर्यटन यानी "चारमूर्ति" और झाडग्राम पर्यटन के थीम गीत मदल बाजे को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। पर्यटन के माध्यम से झाडग्राम की अर्थव्यवस्था

को विकसित करने का प्रयास करने पर बल दिया गया। साथ ही हमने ग्रामीणों से प्रतिबद्धता जताई है कि हम हमेशा उनके साथ हैं और ग्रामीण प्रकृति को बचाने और स्वच्छ एवं हरित बेलपहाड़ी के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। लोक कलाकार पार्थ भौमिक ने कहा कि झाड़ग्राम की संस्कृति बहुत समृद्ध है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए और पर्यटकों के बीच इसका प्रचार-प्रसार करना चाहिए। मौके पर मुख्य रूप से अतिथियों में 169 बटालियन सीआरपीएफ, कांकराझोर कैंप के इंस्पेक्टर वांगडी शेरपा, आईसी, बेलपहाड़ी,विश्वजीत विश्वास, प्रभारी पदाधिकारी, बांसपहाड़ी सौमेन सिन्हा महापात्रा, प्रधान, बांसपहाड़ी ग्राम पंचायत, ममता बाउरी, प्रधान अध्यापक कांकराझोर एमएसके विद्यालय दीनबंधु मंडल, पंचायत सदस्य परेश मुंडा, महुल लोकगीत दल , कोलकाता के पार्थ भौमिक, झारग्राम पर्यटन के संस्थापक और आईएटीओ के सदस्य सुमित दत्ता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

जिले में आयुष्मान भवः अभियान के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगाया गया मेला

राहुल, दैनिक समाज जागरण किशनगंज

जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भवः अभियान के तहत 'सेवा पखवाड़ा जारी है । आयुष्मान मेलों के माध्यम से लोगों को जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर , सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हर गांव और पंचायत में आयुष्मान सभाओं में स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है । उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेलीकंस्लटेंसी, जांच, एनसीडी, परिवार नियोजन, नियमित टीकाकरण, पोषण एवं प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) सहित 12 प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। सिविल सर्जन डॉ कौशल किशोर ने बताया कि परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 'आयुष्मान भवः' अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और शहर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना है। यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित व स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का प्रतीक है। इसी क्रम में अब तक जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मेला का आयोजन किया जा रहो है।

एचडब्ल्यूसी और सीएचसी में आयुष्मान मेले तथा आयुष्मान सभा को आयोजने -

-सिविल सर्जन डॉ कौशल किशोर ने बताया कि 'सेवा पखवाड़ा' पूरे राष्ट्र और समाज के दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह सरकारी क्षेत्रों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को एक सामान्य मिशन के तहत एकजुट करता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी असमानता के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। आयुष्मान भवः अभियान स्वास्थ्य विभाग, अन्य सरकारी विभागों और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निर्वाचित निकायों के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों द्वारा चलाया गया एक सहयोगी प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए हर गांव और शहर में व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज का विस्तार करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। एचडब्ल्यूसी और सामुदायिक भूमिका निभाएंगे। आयुष्मान भवः अभियान का उद्देश्य-

स्वास्थ्य केन्द्रों में आयोजित होने वाले इन मेलों से स्वास्थ्य आईडी (आभा) जारी करने और आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने में सुविधा दी जा रही है । वे प्रारंभिक निदान, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, विशेषज्ञों के साथ टेलीकंसल्टेशन और उचित निदान भी प्रदान करेंगे। प्रत्येक गांव और पंचायत में ये सभाएं आयुष्मान कार्ड वितरित करने, एबीएचए आईडी बनाने, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और रोग की स्थितियों, जैसे गैर-संचारी रोग, टीबी (निक्षय मित्र), सिकल सेल रोग, साथ ही रक्तदान और अंगदान अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण जिला योजना समन्वयक विश्वजीत कुमार ने बताया कि आयुष्मान भवः अभियान का उद्देश्य अपने तीन घटकों आयुष्मान - आपके द्वार 3.0, स्वास्थ्य और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और हर गांव और पंचायत में आयुष्मान सभाओं में आयुष्मान मेलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज को अधिकतम करना है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0: पहल का उद्देश्य पीएम-जेएवाई योजना के तहत नामांकित शेष पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि अधिकाधिक व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो।

सिलीगुड़ी में सेना के वाहन से लाखों की लकड़ियां बरामद

उत्तम सिंहः संवाददाताः दैनिक समाज जागरणः ब्यूरो चीफ

(दार्जिलिंग): सिलीगुड़ी में कीमती लकड़ियों के साथ सेना का एक वाहन को जब्त किया गया है। इस घटना में चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनमें से दो सेना में कार्यरत है। हालांकि, बाद में गिरफ्तार किए गए चारों लोगों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया। बुधवार शाम को सिलीगुड़ी के बैकुंठपुर डिवीजन के डाबग्राम रेंज के वन कर्मियों ने गुप्त सूचना के आधार पर सेना के एक वाहन को जब्त किया। इसके बाद तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में लकड़ी बरामद की गई।

वन विभाग के सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी संलग्न शालुगाड़ा आर्मी कैंप से उक्त लकड़ियों को एनजेपी संलग्न इलाके में लकड़ी मिल में ले जाया गया था। वहां डाबग्राम रेंज के वनकर्मियों ने लकड़ी समेत वाहन को जब्त कर रेंज कार्यालय ले आये। इसकी सूचना सेना के अधिकारियों को दी गई। खबर मिलते ही सेना अधिकारी मौके पर पहुंचे।

लेकिन यह लकड़ी कहां से आई?सेना के वाहन से यह लकड़ियों को कहां ले जाया जा रहा था, इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। वहीं, रेंज के वन अधिकारी भी इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। वाहन से विभिन्न प्रजातियों की लकड़ी बरामद की गई है। जिसकी बाजार कीमत लाखों रुपये है।

झाड़ग्राम में निर्मल एवं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वितरण

बिभूति भूषण भद्र दैनिक समाज जागरण झाड़ग्राम जिला संवाददाता

जिला समग्र शिक्षा मिशन के पहल पर 'निर्मल एवं स्वच्छ विद्यालय' पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। झाडग्राम के जिला मजिस्ट्रेट सुनील अग्रवाल, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि एवं भूमि सुधार) धीमान बराई एवं अन्य अतिथिगण सिधू कानू हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों सहित 58 विद्यालयों को पुरस्कृत किया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सीट एंड ड्राइंग प्रतियोगिता में 24 विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिला परिषद की उपाध्यक्ष अंजलि दोलाई सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुरस्कार वितरण किया।जिलाधिकारी सुनील अग्रवाल ने कहा कि जिले के प्रत्येक विद्यालय में विकासात्मक कार्य किये जा रहे हैं। पुरस्कार पाकर विद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षक और अधिक प्रेरित होंगे।

किशनगंज मुख्यालय में जुलूसे मोहम्मदी में लाखों की भीड़, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

राहुल, दैनिक समाज जागरण किशनगंज

पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर किशनगंज मुख्यालय से लेकर गांव तक भव्य जुलूस मोहम्मदी निकल गई। साथ ही ह्यईद-ए-मिलाद-उन-नबी की माफिल सजाई गई । वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखी। जुलूसे मोहम्मदी में जिले के विभिन्न मार्गो व मोहल्ले से आए हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। शहर में चारों तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ देखने को मिली। बच्चें, जवान, बूढ़े सभी अपने हाथों में झंडा बैनर लिए हुए। हुजूर की आमद मरहबा, पत्ता-पत्ता फूल फूल या रसूल या रसूल जैसे नारों से गूंज उठी किशनगंज मुख्यालय से लेकर गांव की गलियां तक

किशनगंज शहर के गांधीनगर मोहल्ले में भारी मात्रा में नकली कीटनाशक पाउडर बरामद

राहुल, दैनिक समाज जागरण किशनगंज

जिला पदाधिकारी के निर्देश अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी अमिताभ कुमार गुप्ता, किशनगंज सीओ समीर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णानंद चक्रवर्ती के मौजूदगी में किशनगंज मुख्यालय स्थित गांधीनगर मोहल्ला में राजेश साह के घर में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकली कीटनाशक छिड़काव पाउडर बरामद किया गया। साथ ही घर के मालिक राजेश साह को गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार घर के मालिक ने बताया कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर पर आया और या पाउडर हम लोगों को दिया साथ ही पाउडर को पैक करने के लिए पैकेट भी दिया हम लोग पाउडर पैक करके उसे

व्यक्ति को देते थे और उसे व्यक्ति बदले में हजार रुपए देकर चला जाता था इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। वही मौके पर मौजूद अनुमंडल पदाधिकारी अमिताभ कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला पदाधिकारी के द्वारा जांच करने का आदेश दिया गया था। इसी कड़ी में एक टीम बनाकर गांधीनगर मोहल्ले में जांच किया गया। जांच के दौरान भारी मात्रा में नकली कीटनाशक पाउडर बरामद किया गया सभी नकली पाउडर को जप्त कर लिया गया है। अभी पूछताछ जारी है तथा इस धंधे में जो लोग भी शामिल हैं उन पर करी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सिलीगुड़ी में पिता के इलाज के लिए रखे 89000 हजार रुपये बैंक से गायब, साइबर क्राइम थाना में मामला दर्ज

उत्तम सिंहः संवाददाताः दैनिक समाज जागरणः ब्यूरोचीफ (दार्जिलिंग):

बदलते समय के साथ अब साइबर फ्रॉड के तरीके भी हर दिन बदल रहे है । लोग जितने जागरूक हो रहे है । साइबर फ्रॉड भी उतने ही शातिर हो रहे है । हर दिन कई लोग किसी न किसी साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंस कर अपने वर्षों की पूंजी गंवा रहे है । सिलीगुड़ी से भी एक ऐसा मामला सामने आया है । जहां बीना किसी ओटीपी के बैंक अकाउंट 89000 हजार रुपए गायब हो गए । मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी के भक्ति नगर चेकपोस्ट के रहने अमलान ज्योति सरकार पिता के इलाज के लिए 89,000 हजार रुपये अपने बैंक में जमा किये थे । अमलान एक अक्टूबर को अपने पिता के इलाज के लिए बेंगलुरु जाने वाले थे । जिसके लिए ट्रेन कि टिकट भी बना लिया था । इससे पहले अमलान के साथ साइबर फ्रॉड हो

गया । साइबर फ्रॉड के शिकार हुए अमलान ज्योति सरकार ने कहा है कि बुधवार शाम को एक नंबर से फोन आया । जिस पर उन्हें बताया गया कि ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के लिए 1 और कैंसल करने के लिए 9 दबाये । वह ट्रांजैक्शन रद्द करने के लिए 9 दबा दिया । थोड़ी देर बाद बीना किसी ओटीपी के उसके बैंक अकाउंट से 89000 हजार रुपये गायब हो गए । जिसके बाद वह बैंक से संपर्क किया। आरोप है कि बैंक ने इस मामले में उसका कोई भी सहयोग नहीं किया । इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में लिखित शिकायत दर्ज किया । अमलान ने कहा कि पिता के इलाज के लिए रखे पैसे गायब हो जाने से वह बहुत चिंतित हो गए है ।

ठाकुरगंज : विभिन्न क्षेत्रों से आए आशिक ए रसूल ने निकाली जुलूस ए मोहम्मदी हुजूर की आमद-मरहबा से गूंजा पौआखाली

पियुष रंजन सिंह समाज जागरण विशेष संवाददाता पूर्णियां प्रमंडल

मुसलमानों के आखिरी नबी हुजूरे पाक मोहम्मद साहब(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)के यौमे पैदाइश के दिन की याद में गुरुवार को किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत नवगठित नगर पंचायत पौआखाली में जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन किया गया,जिसमें कई पंचायत के हजारों अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूस के दौरान आशिक ए रसूल द्वारा लगाए गए नारे"नारा ए तकबीर और हुजूर की आमद-मरहबा"से पूरा इलाका गूंजायमान हो उठा। इस दौरान मौसम तो बिल्कुल साफ रहा लेकिन,भीषण गर्मी और उमस से जुलूस में शामिल लोग खासे परेशान भी दिखे।लोगों को गर्मी और प्यास से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत के कई समाजसेवी युवाओं ने खीर व शरबत का इंतजाम कर रखा था,जिससे जुलूस में शामिल अकीदतमंदों को बहुत राहत मिली। नगर पंचायत पौआखाली में जुलूस कमेटी के स्वयंसेवकों और जुलूस में शामिल लोगों के उत्साह वर्धन में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया ने भी अहम भागीदारी निभाई और जेसीबी को सवारी वाहन के तौर पर इस्तेमाल

करते हुए उसके लोडर पर चढ़कर जुलूस में शामिल हुए। वहीं जश्ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तातपौआ पंचायत के अकीदतमंदो को जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल होने के लिए पौआखाली रवाना करने के दौरान स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मो रसमुद्दीन ने कहा कि आज हमारे आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद साहब(स.व.) के जन्म का मुबारक दिन है।उन्होंने हमें अमन व सलामती का पैगाम दिया एवं लोगों को ऐसे उसूल व जवावत दिए जो, लोगों को बेहद पसंद आए और हम आज उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं।इसी खुशी के मौके पर यह आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रखंड मुख्यालय ठाकुरगंज में आयोजित जुलूस ए मोहम्मदी में स्थानीय पूर्व विधायक सह अल्पसंख्यक आयोग,बिहार के उपाध्यक्ष नौशाद आलम ने भी शिरकत की व अकीदतमंदो को शुभकामनाएं दी।पौआखाली में इस दौरान जुलूस के शांतिपूर्वक समापन के लिए पौआखाली थानाध्यक्ष रंजन कुमार यादव एवं सुखानी थानाध्यक्ष रामलाल भारती अपने थाने के महिला-पुरुष पुलिस बल के साथ पूरी तरह मुस्तैद रहे। पौआखाली के गणमान्य नागरिकों ने जुलूस के शांतिपूर्ण समापन की व्यवस्था के लिए दोनों ही थानाध्यक्षों का आभार व्यक्त किया है।

चिंता : सीमावर्ती क्षेत्र के युवा ड्रग्स के कारोबार में हो रहे हैं लिप्त

जिला पुलिस झापा, नेपाल नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु कर रही प्रयास

नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु स्थानीयों का सहयोग अपेक्षित – खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, डी एस पी, झापा

दैनिक समाज जागरण संवाददाता

गलगलिया(किशनगंज) । जिला पुलिस झापा किसी भी शर्त पर इस सीमावर्ती इलाके को नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु कटिबद्ध हैं । इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है ।

इसी क्रम में झापा जिला पुलिस ने दो अलग-अलग घटनाओं में संदिग्ध ब्राउन सुगर के साथ तीन लोगों को हिरासत में लिया है । हिरासत में लिए गए अभियुक्तों के नाम 36 वर्षीय विजय कुमार राजवंशी, 26 वर्षीय सुमन राजवंशी एवं 42 वर्षीय दीपक प्रसाद बताया गया है । उक्त तीनों अभियुक्त झापा जिला के निवासी बताये गए हैं ।

मिली जानकारी के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर नेपाल की झापा जिला पुलिस ने भद्रपुर-गलगलिया सीमा पर स्थित मेची पुल पर गलगलिया से भद्रपुर आ रहे दो बाइक सवार को रोककर पूछताछ करने के क्रम में शक होने पर उक्त युवकों की तलाशी ली । तलाशी के क्रम में विजय कुमार राजवंशी के हेलमेट से 2 ग्राम 950 मिलीग्राम संदिग्ध ब्राउन सुगर बरामद की गई । वहीं दूसरी ओर झापा जिला अंतर्गत कांकड़भिट्टा कस्टम गेट के सामने भारत से नेपाल आ रहे बाइक सवार 42 वर्षीय दीपक प्रसाद को कांकड़भिट्टा पुलिस व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कांकड़भिट्टा ने संयुक्त रूप 4 ग्राम 500 मिलीग्राम संदिग्ध ब्राउन सुगर के साथ हिरासत में लिया है ।

फिलहाल झापा जिला पुलिस अग्रिम करवाई में व्यस्त है । वहीं झापा जिला डी एस पी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर इस सीमावर्ती इलाके को नशामुक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं । उन्होंने वर्तमान पीढ़ी के युवाओं को ड्रग्स कारोबारियों के चंगुल में न फंसकर अपने काम पर ध्यान देने की बात कही । उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में हमारे समाज के लिए यह एक गंभीर समस्या बन सकती है । नशा मुक्त समाज के निर्माण हेतु स्थिति को देखते हुए जरूरत है कि इस मामले में इंडो-नेपाल पुलिस संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर समस्या समाधान की पहल करे।

पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व के अवसर पर किशनगंज शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई

राहुल, दैनिक समाज जागरण किशनगंज

पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व के अवसर पर किशनगंज शहर के महावीर मार्ग स्थित जैन मंदिर से जैन युवा मंडल के तत्वाधान में जैन समाज के लोगों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा मैं विभिन्न तरह के झांकियां देखी गई शोभा यात्रा शहर के महावीर मार्ग स्थित जैन मंदिर से होते हुए गांधी चौक नेम चंद रोड फल चौक धर्मशाला रोड होते हुए जैन मंदिर में संपन्न हुई भव्य शोभा यात्रा में जेन समाज के अध्यक्ष सह समाजसेवी त्रिलोक चंद्र जैन, गुरुद्वारा के प्रबंधक लखविंदर सिंह संजय जैन व वह अन्य म वह अन्य गण्य-मान लोग मौजूद थे।

भव्य भंडारा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

दैनिक समाज जागरण वीरेंद्र यादव जिला संवाददाता औरंगाबाद (बिहार) 28 सितंबर

औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के कुरका गाँव मे शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के द्वारा भव्य भण्डारा और और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।शक्ति मिश्रा ने बताया की भण्डारा में लगभग एक हजार लोगों ने भोजन किया।आसपास के हजारों लोग सन्ध्या में पहुंचे।जहाँ रात्रि में बनारस से आये कलाकरों ने अपनी संगीतमय प्रस्तुस्ति को दिया जहां श्रोताओं ने भक्ति प्रस्तुति पर झूम झूम कर डांस किया।इस दौरान शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के द्वारा लगातार 10 दिनों से पूजा पाठ एव अन्य कार्यो में लगे लोगों को मंच पर बुलाकर समानित किया गया।ज्ञात हो कि शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के तहत लगातार

पिछले कई महीनों ने जरूरतमंद गरीब असहाय पीड़ित लोगों को सहयोग प्रदान की जा रहिए है।शक्ति मिश्रा खुद इस तरह के सहयोगी कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।कुरका गाँव मे लगातार 10 दिनों से गणेश उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है।प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित की जा रही जा रही।इस उत्सव कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंच कर भाग लेते हैं।

नबीनगर के भवानोखाप मे उल्लास पूर्वक मनाया गया गणेशोत्सव

दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)

नबीनगर (बिहार) 28 सितंबर 2023 औरंगाबाद जिले के नगर पंचायत नबीनगर के भवानोखाप मे गणेशोत्सव घूम धाम से एवम उल्लास पूर्वक मनाया गया।आज एक भव्य जुलूस के साथ गणेशोत्सव पुनपुन नदी में मूर्ति

विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर भावानोखाप मे भगवान गणेश की भव्य एवम आकर्षक प्रतिमा स्थापित किया गया था एवम पूजा पाठ किया गया। शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रायः 10 दिनो तक चलने वाले गणेशोत्सव भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विध्नहर्ता,मंगलकर्ता के रूप मे माने जानें वाले श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर भवानो खाप मे सायं 7 बजे से रात्रि ग्यारह बजे तक एक सप्ताह रामलीला कार्यक्रम का आयोजन हुआ जो बुधवार को समाप्त हुआ। जुलुस में सुरक्षा और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से पर्याप्त संख्या मे सुरक्षा बल जुलूस के साथ चल रहे थे

पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस द्वारा अपहृता को किया गया बरामद

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।

दिनांक 21 सितंबर को पीड़िता तसलीमा खातुन पति मंजुर साकिन अलीनगर, थाना-पहाड़कट्टा के पुलिस को समर्पित आवेदन के आधार पर अपनी पुत्री को साजिश के तहत बेचने के नियत से घर से भगा कर ले जाने के आरोप में पहाड़कट्टा थाना के अन्तर्गत राहुल पिता पोड़ा लाल हरिजन साकिन अलीनगर, थाना पहाड़कट्टा एवं अन्य दो के विरूद्ध कांड दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम के द्वारा लगातार छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में 27 सितंबर को अपहृता के बस स्टैण्ड में होने की गुप्त सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। तत्पश्चात त्वरित कारवाई करते हुए अपहृता को किशनगंज बस स्टैण्ड से बरामद किया गया। कांड में अग्रेतर कारवाई की जा रही है।

जन्मदिन के मौके पर ऋचा घोष को बधाई देने का लगा तांता

उत्तम सिंहः संवाददाताः दैनिक समाज जागरणः ब्यूरोचीफ (दार्जिलिंग):

आज ऋचा घोष का जन्मदिन है। इस मौके को खास बनाने के लिए शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जन्मदिन के मौके पर सुबह से ऋचा घोष को बधाई देने का तांता लगा है। ऋचा घोष के जन्मदिन के मौके पर कंचनजंगा स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मेयर गौतम देव, सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद के सदस्य मौजूद थे। वहां विभिन्न संगठनों ने ऋचा घोष को

जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही ऋचा घोष ने केक भी काटा।

अपने जन्मदिन पर ऋचा घोष ने महकमा क्रीड़ा परिषद और बाघाजतिन एथलेटिक क्लब को एक-एक लाख रुपये सौंपे। आज सुबह ऋचा घोष के घर जाकर मेयर गौतम देव सहित मेयर पार्षदों ने ऋचा को जन्मदिन की बधाई दी। ऋचा की मां ने कहा कि घर पर बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। गर्मी के लिए कुछ खास नहीं बना है, लेकिन मछली और चिकन बनाया जा रहा है। ऋचा को फ्राइड राइस पसंद है,लेकिन गर्मी के कारण वह भी नहीं बनाया जा रहा है।

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व

दैनिक समाज जागरण अजय कुमार सोनी करगहर रोहतास

रोहतास जिले के करगहर में गुरूवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद मिलादुन्नबी के पावन पर्व पर बाजार में चल समारोह का जुलूस निकाला गया। चल समारोह जुलूस की सदारत (अगुवाई) खलीफा मो०सनौवर राईन ने की । युवाओं द्वारा इस पर्व को लेकर सारे पुरे बाजार और गांव में सजावट कर ईस्लामी झंडीयों से सजाया गया। चल समारोह जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के नन्हें-मुन्ने छोटे-छोटे बच्चे रंग -बिरंगी पोशाकों के साथ हाथों में इस्लामिक झंडे थामे नाते शरीफ गाते चल रहे थे । चल समारोह में करगहर गांव एवं बाजार के हर वर्ग के एवं सभी समाज के लोग एकत्रित हुए। चल समारोह जुलूस मुख्य बाजार एवं गांव से होते हुए सिरिसिंया गांव तक चल समारोह जुलूस गया। जिसके बाद दरगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ सभी समाज के लोगों ने अपने गांव के साथ-साथ अपने प्रदेश और देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। चल समारोह जुलूस

मे झण्डे, बैनर लिये मुस्लिम समुदाय के लोग चल रहे थे। जुलूस के साथ चल रही गाडिड्रों बने मक्का मदीना की परियॉ आदि की झॉकियॉ विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र बनी हुयी थीं। बाजार में कई जगहों इस चल समारोह जुलूस का स्वागत किया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने अमन चैन और भाई -चारे का संदेश दिया । जुलूस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा। चल समारोह जुलूस में शामिल, नजीर राईन , गुड्डू राईन, युवा अध्यक्ष दरोगा आलम, नौशाद वारिस, प्रबेज अख्तर, सदाम आलम, जुगुनू राईन, अख्तर राइन, मन्नु आलम, शहनाज आलम, जैनुल आबेदीन, अख्तर राईन, इश्तेखार आलम,जुलूस में इमाम इमरान कादरी,सलीम खान,लड्डू ,प्रवेज सफीक राईन,मुमताज आलम, बड़क राईन,सज्जाद राईन, अख्तर राइन ,दौलत राईन आदि शामिल थे।

करगहर सीएचसी में आयुष्मान भवः के अंतर्गत किया गया हेल्थ मेला का आयोजन

दैनिक समाज जागरण राज कुमार सिंह कोचस रोहतास

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करगहर में गुरूवार को सेवा पखवाड़ा के तहत कैंप लगाकर आयुष्मान भवः के तहत हेल्थ मेला का आयोजन किया गया। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि सीएचसी में आयुष्मान भवः के अंतर्गत विशेष कैंप लगाकर हेल्थ मेला का आयोजन किया गया। जिसमें सासाराम गोपाल नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार के सुप्रसिद्ध चिकित्सक भाग लिए। जिसमें औषधि विभाग के डॉ. सौरभ पान्डेय , सर्जरी विभाग डॉ. उर्वशी राई , प्रसूती व स्त्री रोग विभाग डॉ. संस्कृति, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. मोहित , शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अमित शेखरे, नाक कान व गला विभाग डॉ. कुमारी नेहा,नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अनामिका ,चर्म व रति

रोग विभाग डॉ. प्रनव रावल , नेत्र रोग विभाग अनिशिका, परिचारिका उज्जवल कुमार , पप्पू कुमार, सामुदायिक औषधी विभाग सुनील कुमार सिंह, ओपीडी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, रिजवान अहमद सहित कई अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। वही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि प्रखंड के सभी महिला तथा पुरुष इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जिसमे बाहर से आए सभी विभाग के चिकित्सक के द्वारा आए हुए लोगों का शुगर, बीपी,हीमोग्लोबिन सहित अन्य रोगो का इलाज किया गया। मौके पर भाजपा मण्डल अध्यक्ष शशिकांत पांडेय,मंगल साह, अनूप पाठक, विकास गुप्ता व विशाल कुमार शामिल थे।

भैंस से टकराकर चाट में गिरे बाइक सवार, दो घायल

दैनिक समाज जागरण अजय कुमार सोनी करगहर रोहतास

रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार को पड़हुती मोड़ के समीप भैंस से टकराकर बाइक सवार सड़क के गहरे चाट में जा गिरे। इस घटना में बाइक सवार दो युवक बुरी तरह घायल हो गए। आनन-फानन में ग्रामीणों ने घायलों को एक निजी क्लीनिक में ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया। बताया जाता है कि कैमूर जिला के गायघाट निवासी मनोज राम और निखिल कुमार बाइक से कुदरा स्थित अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे की पड़हुती मोड़ के समीप सड़क के किनारे घास चर रही एक भैंस दौड़कर सामने आ गई। जिससे वे अनियंत्रित होकर बचने का प्रयास किया। इस दौरान वे सड़क के गहरे चाट में जा गिरे। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

आकस्मिक निधन पर जेडीयू कार्यालय गोड़ारी में शोक सभा का आयोजन

दैनिक समाज जागरण अमित कुमार काराकाट रोहतास

रोहतास जिला अंतर्गत नासरीगंज प्रखंड के जेडीयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मनोज गुप्ता की आकस्मिक निधन पर गोड़ारी जदयू कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। नासरीगंज नगर के वार्ड संख्या एक के निवासी पिछले कुछ माह से बीमार चल रहे थे। वे पटना के आइजीआइएमएस में भर्ती थे। इसके पूर्व इनका इलाज लखनऊ में चल रहा था स्थित में सुधार होने के बाद घर वापस आ गये थे। लेकिन 20 सितंबर को अचानक तबियत बिगड़ी और दुबारा पटना ले जाया गया लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद गोड़ारी जदयू कार्यालय में शोक सभा का आयोजन कर दो मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की शांति के लिए शोक श्रंद्धाजंलि दी गई। शोक सभा में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी राम, जदयू जिलाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा, रोहतास जिला एससी एसटी के जिलाध्यक्ष दिलीप राम, जदयू प्रखंड अध्यक्ष आशुतोष सिंह , जिला जदयू उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, जदयू जिला महासचिव जय शंकर पटेल,जदयू जिला सचिव परशुराम सिंह,रामचंद्र पासवान,अनिल पासवान,जय शंकर, बीरेंद्र कु. सिंह सहित जदयू के कई कार्यकर्ता थे।

मध्य विद्यालय चिकसिल में मध्यान भोजन का चावल बेचने के मामले में प्रधानाध्यापक पर अधिकारी मेहरबान

दैनिक समाज जागरण अमित कुमार काराकाट रोहतास

रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड काफी दिनों से अपने नए-नए कारनामों से काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ताजा मामला काराकाट प्रखंड क्षेत्र के संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय चिकिसील का है। जहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुनीर आलम के द्वारा दिन में सरेआम बाइक सवार को मध्यान भोजन का चावल बेचने से संबंधित सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चावल बेचने का वीडियो और फोटो वायरल होने लगा जिसको लेकर काफी दिनों तक संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय चिकसिल काराकाट प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे जिले में एक अलग अंदाज में अपना सुर्खियां बटोरता रहा। आपको बता दे की जब सोशल मीडिया पर चावल बेचने का वीडियो और फोटो तेजी से वायरल होना शुरू किया तो जिले के अधिकारियों की नींद खुली और प्रधानाध्यापक मुनीर आलम की करतूत देख उनके होश उड़ गए। शिक्षा विभाग के जिला के वरीय पदाधिकारी विभाग की प्रतिष्ठा को बचाने के उद्देश्य से चावल बेचने वाले प्रधानाध्यापक मुनीर आलम पर एक स्पष्टीकरण व एमडीएम प्रभारी के द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए मात्र खानापूर्ति ही किया गया। जबकि चावल बेचने से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य रहते हुए भी प्रखंड व जिले के पदाधिकारी के द्वारा आज तक ऐसे भ्रष्ट प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित नही किया गया। बल्कि जिले के वरीय पदाधिकारियों की मेहरबानी से प्रधानाध्यापक मुनीर आलम को काराकाट प्रखंड के चिकसिल से हटाते हुए दिनारा प्रखंड के मध्य विद्यालय तेनुअज का प्रधानाध्यापक भी बना दिया गया। जो लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है की ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। आखिर शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी कार्रवाई करने से क्यों परहेज कर रहे हैं अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने स्पष्ट रूप से जिले के वरीय पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं इस भ्रष्ट प्रधानाध्यापक मुनीर आलम को संरक्षण देने में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कलामुद्दीन व जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार का हाथ होना प्रतीत होता है। लोगों के मन मे सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मध्य विद्यालय चिकित्सा के प्रधानाध्यापक मुनीर आलम शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े मध्यान भोजन का चावल बेच रहे थे। जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो भी काफी तेजी से वायरल हुआ। तो फिर ऐसे भ्रष्ट प्रधानाध्यापक पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। जिसको लेकर स्थानीय गांव के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कलामुद्दीन अंसारी के मोबाइल पर लगातार संपर्क किया गया तो उन्होंने मोबाइल रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा। जबकि काराकाट बीआरसी में नव पदस्थापित वीपीएम नवीन कुमार ने बताया कि जांच के क्रम में मध्य विद्यालय चिकसिल से दो शिक्षक इशरत व हीरा साह अपना उपस्थिति दर्ज कर बगैर सूचना के विद्यालय से गायब पाए गए थे जिससे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कलामुद्दीन

अंसारी बेखबर है। विद्यालय के मध्यान भोजन का चावल बेचना बहुत ही बड़ा अपराध है। ऐसे भ्रष्ट प्रधानाध्यापक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए था जो आज तक नही हुआ। कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कलामुद्दीन अंसारी व जिले में बैठे हुए शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी की मिली भगत होने से इनकार नही किया जा सकता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कलामुद्दीन अंसारी व जिला में बैठे हुए शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी के द्वारा आर्थिक लाभ लेकर मामले को पूर्ण रूप से से लीपा-पोती कर दिया गया है। आखिर ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर तत्कालीन जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा उचित कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। इस पदाधिकारी का भी इस मामले में संलिप्तता होने से इंकार नही किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं से जांच का विषय है अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिले में ईमानदार व स्वच्छ छवि वाले नव पदस्थापित जिलाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उचित कार्रवाई किया जाता है या फिर इनके द्वारा भी लीपापोती करने का कार्य किया जाता है।

सुर्यपुरा फुटबॉल टीम के पुर्व कप्तान का निधन

दैनिक समाज जागरण साहिल राज दावथ रोहतास

रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल स्थित सुर्यपुरा न्यू स्पोर्टिंग क्लब के सबसे लंबे अवधि तक कप्तान की भुमिका में रहे सुनील कुमार सिंह का झारखंड के टाटानगर में ब्रेन हेमरेज से सोमवार को निधन हो गया। सोमवार को हुई इस घटना की जानकारी सुर्यपुरा में मिली, तो चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गयी। सभी ने सुनील सिंह को एक बेहतर कप्तान और मजबूत डिफेंडर (बैकी) की रुप में देखा। लोगों ने बताया 57 बर्षीय सुनील सिंह को कप्तान रहते सुर्यपुरा फुटबॉल टीम अपने स्वार्णिम काल में थी। उनके समय सुर्यपुरा टीम की डंका जिले से लेकर शाहाबाद में गुंजता था। उन्होंने प्रखंड स्तर के खेलों का भी कई बार नेतृत्व किया। उनका खेल का दुनिया में 1985 से 1999 तक इनका खेल देखने लायक था।इनके दो भाई सुर्यपुरा से विभिन्न पत्रों में पत्रकार की भुमिका में एक सजग प्रहरी की भुमिका का निर्वहन करते हैं। सुनील कुमार सिंह की मृत्यु से पत्रकार वर्ग में भी शोक व्याप्त है। सुनील कुमार पांच भाई थे। जिसमें तीन पत्रकारिता से जुड़े हैं। शोक संतप्त परिवार में साहिल राज, राजेन्द्र सिंह,राजु पाठक, चारोधाम मिश्रा शामिल थे।

पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्मदिन पर निकाला गया जुलूस

दैनिक समाज जागरण साहिल राज दावथ रोहतास

रोहतास जिला अंतर्गत दावथ प्रखंड क्षेत्र स्थित सेमरी में हजरत पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्मदिन पर गुरुवार को जुलूस निकाला गया। जुलुस सेमरी गांव से निकलकर मलियाबाग नेशनल हाईवे, डुमरांव रोड स्थित सब्जी बजार होते हुए कर्बला पहुंचा।इस दौरान सभी धार्मिक झंडा लेकर बाजा बजाते हुए जा रहे थे। दावथ थाना अध्यक्ष भी जुलुस को लेकर काफी सजग दिखे। वही एएसआई तिल्ला उरांव पुलिस बल के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मिलादुन्नबी के साथ- साथ कुरान ख्वानी का आयोजन किया।जुलुसे मुहम्मदी की नेतृत्व हाफिज बबन अंसारी कर रहे थे।जिसमें विभिन्न गांवों से पहुंचे अकीदत मंदों ने हिस्सा लिया।इस दौरान लोग हुजूर की आमद मरहबा ईद मिलादुन्नबी जिन्दाबाद, ईद मिलादुन्नबी जिन्दाबाद का नारा लगा रहे थे।

इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार तीसरे महीने यानी रबी अल अव्वल की 12 वी तारीख को 571 हिजरी मे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगम्बर हजरत और उनके द्वारा दी गई इल्म का यह दिन समर्पित किया जाता है। मौके पर मौलाना तैयाब अली,मौलाना इसराफिल साहब,सदाम हुसैन, फुरकान,सहनवाज हुसैन मौजूद थे।

65 घंटे बाद दूसरा शव बरामद

दैनिक समाज जागरण विकाश शुक्ला चेनारी रोहतास

रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कैमुर पहाड़ी पर पहाड़ी स्थित गुप्ताधाम से वीते सोमवार को दर्शन कर लौट रहे दो श्रद्धालुओं झरने की तेज बहाव में बहने से 70 फिट नदी में जा गिरे। 65 घण्टे बाद एसडीआरएफ की टीम द्वारा काफी खोजबीन के बाद गुरुवार की दोपहर दूसरे शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहपुर निवासी स्वर्गीय सुखदेव राम के 40 वर्षीय पुत्र कामेश्वर राम उर्फ गुड्डू राम के रूप में हुई। वही चेनारी थाना की पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया। इधर शव मिलने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तत्काल घटना स्थल पर पहुच गए। इधर घटना की जानकारी मृतक के पत्नी को जैसे मिली वह दहाड़ मारकर रोने लगी। मृतक के दरवाजे पर सैकड़ो लोगो की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। बता दे कि मृतक दो भाइयों में बड़ा था। वह डेहरी के पाली रोड का मूल निवासी है। जो 10 वर्षों से सिंहपुर गांव में घर बनाकर रह रहा था। वही छोटा भाई रमेश राम बाहर नौकरी करता है। वही गुड्डू की पत्नी उषा देवी का रो-रो कर बुरा हाल है। मृतक के दो पुत्र विक्की कुमार 12 वर्ष विकास कुमार 14 वर्ष व एक पुत्री जिनका नाम निशा कुमारी उम्र 17 वर्ष है।

व्रत रख पूजा पाठ कर भक्तों ने सुनी भगवान अनन्त की कथा

दैनिक समाज जागरण मंटू तिवारी राजपुर रोहतास

रोहतास जिले के राजपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चतुर्दशी के अवसर पर गुरुवार को भगवान अनन्त का व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। सभी गांवों में वैष्णव संप्रदाय से जुड़े श्रद्धालु दोपहर तक का उपवास रख मंदिर अथवा सार्वजनिक स्थलों पर गये,जहां अपने पुरोहित के नेतृत्व में बैठ भगवान विष्णु के अनन्त स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए अनन्त व्रत कथा का श्रवण किया। जिसके बाद भगवान के समक्ष नतमस्तक हो 14 डोरी से निर्मित अनन्त भगवान के गाठ को अपने भुजाओं पर धारण किया। वेद मर्मज्ञ पंडित ब्रजभूषण द्विवेदी,अंजनी स्वामी,शशि पाठक,कृष्णराज जी,सुअरा निवासी पंडित बिनोद ब्रहमचारी,बरदराज कुटिया पकड़ी के महंत सूर्यकांताचार्य जी महाराज,जगन्नाथ मठ अमरपुर के महंत सुदर्शनाचार्य जी महाराज,बरना श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी श्रीधर जी ने श्रद्धालु भक्तों के बीच भगवान अनन्त की कथा कहते हुए कहा कि द्वापर युग में जब पांडव अपना राजपाट हारकर बनवास चले गये

थे,तब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से राज पाट वापसी का उपाय पुछा ? जबाब में श्रीकृष्ण ने भगवान अनन्त व्रत कथा का विस्तार से वर्णन करते हुए युधिष्ठिर का मार्ग दर्शन कर व्रत रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में कौंडिण्य ऋषि की पत्नी शीला ने इस व्रत का सर्वप्रथम नदी किनारे अनुष्ठान किया था। जिससे उसे हर प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त हुई थी। हे युधिष्ठिर तुम भी अनंत व्रत का आयोजन करो। जिससे तुम्हें तमाम दुखों से मुक्ति और सद्गति प्राप्त होगी। तुम्हारा वैभव भी वापस प्राप्त होगा। तभी से वैष्णो संप्रदाय से जुड़े भक्त अनंत चतुर्दशी के अवसर पर इस व्रत को धारण कर भगवान के समक्ष नतमस्तक हो 14 डोरी से निर्मित भगवान अनंत के गांठ को अपने भुजाओं पर धारण करते हैं।जिसके उपरांत भगवान को भोग लगाया हुआ मिठा प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है। व्रत का आयोजन भलुआही, डिहरी, पडरियाा, बरना, अमाडी, मगरवलिया, काशीपुरी, राजपुर, पठखौलिया, श्रीनगर सुअरा, बघैला, सियांवक, मंगरवलिया समेत सभी गांवों में किया गया।

धूमधाम से मनाया गया अनंत चतुर्दशी का पर्व

दैनिक समाज जागरण प्रहलाद तिवारी बिक्रमगंज रोहतास

रोहतास जिला अंर्तगत बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न गांव में गुरुवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत भक्तिभाव से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर धर्मपरायण लोगों ने विभिन्न मंदिरों में पंडितजी से भगवान अनंत की कथा पाठ का श्रवण किया और चौदह गांठ लगे कच्चे धागे को श्रद्धापूर्वक अपने बांह पर धारण कर प्रसाद ग्रहण किया। यह व्रत भादो महीना के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर अनंतसूत्र बांधने से सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है।अनंत सूत्र कच्चे धागे या रेशम की डोर का बना होता है, इसमें 14 गांठें लगी होती हैं । इस पूजा में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इसी दिन गणेश विसर्जन का भी मान्यता है। जिससे पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आचार्य पंडित हरिशरण दुबे ने बताया कि इस दिन श्रद्धालु कलश की स्थापना करके उसपर अष्टदल कमल के समान बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके पास कुमकुम, केसर अथवा हल्दी से रंगे

कच्चे धागे को रखकर उसकी दूध ,गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नोवेद से पूजन करते हैं। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को पुरुष को अपने दायां हाथ एवं महिलाओं को अपनी बायां हाथ पर धारण करना चाहिए। मौके पर श्रद्धालुओं में विजय बहादुर सिंह , अंश , लक्ष्य सहित अन्य श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण किए।

14 गांठों का है विशेष महत्व :-

पंडित श्री दुबे ने बताया कि अनंत धागे में बने 14 गांठे चौदह लोकों का प्रतीक है। उनमें अनंत भगवान विद्यवान हैं। यह व्रत धन, पुत्रादि की कामना से विशेष किया जाता है। यह दिन अन्त न होने वाले सृष्टि के रचियता भगवान विष्णु की भक्ति का दिन है। ये विष्णु कृपारूप है और शेषनाग काल में विद्यमान हैं। अतः अनंत चतुर्दशी को दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला का माना गया है। ऐसा माना गया है कि अगर इस दिन व्रत रखने के साथ-साथ कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत का पाठ करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।

करूप बाजार पर किया गया स्वागत, आमसभा का आयोजन

दैनिक समाज जागरण अमित कुमार काराकाट रोहतास

रोहतास जिला अंर्तगत काराकाट प्रखंड के करूप बाजार पर गुरुवार को बिहार सरकार सदस्य राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार पटना श्याम बिहारी राम एवं ललन भूईया बिहार सरकार के अनुसूचित जाति उपाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत जमुआ टोला पर आमसभा किया गया। जिसकी अध्यक्षता दिलीप राम (राजद अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष), श्याम बिहारी के द्वारा कहा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के लिए अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा , स्वास्थ्य, सड़क, बिजली इत्यादि पर कार्य तेजी से हो रहा है। "ग्रामीण जनता के द्वारा करूप से जमुआ टोला पर रोड की मांग की गई , जिसपर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मौके पर नगर पंचायत काराकाट अभिभावक मुन्ना भारती , दीलीप राम(पूर्व उपप्रमुख) अभिभावक उमाशंकर पासवान(राजद नेता),रामेश्वर पाल,लल्लू यादव,दिलीप सोनी,जनेश्वर राम,सियाराम पासवान,गोरख राम,संतोष पासवान,जितेंद्र, उमेश इत्यादि जमुआ टोला के सभी महादलित लोग उपस्थित थे।

तेलकप पंचायत सरकार भवन पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित

दैनिक समाज जागरण अमन गुप्ता रोहतास

रोहतास प्रखंड के तेलकप पंचायत सरकार भवन पर वुधवार को जन जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी बबलू कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन से की गई। कार्यक्रम के संचालन उदय कुमार तिवारी ने की। बताया गया है कि इस कार्यक्रम में रोहतास प्रखंड सहित तेलकप पंचायत में चल रही कार्य योजनाओं के बारे में विभागीय चर्चा की गई। स्वागत भाषण के साथ शुरू की गई कार्यक्रम में प्रखंड स्वच्छता, आवास योजना, कृषि, राजस्व, स्वास्थ्य मनरेगा, अगनबाड़ी सहित अन्य विभागों के विभागीय अधिकारियों ने लोगों से जन संवाद किया व उनसे मिले प्रश्नों का उत्तर दिया। बीडीओ बबलू कुमार ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रखंड में बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन हो और लोगों को लाभ मिले इसको लेकर जन संवाद की जा रही है ताकि आपको चल रही योजनाओं का सीधा लाभ आमजन को मिल सके। मौके पर राजश्वव से पदाधिकारी गजानंद मेहता, वीपीआरो नीरज कुमार,बीसीएम आजाद कुमार, राजेश कुमार श्रीवास्तव, बिपीएम सुनील कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कन्हैया कुमार,रितेश कुमार,विकी कुमार,प्रियंका कुमारी,जितेंद्र कुमार,संदीप कुमार,भगवान उपाध्याय, प्रतिनिधि सुरेंद्र उरांव उप मुखिया, लाल बिहारी सिंह सरपंच, मित्युंजय मनीष कुमार व जयप्रकाश आदि उपस्थित थे।

रालोजपा प्रखंड अध्यक्ष नीकू पासवान की बाइक दुर्घटना में मौत

दैनिक समाज जागरण अमित कुमार काराकाट रोहतास

रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में नौजवान की मौत हो गई। बुधवार रात्रि को धनगाई नहर मे मोटरसाइकिल से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गयी। बाइक से गिरने के बाद नौजवान के गंभीर चोट लग तथा बाइक सवार का नाम हरीश कुमार उर्फ निकू पासवान रालोजपा प्रखंड अध्यक्ष काराकाट पिता सुरेंद्र पासवान निवासी नाद गांव का है। मृतक के परिजन काफी रोते व शोक दिखे। वहीं,नौजवान के शव का परिजनों के उपरांत पोस्टमार्टम कराया गया।

10 लीटर देशी शराब बरामद, कारोबारी फरार, अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज

दैनिक समाज जागरण अमित कुमार काराकाट रोहतास

रोहतास जिले के काराकाट थाने की पुलिस ने 10 लीटर देशी शराब बरामद किया, कारोबारी फरार। अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज। जानकारी देते हुए प्रशिक्षु डीएसपी सह काराकाट थानाध्यक्ष मोहम्मद शाहनवाज अख्तर ने बताया कि थाना क्षेत्र के चिकसील बाल से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 10 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है। पुलिस की भनक मिलते ही कारोबारी भागने में सफल रहा। बताया कि उक्त मामले में अज्ञात कारोबारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। उसे बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

70 वर्षीय वृद्ध की डूबने से हुई मौत परिजनों में मातम

दैनिक समाज जागरण राज कुमार सिंह कोचस रोहतास

रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के शाहमल खैरा गांव मे बृहस्पतिवार को दशकर्म मे सामिल हो नहर के चाट में स्नान करने गए 70 वर्षीय वृद्ध की पैर फिसल गई जिसमें उनकी डूब कर मौत हो गई। मृतक शाहमल खैरा निवासी स्वर्गीय भागीरथी राम के 70 वर्षीय पुत्र गुलाबचंद राम बताए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने पड़ोस के दशकर्म मे शामिल हो स्नान कर रहे थे कि उनकी पैर गीली मिट्टी पर फिसल गई जिसमे वे डूब गए। परिजनों तथा स्थानीय लोगों के द्वारा काफी खोजबीन की गई तभी खोजबीन के दौरान सेमरिया छलका के पास से उनके शव बरामद हुई। वही इस घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अमोद कुमार ने घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे मे ले मृत शरीर को पोस्टमार्टम कराने के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है।

एसटेट परीक्षा में गलत प्रश्नों पर संगीत के अभ्यर्थियों ने दर्ज की आपति

दैनिक समाज जागरण सतीश कुमार

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गत 10 जुलाई को आयोजित शिक्षक पात्रता (एसटेट)परीक्षा में संगीत विषय के प्रश्न पत्र में बड़ी संख्या में प्रश्न व वैकल्पिक उतरों में त्रुटि को लेकर संबंधित अभ्यर्थियों ने अपनी आपति दर्ज कराई है। संगीत विषय के अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्न पत्र में पन्द्रह से बीस प्रश्न व उनके लिए वैकल्पिक उतर त्रुटिपूर्ण हैं। जिसके कारण उन प्रश्नों को हल नहीं किया जा सका। संबंधित अभ्यर्थियों ने कहा कि इतने बडे पैमाने पर प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है । अभ्यर्थियों के अनुसार बिहार में

होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में त्रुटि आम बात है। यहां शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें प्रश्न पत्र शत प्रतिशत सही व दुरूस्त रहते हों। यहां तक की बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में भी त्रुटि मिलती रही है। अरविंद राम, गणेश सिंह, शंभू शरण, प्रमोद कुमार सौरभ कुमार, गणेश कुमार, मनीष कुमार, मंटू कुमार, निकेश कुमार, नीतेश कुमार, ज्योति प्रकाश आदि अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्रों को हटाकर उतर पुस्तिका की जांच कराने तथा समय पर परीक्षाफल घोषित करने की मांग की है।

पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिला आरक्षण सत्यनारायण यादव

दैनिक समाज जागरण सतीश कुमार

भोजपुर जिले के पीरो में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने संसद व विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए लागू होने वाले आरक्षण में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई है। इस संबध में बुधवार को पीरो स्थित पंचायत समिति के कार्यालय में सामाजिक कार्यकताओं की बैठक में आयोजित की गई। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रखंड अध्यक्ष सह मुंखिया ग्राम पंचायत चतुभुर्जी बरांव श्रीराम यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान लोकसभा और विधानसभाओं में लागू होने वाले महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग की महिलाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया । बैठक को सम्बोधित करते

हुए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रधान महासचिव सह चरपोखरी राजद अध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण में पिछड़ा और अनुसूचित जाति के महिलाओं के साथ हक मारी किया है। जिसे पिछड़ा अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बर्दाशत नहीं करेंगे। बैठक को संबोधित करने वालो में प्रखंड प्रमुख शमीमा बेगम, रमेश यादव, उदवंतनगर प्रखंड अध्यक्ष जितेंद यादव, मुन्ना पांडेय, जगदीश चौधरी, अशोक चौधरी, अजय यादव, हवा सिंह, शैलेंद्र सिंह, अमीर मिया, मिथलेश राय, संजय सिंह, गुडडूअंसारी, अमित सिंह, सोनू सिंह, रुस्तम अली, विजय यादव प्रमुख थे।

सर्पदंश से महिला की मौत

दैनिक समाज जागरण विकास कुमार

भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के मदई गांव में सर्पदंश से एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई।मृतका मदई गांव निवासी खलीफा राम की पत्नी उर्मिला देवी बताई जा रही है।बताया जा रहा है कि महिला प्रतिदिन की भांति बुधवार की रात करीब 10 बजे खाना खाकर अपने घर में सोई हुई थी कि अचानक विषैले सांप ने डस लिया।जिसके बाद आनन-फानन में परिजनों द्वारा महिला को ईलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। स्थिति चिंताजनक होने के कारण चिकित्सकों द्वारा महिला को बेहतर ईलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया।ईलाज के लिए पटना जाने के क्रम में महिला की मौत हो गई।महिला की अचानक मौत से परिजनों में चीख पुकार मच गई वही मामले की सूचना के बाद चरपोखरी पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया।

बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में युवक गिरफ्तार

दैनिक समाज जागरण नीरज त्रिपाठी

तरारी। भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इमादपुर थाना क्षेत्र के मोआप कला गांव में नाबालिक बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया। इमादपुर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि मोआप कला गांव में बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में मोआप कला गांव निवासी गौतम दास के पुत्र अरविन्द कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

विद्यालय के खेल मैदान पर वियर फैक्ट्री का अपशिष्ट रख किया जा रहा अतिक्रमण

दैनिक समाज जागरण ब्यूरो वेद प्रकाश यादव

भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय अमोरजा के खेल मैदान पर बीडीबीएल वियर फैक्ट्री से निकले अपशिष्ट (राख) को रखकर जमीन को अतिक्रमित करने के प्रयास के किया जा रहा है। जिसके कारण विद्यालय के छात्र छात्राओं व स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों की ओर से पत्रकार व आरटीआई कार्यकर्ता जयमंगल प्रसाद सिंह ने अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर विद्यालय की जमीन का अधिग्रहण रोकने व विद्यालय की छात्र छात्राओं को हो रहे परेशानी से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। अंचलाधिकारी को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि आरा-सासाराम स्टेट हाइवे पर चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय के नजदीक कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के ठीक बगल में समता उच्च माध्यमिक विद्यालय अमोरजा का लगभग डेढ एकड रकबा में खेल मैदान स्थित है। जिसमें खाता संख्या 16 अंतर्गत खेसरा 1208 में 103 डिसमिस, खेसरा 523 में 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध है । उक्त भूमि पूर्वजों द्वारा दान पत्र के माध्यम से विद्यालय को दिया गया था। प्रश्नगत भूमि पर साल 1979 से ही समता उच्च माध्यमिक विद्यालय का कब्जा बरकरार है। इस

भूमि का उपयोग खेल मैदान के रूप में होता आ रहा है। जिस पर विद्यालय के छात्र छात्राएं खेलकूद, व्यायाम सहित अन्य गतिविधियां करते आ रहे हैं। इसके अलावे खेल मैदान का उपयोग राजनीतिक व सामाजिक संगठनों को जनसभा व दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में किया जाता है। उक्त मैदान की जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा देवढी स्थित वियर फैक्ट्री से निकले अपशिष्ट को लाकर जमा किया जा रहा है। जिससे न केवल खेल मैदान की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कायम हो गया है बल्कि इससे यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के खेलकूद, व्यायाम आदि गतिविधियों में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। खुले मैदान पर भारी मात्रा में राख जमा किए जाने से आसपास का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। खासकर मैदान के बगल में स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं को अपशिष्ट रखे जाने से काफी परेशानी हो रही है। विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण से रोकने को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में उक्त लोग मनमाने ढंग से अपशिष्ट जमा कर जमीन हथियाने की साजिश रच रहे हैं। अगर प्रशासन तत्काल कोई कदम नहीं उठाता है तो विद्यालय की उक्त भूमि अतिक्रमण करने वालों के कब्जे में चली जाएगी। तब प्रखंड मुख्यालय के एकमात्र खेल मैदान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

नहाने के दौरान नहर में डूबने से छात्र की मौत

दैनिक समाज जागरण विकास कुमार

भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के पियनिया गांव में नहाने के दौरान नहर डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों के बीच अपरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मृत छात्र उदवंतनगर थाना क्षेत्र के पियनिया गांव निवासी मनोज कुमार साव का 13 वर्षीय पुत्र अमित कुमार है एवं सातवीं कक्षा का छात्र था। इधर मृत छात्र के पिता मनोज कुमार साव ने बताया कि आज अनंत पूजा को लेकर वह गांव के ही पांच अन्य दोस्तों के साथ पियनिया पुल स्थित नहर में नहाने गया था। जहां नहाने के दौरान वह डूबने लगा। इसके बाद उसके साथ नाहा रहे अन्य दोस्तों ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। सूचना पाकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और वहा मौजूद लोगों के सहयोग से उसे पानी से बाहर निकला। इसके बाद परिजन अपनी संतुष्टि को लेकर उसे आरा सदर अस्पताल ले आए। जहां चिकित्सक ने देख उसे मृत घोषित कर दिया। इसके पश्चात परिजनो ने इसकी सूचना सदर अस्पताल में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी को दी। सूचना पाकर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। बताया जाता है कि मृत छात्र अपने पांच बहन व दो भाई में छोटा था। मृत छात्र के परिवार में मां कलावती देवी, पांच बहन सोनाली, नेहा, पूजा, शोभा, आशा एवं एक भाई आदित्य कुमार है। हादसे के बाद मृत छात्रा के घर में हाहाकार मच गया है। बेटे की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां कलावती देवी व परिजनों की घर में चितकारियां गूंजने लगी। जहां सभी लोग अनंत पूजा के त्यौहार की खुशी मना रहे थे। वहीं कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर मिलते ही खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। इस हादसे के बाद मृत छात्र की मां कलावती देवी एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बूथ शशक्तिकरण को ले भाजपा का बैठक आयोजित

दैनिक समाज जागरण ओमजी तिवारी

भोजपुर जिला अंतर्गत तरारी विधान सभा क्षेत्र के सहार मंडल में शनिवार को शक्तिकेंद्र एकवारी गुलजारपुर और बंशी डिहरी में बूथ सशक्तिकरण को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि रंजन सिंह के अध्यक्षता में एक बैठक की गई। सभा का संचालन किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह ने किया। बैठक में आगामी चुनाव को ले

कर बूथ सशक्तिकरण और पार्टी की मजबूती पर जोड़ दिया गया । मौके पर जिला मंत्री भाजपा भोजपुर सह तरारी विधान सभा प्रभारी सम्मानित विनय बेलाउर पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री बबन राय जी, श्री नवल किशोर सिंह जी, अमित कुमार जी, हरेराम सिंह जी , प्रमोद सिंह जी युवा मोर्चा प्रकाश कुमार रणवीर उपाध्यक्ष अशोक कुमार पंचायत अध्यक्ष शशिकांत गुप्ता पंचायत उपाध्यक्ष धीरज राय सहित अन्य गणमान्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहें।

आज कनेक्शन के बिल सुधार का होगा निपटारा

दैनिक समाज जागरण ब्यूरो वेद प्रकाश यादव

आरा : आज भोजपुर जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय पर दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा में कैंप आयोजित होगा। जिसमें कृषि संबंधित विद्युत कनेक्शन के बिल सुधार सहित अन्य शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा होगा। कनीय अभियंता ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के किसानों के लिए यह कैंप होगा। जिसमें पूरे प्रखंड क्षेत्र के किसान अपनी शिकायतें लेकर पहुंच सकते है। बताया कि अन्य उपभोक्ता जिनका दो महीना या उससे अधिक समय तक बिजली बिल बकाया है संबंध विच्छेद होने से बचने के लिए तत्काल जमा कर दें। साथ ही जिनका बिजली बिल के बाद कनेक्शन कटा है वें लोग भी राशि जमा करने के बाद ही बिजली उपयोग कर सकते हैं।

जिला प्रशासन द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित, डीएम धर्मेंद्र कुमार को दी गई भावभीनी विदाई

दैनिक समाज जागरण मनोज कुमार रोहतास ब्यूरो

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना सूचना जारी कर रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का तबादला कर दिया है। स्थानांतरण के बाद डीएम धर्मेंद्र कुमार अब नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव के पद पर अपनी सेवा देंगे। जिसको लेकर रोहतास जिला प्रशासन द्वारा जिला अतिथि गृह में एक विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के कई वरीय एवं कनीय पदाधिकारीयों ने डीएम धर्मेंद्र कुमार को पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया तथा अपने अपने अनुभव साझा किए। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के साथ 2 साल 9 महीने के इस कार्यकाल में अपने खट्टी मीठे अनुभवों को साझा करते हुए कई अधिकारी भावुक भी दिखे तथा कहा कि ये पल हमेशा यादगार बने रहेंगे। वहीं विदाई समारोह को संबोधित करते हुए डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि विदाई समारोह को संबोधित करना सबसे कठिन क्षण है। रोहतास जिले

में 2 साल 9 महीने का बिताया गया क्षण मात्र 10 मिनट में बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि यह पल सेवा काल में पहले भी आया और आगे भी आएगा। लेकिन रोहतास जिले में बिताया गया समय मेरे लिए आजीवन खास रहेगा। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी पदाधिकारीयों एवं कर्मियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी तथा कहा कि सभी लोग इमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। विदाई समारोह के दौरान उनकी जीवन संगिनी अनु कुमारी, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार, उप विकास आयुक्त शेखर आनंद, जिला वन पदाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल, सदर एसडीओ आशुतोष रंजन, सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित जिले के सभी आला अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

मोहम्मदी नारों से गूंज उठा नोखा नगर परिषद

दैनिक समाज जागरण नसीम शाह नोखा रोहतास

इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व बहुत ही खास होता है। इस पर्व को ईदों की ईद कहा जाता है।क्योंकि इस दिन अल्लाह के पैगंबर हरजत मुहम्मद सल्लल्लाहो ताला अलेही वसल्लम की जन्मदिन है। बड़ी ही शानों शौकत से मनाया जाता है। नोखा में भी यह पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।ईद-ए-मिलाद-उन-नबी को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाली गई। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई। जुलूस में मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल मौजूद रहे। जहां पर की नोखा नगर परिषद में नोखा के सभी मस्जिद में सुबह में कुरान खानी और साथ ही ईद मिलादुन्नबी प्रोग्राम हुआ। फिर दस बजे से जमा मस्जिद के पास से मोहम्मदी जुलूस शुरू किया गया।और झंडा के साथ लेकर के विभिन्न मोहम्मदी नारों के साथ जुलूस जमा मस्जिद से अंसारी चौंक और हाशमी चौक गढ़ होते हुए मुख्य बाजार में पश्चिम पट्टी पहुंचा जहां से की नोखा बस स्टैंड पर मुख्य बाजार होते हुए आरा - सासाराम मुख्य रोड और वहां से वापस जमा मस्जिद के पास पहुंचकर के समापन किया गया। अंशुमाला,इन्तियाज आलम, वंदना व भारी पुलिस बल के साथ यह मोहम्मदी जुलूस निकाली गई। जहां पर की कई मोहम्मदी नारे लगाए। देश दुनिया की तरक्की के लिए दुआ भी मांगी गई देश मे अमन चैन के लिए भी दुआ मांगी गई। मौके पर हाफिज माहफुज कौशर, हजरत जैनुल हक बिस्मिल साहब, हजरत हाफिज रेयाज जमा मस्जिद इमाम साहब खुर्शीद अनवर हाफिज

जहां पर नमाज अदा की गई। इस मौके पर मजिस्ट्रेट के तौर पर सीडीपीओ आभा कुमारी पूरे रास्ते जुलूस के साथ नजर आई। इस पवित्र पर्व को लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोरमा कुमारी,थानाध्यक्ष उमेश कुमार, पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार, एस आइ विजय बैठा,रामबृज, नेहरू सर पैंथर, सुधीर कुमार, बबराज आलम, मोदरिस रेयाजु दिन जमा मस्जिद के सदर कयामुद्दीन हाशमी, सिगरेटरी शाहीद अनवर, कैशर आजम अफताब आलम गुडन, मंसुरी, ईशा ईदरिशी, आरीफ, मकसूद आलम समीम मंसुरी इजहार, राजा रहीमुद्दीन, आदिल हाशमी, खुर्शीद हाशमी, मनान शाह, शमशेर राइन बेलाल फरहत तबारक सहित सभी मस्जिदों सदस्य मौजुद रहे।

मैक्स पुस्तकालय का पूर्व मेयर ने किया उद्घाटन

दैनिक समाज जागरण हरेश कुमार

भोजपुर जिले के उदवंत नगर प्रखंड के जीरोमाइल स्थित मैक्स पुस्तकालय का उद्घाटन आरा की पूर्व मेयर सह वर्तमान वार्ड पार्षद रूबी तिवारी ने किया।रूबी तिवारी ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस पुस्तकालय के खुलने से आस पास सहित दूर दराज के युवकों व छात्र छात्रों को उनके भविष्य की तैयारी में इस तरह का पुस्तकालय वरदान साबित होगा। मौके पर संचालक अंकित राय, अभिषेक राय, विशाल कुमार, प्रियांशु सहित अन्य मौजूद थे।

विधि-विधान पूर्वक की गई भगवान अनन्त की पूजा अर्चना

दैनिक समाज जागरण बंटी राठौर

भोजपुर जिले के गड़हनी नगर पंचायत स्थित शिव मंदिर पुरानी बाजार एवं पथार गाँव स्थित मिश्रनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण मे गुरूवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सामुहिक रूप से क्षीरसागर मे शेषशैया पर विराजमान भगवान अनंत की पूजा अर्चना विधि विधान के अनुसार वैद्दिक मंत्रोचार के साथ की गई।अनंत पूजा के दौरान सैकड़ों भक्तों ने अनंत भगवान की पूजा अर्चना के साथ कथा श्रवण किया। इस दौरान व्रतधारी श्रद्धालुओ ने भक्तिमय माहौल के बीच भगवान अनन्त के जयकारे लगाते रहे।इस अवसर पर अभिषेक कुमार मिश्र, अभिनव कुमार मिश्र, कुमार गौरव, रितेश कुमार मिश्र, दिवाकर मिश्र, अनिल कुमार मिश्र, रितेश कुमार, बधारू, हीरानन्द मिश्र, शीतल मिश्रा, सविता कुमारी, खुशी मिश्रा, जया कुमारी, जय, उतम, आलोक, छोटी, निकिता, निधि, शाम्भवी, सुरभि अंश कुमार आयुष कुमार सहित सैकडों श्रद्धालु भक्तों ने भगवान नारायण की पूजा अर्चना की।

ईद ए मिलाद-उन-नबी के अवसर पर निकाली गई परंपरागत जुलूस, लोगों ने अमन चैन की मांगी दुआएं

दैनिक समाज जागरण प्रतिनिधि सासाराम

ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय सासाराम में परंपरागत तरीके से जुलूस निकाला गया। जिसमें हजारों लोग शामिल हुए तथा लोगों ने मजहबी झंडे के साथ शान से तिरंगा लहराया। इस दौरान शहर के विभिन्न मार्गो से गुजरते हुए जुलूस में शामिल मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने रसूल के समर्थन में जमकर नारे लगाए तथा जगह-जगह जुलूस का भव्य स्वागत भी किया गया। जुलूस शेरगंज से निकलकर अड्डा रोड, कचहरी मोड़, पोस्ट आफिस चौराहा, धर्मशाला मोड, चौखंडी पथ, चौक बाजार, नवरतन बाजार, सराय रोड, बस्ती मोड आदि मोहल्ले से होते हुए वापस शेरगंज में समाप्त किया गया। जहां काफी संख्या में लोगों ने फातिहा पढ़कर अमन चैन की दुआएं मांगी। वही जुलूस को देखते हुए रोहतास जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे तथा जगह-जगह दंडाधिकारियों के साथ काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। साथ ही जुलूस के आगे एवं पीछे भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जबकि जिले

के कई आला अधिकारी भी पर्याप्त पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गश्त करते दिखाई दिए। जिससे पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके। बता दें कि ईद ए मिलाद ऊन नबी मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक खास पर्व माना जाता है। जिसे मुस्लिम लोग ईदों की ईद भी कहते हैं। यह पर्व पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जिन्हें इस्लाम धर्म का अंतिम पैगंबर माना जाता है। जुलूस के दौरान सदर एसडीओ आशुतोष रंजन, कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रमा राम, एसडीपीओ दिलीप कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी जनार्दन तिवारी, अंचल अधिकारी निशांत कुमार, नगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे।

जदयू जिला उपाध्यक्ष के निधन पर शोक सभा आयोजित

दैनिक समाज जागरण प्रतिनिधि सासाराम

शहर के प्रभाकर रोड स्थित जदयू जिला कार्यालय में गुरुवार को पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता के आकस्मिक निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकताओं ने मनोज गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया तथा उन्हें श्रद्धांजलि देते आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा को सम्बोधित करते हुए अजय सिंह कुशवाहा ने कहा कि स्वर्गीय मनोज गुप्ता एक मृदु भाषी, कर्मठ और पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता थे। जिनके निधन से पार्टी तथा समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पार्टी के लिए अनवरत काम किया है तथा

दुनिया से चले जाने के बाद भी वह अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की बदौलत हम सबों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उनकी कमी हम सब हमेशा महसूस करेंगे। हम परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय मनोज गुप्ता की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को इस अतुलनिय कष्ट को सहने की क्षमता मिले। मौके पर राजेश सोनकर, जमालुद्दीन सिद्दीकी, बदरे कामिल अंसारी, असलम अंसारी, सिकंजय सिंह, अलख निरंजन, धनन्जय पटेल, संजय सिंह, अभिषेक पटेल, विनोद कुशवाहा, तौसीफ आलम, कमरुद्दीन फारूकी,इंजीनियर निखिल जय सिंह, मुजतबा अहमद, अजय महतो, अरुण सोनी, कमलेश कुमार, कन्टू यादव सहित अन्य उपस्थित रहे।



नित्यानंद बने जयनगर प्रखंड के कार्यकारी अध्यक्ष

समाज जागरण जयनगर नित्यानंद झा राजू 28 सितम्बर

जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गाँव निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता नित्यानंद झा को मधुबनी जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मिश्र ने जयनगर प्रखंड का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनित किया है। उन्हें जयनगर प्रखंड कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर कांग्रेस जनों ने बधाई देते हुए कहा है कि उन्हें जयनगर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने से प्रखंड में कांग्रेस के मजबूती को बल मिलेगा। उन्हें बधाई देने वालों में पूर्व मंत्री शकील अहमद, विधान पार्षद

प्रेमचंद्र मिश्र, नवेन्द्र झा, अनुरंजन सिंह, नेहाल शेख, धनुषलालमहतो, मीना देवी, राम एकबाल पासवान, रामचंद्र साह, मो चांद समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं।

पालिगंज में शहीद -ए -आजम भगत सिंह की जयंती पर निकाला युवा संकल्प मार्च

समाज जागरण संवाददाता:-वेद प्रकाश पालीगंज अनुमण्डल

पालीगंज/ गुरुवार को स्थानीय बाजार में इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) ने राष्ट्र नायक शहीद-ए -आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती पर अपने देशव्यापी कार्यक्रम के तहत पालीगंज में "युवा संकल्प मार्च" निकाला।

इस दौरान सैकड़ो कार्यकर्ताओ ने पालीगंज स्थित माले कार्यालय में भगत सिंह के जयंती मनाया। जिसके दौरान भगत सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। बाद में कार्यकर्ताओ ने अपने हाथों में संगठन का झंडा, बैनर व पोस्टर लेकर भाकपा माले कार्यालय से एक जुलूस निकाला जो बाजार को सड़कों से होते हुए

बिहटा बस स्टैंड पहुंचकर सभा मे तब्दील हो गयी। सभा को अध्यक्षता अविनाश कुमार ने किया। वही सभा को सम्बोधित करते हुए करते हुए इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सह जिला सह सचिव राजेश कुमार ने कहा की शहीदे आजम भगत सिंह देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने स्वतंत्र भारत की सपना देखा था। जिसे साकार करने के लिए अपना प्राण न्योछावर करते हुए शहीद हो गए।

मौके पर राजेश कुमार, पंचम कुमार अंबेडकर, अविनाश कुमार, नीतीश कुमार, बिनेश चौधरी, अखिलेश मांझी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

कड़ी सुरक्षा के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर सब का जयंती समारोह, जुलूस निकाल कर धूमधाम से मनाया।

समाज जागरण प्रखंड संवाददाता विकास कुमार

सुल्तानगंज बिहार में बड़ी सुरक्षाओं के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर साहब का जयंती समारोह धूमधाम से मनाया इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोलगामा नवादा जीवन कासिमपुर दिलगौरी इस्लामनगर रहमतनगर मिजापुर स्टेशन रोड छोटी मस्जिद घाट रोड मसदी सुल्तानगंज सब्जी मंडी बाजार सहित अन्य जगहों के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोहम्मदिया जुलूस निकालकर पैगंबर साहब के नाम लेकर पूरे शहर में घूमने आते हुए ढोल बाजे के साथ घूम और तिरंगा झंडा एवं पैगंबर साहब का झंडा लहराते हुए शाही मस्जिद में जाकर पैगंबर साहब के नाम से हथिया दरूद करते हुए पूरे देश में सुख शांति के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआ और खैर किया इस दौरान राजद मैनिरीटी के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मंजूर राजद नगर अध्यक्ष मोहम्मद अफरोज आलम सहित मुस्लिम समुदाय के लोग एवं इत्यादि पुलिस पदाधिकारी पुलिसकर्मी मौजूद थे।

अजगैविनाथ धाम में अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से मनाया गया।

समाज जागरणप्रखंड संवाददाता विकास कुमार

सुल्तानगंज बिहार के अजगैबीनाथ धाम में अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से मनाया गया वहीं शिव भक्तों ने अजगैबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर गंगाजल लेकर अपने-अपने गांव एवं मोहल्ले में स्थानीय पंडितों के द्वारा अनंत चतुर्दशी पर में भगवान विष्णु एवं भगवान श्री कृष्ण की पूजा मंत्र उपचार से करते हुए भगवान विष्णु पुराण एवं श्री कृष्ण की कथा सुनते हुए भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए अनंत चतुर्दशी पर अपने-अपने हाथों में अनंत बनते हुए की आराधना इस दौरान पंडित ने बताया की अनंत चतुर्दशी पर्व मनाने सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होते हैं आज के दिन भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान विष्णु की विशेष पूजा पाठ करते हुए भक्त बिना नमक का सेवन कर अपने अपने हाथों में अनंत बांधकर भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से अपनी अपनी मनोकामना मांगने पर सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होते हैं इसलिए खासकर भक्त अनंत चतुर्दशी पर नियम निष्ठा से अजगैबीनाथ धाम सहित विश्व में यह पर्व भक्त मानते हैं इस दौरान तमाम भक्त मौजूद थे।

पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी इंग्लिश चिचरौन पंचायत में हर घर जल नल योजना की जांच की।

समाज जागरण प्रखंड संवाददाता विकास कुमार

सुल्तानगंज बिहार प्रखंड के इंग्लिश चिचरौन पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा हर घर नल जल योजना का जांच करने पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी पहुंचे इस दौरान पंचायती राज्य पदाधिकारी नीलिमा कुमारी ने हर घर जल नल योजना का जांच करते हुए हर घर में नल जल कनेक्शन देने के लिए विभाग के अधिकारियों एवं संवेदना को कहा गया है और

ससमय सभी को हर घर में नल जल का पानी देने का निर्देश दिए गए इस दौरान पंचायत के वार्ड सदस्य सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

मानवाधिकार के हस्तक्षेप के पश्चात भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पर किए गए FIR को रोका गया

समाज जागरण

भागलपुर (बिहार)शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशान सिंह जी को भागलपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल महोदय ने आवेदन देकर अपने ऊपर किए गए ज्ञ्ञ्ञ्ञ का वर्णन समक्ष किया, उन्होंने कहा कि मैं सारा कार्य उस छात्र के भविष्य को देखते हुए मार्कशीट उपलब्ध कराने में खुद लगा हुआ हूं और मैं आरटीआई का भी जवाब दे दिया है दो अलग-अलग विश्वविद्यालय होने के कारण थोड़ी देर हो रही है परंतु मैं बहुत जल्द उसका अंक पत्र उपलब्ध करा दूंगा और विश्वविद्यालय के कार्यों के साथ-साथ छात्रों का भविष्य का भी मैं ख्याल रखता हूं ' इन्हीं सब बातों को लेकर मानवाधिकार अध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय थाना के थाना अध्यक्ष महोदय से मिलकर कुलपति महोदय के द्वारा बताए, गए सारे बातों से अवगत कराया थाना अध्यक्ष महोदय भी छात्र के भविष्य को लेकर गंभीर चिंतन करते हुए कहां की मैं किसी पर ज्ञ्ञ्ञ नहीं करूंगा यदि किसी भी बच्चे का थाना अध्यक्ष महोदय समझते हुए दोनों पक्षों के प्रति यही आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द अंग पत्र छात्र की उपलब्ध करा दी जाए ' इन सब बातों को मानवाधिकार गंभीरता से लेते हुए कुलपति महोदय से आगर किया है की छात्रा का अंक पत्र जल्द से जल्द उपलब्ध किसी भी हालत में कर दी जाए, अलग-अलग विश्वविद्यालय होने के कारण यो समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर

भविष्य अगर संभलता है या समरता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मानवाधिकार अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज भी संसार में इंसानियत कायम है मानवाधिकार का इससे अच्छा और परिचय क्या हो सकता है कुलपति महोदय के ऊपर हजारों हजार छात्रों का भविष्य है जिस बात की गंभीरता को कुलपति महोदय ने कहा है कि मैं इसमें गंभीरता से कार्य कर रहा हूं और जल्द ही अंगपत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा '
मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द छात्र का अंग पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं ' ईशान सिन्हा मानवाधिकार अध्यक्ष भारत

सभी वर्गो के युवाओ का एक ही पुकार महागठबंधन से 2024 में सांसद उम्मीदवार पप्पू यादव हो

समाज जागरण कार्यालय प्रभारी आनंद कुमार

भागलपुर (बिहार) राजद के कद्दावर युवा नेता ,जिले में विकास पुरुष के नाम से चर्चित नाथनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह जनता के बीच हर समय उपलब्ध तो रहते ही हैं लेकिन हर मानव कल्याण के लिए अपने दायित्व पर उतने वाले युवा प्रत्याशी पप्पू यादव है। इतना ही नहीं किसी असहाय गरीब मजदूर लाचार हर जरूरतमंद लोगों तक हर संभव सहयोग कर पुण्य कमा रहे है । ये जनता के बीच जाकर उनके सुख-दुख में भागीदारी निभाते हैं। चाहे बाढ़ का मामला हो या सुखार का, किसी गरीब की बेटी की शादी की बात हो हरेक मोड़ पर पप्पू यादव जी जनता के समक्ष तन ,मन, धन से ,निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे है। मानव सेवा के लिए ये पूर्ण रूप से समर्पित हैं ! भागलपुर के वर्तमान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन,एस एस पी आनंद कुमार तथा अधिकारियों पदाधिकारियो के बीच मजबूत पकड़ तो है ही कई आईपीएस तो वरीय अधिकारियो से अच्छा सबंध है !वही इस बार खासकर सभी जाति धर्म के युवा वर्ग को इस बार 2024 के चुनाव में वजह है कि जनता के दिलों में पप्पू यादव बस गए हैं ! अपने जिले में कई जटिल से जटिल समस्याओं का निदान सार्वजनिक कार्य से संबंधित सफलता पूर्वक हल करने का कार्य

महागठबंधन प्रत्याशी भागलपुर नाथनगर के युवा व बेबाक निर्भीक होकर जनता की आवाज उठाते हैं । मतदाताओं का रुझान इस बार अधिक मतों से हमलोग जीतायेंगे खासकर युवा का एक ही मांग हो रहा है। पप्पू भैया चाहिए । चूंकि जमीनी स्तर पर जनता के साथ हैं ऐसा ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए । हम आपको बता दे कि आज यही से जनता का दिल व भरोषा जीतने का काम किये । क्षेत्र में काफी मजबूत पकड है ! विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव को 2024 के चुनाव में विधायक के रूप में देखकर क्षेत्र के विकास के लिए जनता चाह रही है ! इस बार छः विधानसभा क्षेत्रों में जनता इनको आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजई बनाएंगे।

भाजपा ने मनाई सरदार भगत सिंह की जयंती, प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

समाज जागरण कार्यालय प्रभारी आनंद कुमार

भागलपुर (बिहार) बृहस्पतिवार को गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी भागलपुर ने महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की जयंती विजयमित्रा मंडल स्थित शहीद भगत सिंह के प्रतिमा स्थल पर दीप जलाकर एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम जिला अध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में मनाई।जिला अध्यक्ष संतोष कुमार

ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा की शहीद भगत सिंह के अंदर बचपन से ही राष्ट्रीय भक्ति और क्रांतिकारी गुण थे इसी सोच को लेकर भाजपा और उसके कार्यकर्ता देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करते शहीद भगत सिंह की सोच के साथ ही हुए आगे बढ़ रहे हैं।
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजकुमार सिंह ने कहा की शहीद भगत सिंह को याद करते हुए बताया कि हम सभी उनके कर्जदार हैं क्योंकि उनके द्वारा देश को आजाद कराने की लड़ाई में उनके बलिदान और हजारों क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही आज हम सभी आजाद भारत में जी रहे हैं।भाजयुमो के प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू ने कहा की युवा सरदार भगत सिंह से प्रेरणा लेकर देश के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक कोई देश समृद्धशाली नहीं होगा।जिला महामंत्री योगेश पांडेय ने कहा कि अगर आज हम भारत में आजादी से जी रहे हैं तो यह सब शहीद ए आजम भगत सिंह जी की कृपा है जिनके बलिदान के कारण ही आज भारत आजाद है।विजयमित्रा मंडल अध्यक्ष निरंजन चंद्रवंशी ने कहा की आज हम उन सभी क्रांतिवीरों के और शहीद भगत सिंह जी के आभारी हैं वह सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगे।इस अवसर पर रोशन सिंह,राजेश टंडन,ईश्वरनगर मंडल अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद पंकज गुप्ता,जिला मीडिया प्रभारी प्राणिक वाजपेयी,प्रवक्ता विनोद सिन्हा,चंदन ठाकुर,अमरदीप साह,सोमनाथ शर्मा,नंदकिशोर हरि,रितेश घोष,राहुल तोमर,जयदीप दत्ता,अनुपलाल साह,गौरव सिन्हा,मनीष कश्यप,गुड़िया वर्मा,संजीव गुप्ता, अमित आर्यन उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित किया।

फोरेंसिक पुलिस विभाग में 10 वर्ष होने पर सम्मान समारोह आयोजित की गई

समाज जागरण जिला ब्यूरो चीफ प्रभात कुमार मिश्रा

भागलपुर(बिहार)जिसमें कई विभाग एवं नारकोटिक्स विभाग क भी उद्घाटन किया गया विभाग के उद्घाटन में भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद, भागलपुर SSP आनंद कुमार, सीडीएस प्राचार्य आईपीएस मिथिलेश कुमार, फोरेंसिक विभाग के डायरेक्टर चंदन कुमार एवं फोरेंसिक विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वोत्तम कुमार Fsl, CID

Home, police dept.

एवं कई एफएसएल विभागों के पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र डीआईजी साहब के द्वारा देकर सम्मानित किया गया इसी क्रम में मानवाधिकार के क्षेत्र में अच्छे काम करने हेतु विभाग के तरफ से भागलपुर ज्ञ्ञ्ञ महोदय के द्वारा मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशान सिंह जी को अंगवस्त्र मोमेंटो दे कर सम्मानित किया गया एवं ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई

शांति सद्भाव भाईचारे के साथ पैगंबर मोहम्मद साहेब का जुलूस निकाला गया

समाज जागरण कार्यालय संवादाता दिलीप कुमार साह

भागलपुर/नाथनगर पैगम्बर मोहम्मद बाबा साहेब का जन्म दिन शान्ति सद्भाव भाईचारे के साथ मनाया गया।जिले भर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। स्टोर लगाकर पानी पुरी ,कुल्फी तरह-तरह के खाने का आइटम का भी व्यवस्था रखा गया था। पुलिस प्रशासन भी सफल बनाने के लिए,त्योहार पर काफीमुस्तैदी के साथ लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे थे । काफी धूमधाम से मनाया गया।मुस्लिम त्योहार पर दोनों समुदाय के लोग उपस्थित थे ।मौके पर उपस्थित पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव जियाउर रहमान, सिकंदर, निजात अंसारी, भावेश यादव, देवाशीष बनर्जी, अशोक राय, थाना अध्यक्ष महताब खान स्माइल

बांका शंकरपुर गांव से चोरों ने तीन भैंस की चोरी, मामले को लेकर थाना में दिया गया आवेदन

समाज जागरण सुमित कुमार

बांका (बिहार) शंकरपुर गांव से तीन भैंस की कर ली गई चोरी, मामले को लेकर खरयाडा गांव निवासी मोहम्मद सद्दाम ने गुरुवार को थाना में आवेदन दिया, उन्होंने बताया कि शंकरपुर गांव में रोजाना की तरह तीनों भैंस घर में जोड़ा हुआ था, देर रात को चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई, मामले को लेकर थाना में लिखित आवेदन दिया गया, इस संबंध में थाना अध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि

मामले को लेकर आवेदन मिला है, मामले को जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खगड़िया लोकसभा के दियारा क्षेत्र के एक बड़े भूभाग को स्टेट हाईवे 95 से जोड़ने का काम जल्द होगा शुरू:सांसद महबूब अली कैसर

समाज जागरण

खगड़िया(बिहार) फरकियावासियों को बड़ी सौगात मिली है बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा हर्दी-चौधरा स्टेट हाईवे 95 मानसी से सिमरी बखितयारपुर द्वारा निकाला गया निविदा सिगल (सीईआईजीएल) कंपनी को आवंटित कर दिया गया हैं' इस पथ की कुल लम्बाई 28 किलोमीटर है इस मार्ग के निर्माण हो जाने के बाद सहरसा और खगड़िया की दूरी काफी कम हो जाएगी' अब सम्पूर्ण दियारा क्षेत्र मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा' फरकिया का कुछ क्षेत्र डेनग्राही पुल के बन जाने से तथा बचा क्षेत्र इस मार्ग के द्वारा मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा तथा अब माँ कात्यायनी स्थान जाने के लिए भी लोग सीधा इसी स्टेट हाईवे से जा सकेंगें' स्थानीय सांसद श्री महबूब अली कैसर ने कहा कि मैं सांसद बनने के बाद लगातार इस पथ के लिए प्रयासरत रहा' माननीय मुख्यमंत्री श नीतीश कुमार से मिल कर एवं पत्र संख्या-18 दिनांक-30.03.2015, पत्र संख्या-टद/छर/099 दिनांक-02.05.2016 एवं पत्र संख्या- 102 दिनांक-20.09.2016 के माध्यम से इस स्टेट हाईवे-95 के

लिए प्रयास किया तथा बिहार के तात्कालिक पथ निर्माण मंत्री से मिल कर पत्र संख्या झ 37 दिनांक-08.04.2018 दे कर उनसे आग्रह किया था जिसके आलोक में उन्होंने अपने पत्र संख्या-1013 दिनांक-21.05.2018 से आश्वस्त किया कि उक्त मार्ग को जल्द ही बनाया जायेगा इस कड़ी में स्थानीय विधायक श्री पन्नालाल सिंह पटेल ने पूर्ण साथ दिया' सांसद ने अपने क्षेत्रवासियों कि ओर से बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री-सह- पथ निर्माण मंत्री श्री तेजस्वी यादव एवं तत्कालिक पथ निर्माण मंत्री को भी कोटि कोटि धन्यवाद दिया।

झामुमो नेता अजय रजक ने किया पटमदा क्षेत्र का दौरा, जरूरतमंद परिवार को दिया तीन तिरपाल

नंदा रजक, दैनिक समाज जागरण , प्रखण्ड संवाददाता, पटमदा

पटमदा : झारखंड आंदोलनकारी सह झामुमो के वरिष्ठ नेता अजय रजक गुरुवार के क्रम में पटमदा प्रखंड के कुमीर गांव पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया। समस्याओं से रूबरू होने के पश्चात उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कार्यकर्ता से जानकारी मिली कि गांव के कबिराज महतो का घर क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के दिनों में घर में

पानी टपकते रहता है। फिर अजय रजक पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और घर को ढंकने के लिए तीन तिरपाल उपलब्ध कराया। इस दौरान उनके साथ झामुमो नेता आनंदमय महतो, हरिहर टुडु, विजय टुडु, अभिषेक मुखी व बारी अंसारी आदि लोग मौजूद थे।

समाज में शिक्षा से ही परिवर्तन लाया जा सकता है, जिला महासचिव हीरालाल प्रकाश यादव

समाज जागरण

बिहार,सरकार के मध्यम से सभी शिक्षकों को समुचित रूप से सरकारी लाभ पहुँचाया जाना चाहिए ।वही स्कूल मे भी सभी प्रकार का सुभिधा छात्र ,छात्राओं को मिलना चाहिए । चूंकि समाज मे शिक्षा से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। हीरालाल प्रकाश यादव जिला महासचिव बांका सह प्रदेश सचिव बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ (मूल) बिहार

गुमनामी की जिंदगी जी रही महिला के लिए आशा की किरण बनकर पहुंची भाजपा नेत्री नीलू मछुआ

नंदा रजक, दैनिक समाज जागरण , प्रखण्ड संवाददाता, पटमदा

पटमदा : बोड़ाम प्रखंड की लायलम पंचायत के पगदा गांव निवासी करीब 50 वर्षीय महिला सुशीला प्रमाणिक पिछले 5 सालों से अपने घर में ही गुमनामी की जिंदगी जी रही है। वह मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं और अपने घर से बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं। उनके घर में पति और एक बेटा है जबकि दो बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी है। बताते हैं कि उन्हें शुरुआत में ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई थी और धीरे-धीरे अन्य बीमारियों का शिकार होने पर वह लगातार कमजोर होती चली गई। उनके पति बताते हैं कि पिछले करीब 4 सालों से मानसिक रूप से बीमार होने पर वह अंधेरे में ही रहना पसंद करती है और किसी से भी मिलना नहीं चाहती है। उनका इलाज जारी है लेकिन उचित इलाज के अभाव में अब तक स्वस्थ नहीं हो पायी है। जीने की आस छोड़ चुकी सुशीला के लिए बुधवार को आशा की किरण बनी है एक भाजपा नेत्री। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पगदा पहुंची जमशेदपुर महानगर भाजपा की जिला मंत्री नीलू

मछुआ ने उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। सुशीला मां तारा महिला समूह की सक्रिय सदस्य भी है। समूह की दूसरी महिला नियति प्रमाणिक भी पैराला-इसिस की बीमारी से पिछले 4 सालों से ग्रसित हो है और वह वर्तमान में दिव्यांग हो चुकी है। भाजपा नेत्री ने महिला समूह की अन्य सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए दोनों महिलाओं के पूरी तरह स्वस्थ होने तक हर संभव सहयोग करने व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया है। नीलू मछुआ ने बताया कि पटमदा मुख्य सड़क के किनारे बसे पगदा गांव की इन लाचार महिलाओं पर अब तक किसी जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं पड़ना आश्चर्यजनक है। वे चाहती हैं कि उन परिवार के लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो और दोनों मरीज पूर्व की भांति जिंदगी जी सके।

असम पाइप कंपोस्टिंग को बढ़ावा दे रहा है: दो महीने में बायोडिग्रे-`डेबल कचरे को गोबर खाद में बदलने की एक अनोखी विधि

घरेलू स्तर पर बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए सरल और प्रभावकारी प्रौद्योगिकी का समर्थन करते हुए, असम चल रहे स्वच्छता वाले पीवीसी पाइपों का उपयोग कर- के जैविक कचरे को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने की एक विधि है। पाइपों को जमीन से 25- तरह है- यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना थोड़े समय में बायोडिग्रेडेबल कचरे को गोबर खाद में बदल देता है; यह विद्यालय परिसर

ही सेवा अभियान के दौरान अपने ग्रामीण समुदायों के बीच पाइप कंपोस्टिंग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। असम में बिस्वनाथ जिले की जिला जल और स्वच्छता समिति लंबे समय से स्कूलों में मध्याह्न भोजन से उत्पन्न कचरे के लिए बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के एक तरीके के रूप में पाइप कंपोस्टिंग को बढ़ावा दे रही है। इस जिले के अधिकारियों ने स्वच्छता ही सेवा 2023 कार्यक्रम के तहत चरियाली माजलिया एमई स्कूल में दो पाइप लगाए।
पाइप कम्पोस्टिंग प्रौद्योगिकी 8-10 इंच व्यास और 1.25 मीटर लंबाई 30 सेमी अंदर रखते हुए लंबवत रखा जाता है। बचे हुए भोजन, फल और सब्जियों के छिलके, फूल, गोबर, कृषि अपशिष्ट आदि सहित केवल सड़ने योग्य कचरे को पाइपों में डाला जा सकता है। कीड़ों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए दो हफ्ते में एक बार थोड़ा सा गाय का गोबर और सूखी पत्तियां पानी में मिलाकर डाली जाती हैं। इस समय दोनों पाइपों को बंद रखा जाना चाहिए, ताकि बारिश का पानी पाइपों में प्रवेश न कर सके। दो महीने के बाद पाइप उठाकर कम्पोस्ट खाद निकाली जा सकती है।
पाइप कंपोस्टिंग के कुछ लाभ इस में स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखने में मदद करता है; यह गंधहीन और मक्खीरोधी है और इस-के लिए बहुत जगह की जरूरत भी नहीं होती है। इसके अलावा, यह प्रणाली टिकाऊ भी है, क्योंकि एक ही पाइप का बार-बार उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह विद्यार्थियों को अपघटन के विज्ञान तथा पारिस्थितिकी के बारे में सीखने का अवसर प्रदान करता है, उनको सूक्ष्मजीवों और अकशेरुकी जीवों की भूमिका और साथ ही उनको अपशिष्ट प्रबंधन और वहनीयता के महत्व के बारे में भी सिखाता है।

मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी श्री जगदीश राय

समाज जागरण

बिहार /झारखंड सामाजिक स्तर पर समाज में जनता के बीच निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा को दे रहे हैं। जी हां हम बात कर रहे हैं देवघर जिले के दो नंबर पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी श्री जगदीश राय की। कहते हैं मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। वर्तमान भारत सरकार द्वारा जनता के बीच समुचित रूप से जनहित कार्य से जोड़ने का कार्य किया जाए। ताकि रोजगार मुहैया हो सके।

बीएनएमयू : मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र में 120 सीटों पर होगा नामांकन

मधेपुरा/डा. रूद्र किंकर वर्मा।
बीएनएमयू में पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन), पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र में 120 सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। निगम द्वारा जारी विज्ञप्ति में आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2023 तक निर्धारित की गई है। स्वीकृति प्रदान की है। इनमें
प्रतिभाओं को मिलेगा अवसर
डीएसडब्ल्यू प्रो. (डॉ.) राजकुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने इसी वर्ष से केंद्र की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ाना है। इसके तहत संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएं यथा- एनईटी, जेआरएफ, जीएटीई, पीएटी, पीएचडी आदि की परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग) दी जाती है। इससे इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिल रहा है।
कुल 120 सीटों पर होगा नामांकन

उप कुलसचिव (स्थापना) डॉ. सुधांशु शेखर ने कुलकचिव प्रो. (डॉ.) मिहिर कुमार ठाकुर ने बताया कि केन्द्र में कुल 120 छात्र - छात्राओं का दो बैच (प्रशिक्षण अवधि 06 माह) संचालित कराया जाएगा। इसमें प्रत्येक बैच के लिए कुल उपलब्ध सीटों (60) में से 40 प्रतिशत (24) पिछड़ा वर्ग तथा 60 प्रतिशत (36) अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए अनुमान्य होगा। अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को एवं पिछड़ा वर्ग के
छात्र-छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में अति पिछड़ा वर्ग के छात्र- छात्राओं का नामांकन किया
जाएगा। दोनों कोटियों में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।
उन्होंने बताया कि केंद्र में नामांकन के लिए विद्यार्थियों का चयन संबंधित परीक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम
के अनुरूप विषय के बहु-विकल्पीय लिखित परीक्षा या काउंसिलिंग के माध्यम से चयन किया जाएगा। विद्यार्थियों की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।छात्र-छात्रा एवं उनके अभिभावक की कुल वार्षिक आय तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कुलपति का मार्गदर्शन प्राप्त कर होगी अग्रेत्तर कार्रवाई
उप कुलसचिव (स्थापना) डॉ. सुधांशु शेखर ने बताया कि इस योजना की जानकारी अधिकाधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आगे केंद्र के सुचारू संचालन हेतु कुलपति प्रो. (डॉ.) राजनाथ यादव से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नामांकन हेतु आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय के स्थापना शाखा अथवा केंद्र के कार्यालय से भी निः शुल्क फार्म प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह केंद्र पुराने स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में प्राक प्रशिक्षण केंद्र के साथ चलेगा। विद्यार्थी यहां स्वयं आकर भी आवेदन जमा करा सकते हैं अथवा निबंधित डाक से भी आवेदन भेज सकते हैं। पता है- निदेशक, मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र, पुरानी हिंदी विभाग, ओल्ड कैम्पस, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालूनगर मधेपुरा-852113 (बिहार)।

मदनपुर में दस दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का हुआ भव्य समापन

मदनपुर।
मदनपुर में बीते दस दिनों से चला आ रहा श्री गणेश महोत्सव का भव्य समापन गुरुवार को पूजा अर्चना के साथ सम्पन हो गया वहीं बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की इसके अलावा हवन , आरती का आयोजन किया गया वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दस दिवसीय गणेश महोत्सव का भव्य समापन धूम धाम से हो गया इधर समापन के दौरान प्रसाद का वितरण किया गया

मदनपुर में बीते दस दिनों से चला आ रहा श्री गणेश महोत्सव का भव्य समापन गुरुवार को पूजा अर्चना के साथ सम्पन हो गया वहीं बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की इसके अलावा हवन , आरती का आयोजन किया गया वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दस दिवसीय गणेश महोत्सव का भव्य समापन धूम धाम से हो गया इधर समापन के दौरान प्रसाद का वितरण किया गया।

पनोरमा स्पोर्ट्स सीजन -6 की तैयारियां पूरी, भव्य उद्घाटन के लिए पनोरमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ई होम्स सज धज कर तैयार, उद्घाटन आज

पूर्णियां।
पनोरमा स्पोर्ट्स सीजन -6 का भव्य उद्घाटन समारोह शुक्रवार को आज पनोरमा ग्रुप द्वारा निर्मित पनोरमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ई होम्स पूर्णिया में होने जा रहा है।उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि श्री कुंदन कुमार जिला पदाधिकारी अतिविशिष्ट अतिथि श्रीमती विभा कुमारी महापौर नगर निगम पूणिया एवं सुश्री डेजी रानी सिनियर डिप्टी कलेक्टर व जिला खेल पदाधिकारी पूणिया होंगे।
पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री संजीव मिश्रा ने भव्य उद्घाटन समारोह की समीक्षा की। और उन्होंने कहा कि पनोरमा स्पोर्ट्स का आयोजन ऐसा आयोजित की जाए जो युवा पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए यादगार हो। युवा पीढ़ी को विभिन्न खेलों से हम सभी को जोड़ना है। युवा पीढ़ी हमारे देश की शक्ति है।
ईस्ट जोन पूर्व चेयरमैन व क्रिकेट प्रशिक्षक हरिओम झा ने कहा कि पनोरमा स्पोर्ट्स सीजन -6 का भव्य आयोजन दिनांक 29/09/2023 को अपराह्न 3:00 से पनोरमा ग्रुप द्वारा निर्मित पनोरमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ई होम्स पूर्णिया में आयोजित होने जा रहा है।रजिस्टर्ड स्कूल एवं क्लबों के खिलाड़ियों, प्राचार्य महोदय/महोदया, पदाधिकारियों एवं खेल प्रेमियों का रेट कारपेट पर स्वागत व अभिनंदन अपराह्न 2:30 बजे।आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अतिथियों का आगमन :- अपराह्न 2:45 बजे।आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अतिथियों का बूके एवं पनोरमा स्पोर्ट्स प्रतीक चिन्ह से स्वागत अपराह्न 3:00 बजे।विभिन्न विद्यालय के छात्र-छात्राओं के द्वारा स्वागत गान अपराह्न 3:10 बजे।स्कॉट गाइड एवं विभिन्न खेलों से जुड़े खेल पदाधिकारियों एवं खिलाड़ियों के द्वारा मार्च पास्ट अपराह्न 3:20 बजे।पैनोरमा ग्रुप के प्रबंध निर्देशक श्री संजीव मिश्रा "सर "के द्वारा स्वागत संबोधन अपराह्न 3:30 बजे।

आदरणीय अतिथि विशिष्ट अतिथि एवं आदरणीय मुख्य अतिथि के द्वारा संबोधन अपराह्न 3:45 बजे।राष्ट्रीय गान अपराह्न 4:00 बजे।पनोरमा स्पोर्ट्स सीजन -6 का विधिवत उद्घाटन आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय विशिष्ट अतिथि एवं आदरणीय अतिथियों के कर कमलों से अपराह्न 4:25 बजे।फोटो सेशन 4:35 बजे।
विभिन्न खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 29/09/2023
"बैडमिंटन"
बालिका वर्ग में:-
सुनिधि भारती बनाम निशी राय ।
बालक वर्ग:-सुधांशु कुमार बनाम रौशन कुमार के बीच मुकाबला खेला जाएगा।
"वॉलीबॉल"
बालिका वर्ग में:-सेंट पीटर्स स्कूल बनाम विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोड़ा ।
बालक वर्ग में:-एस आर डी ए भी स्कूल बनाम सेंट पीटर्स स्कूल के बीच मुकाबला खेला जाएगा।
"बास्केटबॉल"
बालिका वर्ग में :एस आर डी ए भी स्कूल बनाम विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोड़ा
बालक वर्ग में:-विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोड़ा बनाम पूणिया एथलेटिक्स एकादमी के बीच मुकाबला खेला जाएगा।

'हल की मूठ पर हथेली अपनी और फसल ठाकुर की' को लेकर राजद खेमे में मचा घमासान

अररिया /डा. रूद्र किंकर।
पूर्णिया आरजेडी सांसद मनोज झा ने फसल ठाकुर की । राज्यसभा में एक कविता कह कर बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक कविता के जरिए ठाकुर यानी राजपूतों को लेकर बयान दिया। इसके बाद उनकी ही पार्टी के आनंद मोहन और विधायक चेतन आनंद हत्थे से उखड़ गए। दरअसल राज्यसभा में मनोज झा ने एक कविता पढ़ी जो इस प्रकार थी।
'चूल्हा मिट्टी का मिट्टी तालाब की
तालाब ठाकुर का ।
भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का ।
बैल ठाकुर का हल ठाकुर का हल की मूठ पर हथेली अपनी और फसल ठाकुर की'
कुआं ठाकुर का पानी ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, खेत खलिहान ठाकुर के।
फिर अपना क्या, गांव, देश शहर ? में फिर से क्लियरिफाई करता है। वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है। वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है। वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो, जो हमारे अंदर है ।
राष्ट्रीय परशुराम परिषद् के राष्ट्रीय संयोजक पंडित अजय झा ने फेसबुक लाइव के माध्यम से मनोज झा व शिवानंद तिवारी पर बरसे साथ ही चेतन आनंद के बचाव में दिखे।
पंडित अजय झा ने अपने भाषण में आपसी सौहार्द और एकता के महत्व को बताया है। उन्होंने चुनाव से पहले भाईचारा और सद्गुणों के महत्व को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर किया है और साजिशों के खिलाफ चेतावनी भी दी है। पंडित झा ने कहा कि दोषी मनोज और शिवानंद है तो सजा उन्हें दीजिए लेकिन ब्राह्मण समाज को कोई मत घसीटिए।
प्रो. मनोज झा को हमारा समाज ब्राह्मण नहीं मानता। वे जनेऊ संस्कार के विरुद्ध रहे हैं, उनके माता पिता जनेऊ संस्कार कराया लेकिन वे जनेऊ नहीं पहनते। ब्राह्मण समाज के लिए कोई काम किए हों तो वो बताए। ई मनोज और तिवारी अपना टी आर पी बढ़ाने और अपने आका को खुश करने के लिए अकट बकट बोलते रहता है। उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में आपसी समझ, समरसता, और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण दिखाया और समाज के हर वर्ग के सदस्यों के बीच एक गहरा संबंध बनाने की अपील की है।
पंडित अजय झा ने कहा कि क्षत्रिय समाज की एकजुटता से ब्राह्मण समाज को सीखने की जरूरत है। उन्होंने सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे समाज को और भी संघटित और सामरस्यपूर्ण बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।

दो वर्षों की मधुरिम स्मृतियों से सुगंधित हुआ विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग

मधेपुरा।
बी एन एम यू मधेपुरा के हिंदी विभाग में आयोजित कार्यक्रम स्मृतिगंधा का उद्घाटन मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो. (डॉ) विनय कुमार चौधरी , विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा आई क्यू ए सी निदेशक प्रोफेसर नरेश कुमार ,डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह , डॉक्टर आलोक कुमार ,डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार ,डॉक्टर पूजा गुप्ता, डॉ रश्मि कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
इसके पश्चात सभी शिक्षकों व अतिथियों का अंगवस्त्र से छात्रों के द्वारा स्वागत किया गया।
इसके बाद विभाग की छात्रा चांदनी,अंशु ,रूपम, गुड़िया ,स्वाती,अंजु के द्वारा स्वागत गीत "मन की वीणा से गुंजित मंगलम" की प्रस्तुति दी गई।
मुख्य अतिथि के रूप में आई क्यू ए सी के निदेशक प्रोफेसर नरेश कुमार कहा कि कार्यक्रम स्मृतिगंधा का आयोजन कर छात्रों ने अपनी स्वर्णिम स्मृतियों को साझा करना अत्यंत स-

राहनीय है।
डॉ कुमार ने कहा की आपको शिक्षकों ने तलाशा भी है और तराशा भी है ।आप यहां से जो सीख कर जा रहे हैं उनका सकारात्मक उपयोग अपने जीवन में करेंगे उन्होंने सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी।
छात्र धीरज कुमार ने बताया स्मृतिगंधा कार्यक्रम की ई-स्मारिका भी प्रकाशित होनी है कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण विमोचन नहीं हो सका। शीघ्र ही ई स्मारिका का प्रकाशन किया जाएगा।
उक्त अवसर पर गुड़िया कुमारी शंकरकुमार गुप्ता स्वाति कुमारी नेहा कुमारी अंजू कुमारी मदनमोहन कुमार विवेक कु०गुड़िया कुमारीमोना कुमारी, मेघा कुमारी रीमा कुमारीमोनिका कुमारी रेणुका कुमारी शिल्पी कुमारी रूपम कुमारी
निशांत सत्यम ललन कुमार बमबम कुमार (
नीतीश कुमार सुनील कुमार
भारती कुमारी ,बिरेंद्र कुमार चौपाल सहित सभी छात्र मौजूद थे।

कुसार्काटा में P3 बाजार प्रा. लि. मॉल का ओपनिंग आज, तैयारियां पूरी

कुसाकांटा ।
पी एम कॉम्पलेक्स कुसार्काटा में ढ3 बाजार प्रा. लि. मॉल का ओपनिंग शुक्रवार को है इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है।पी एम कॉम्पलेक्स के ऑनर सह कार्यक्रम के अध्यक्ष ई. मनोज झा एवम डेढुआ पंचायत के लोकप्रिय मुखिया संतोष झा ने बताया कि वैदिक अनुष्ठान एवम मैथिल परंपरा के तहत मॉल का शुभारंभ सह ओपनिंग शुक्रवार को है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मान्यवर परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकम्पा से ढ3 बाजार प्रा. लि. मॉलका 29 सितंबर दिन शुक्रवार के 02 बजे किया जायेगा । मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब शाहनवाज आलम जी(आपदा प्रबंधन मंत्री, बिहार सरकार),
विशिष्ट अतिथि श्री अभिषेक झा जी जिला परिषद् अररिया),डा.शत्रुधन मंडल (प्रदेश उपाध्यक्ष, अतिपिछड़ा प्रकोष्ट राजद,सह पूर्व प्रत्याशी सिकटी राजद, किमी आनन्द जी (लोक सभा मिडिया प्रभारी भाजपा),श्री राजन तिवारी (प्रवक्ता बिजेपी)श्री मुस्ताक जी (प्रखण्ड अध्यक्ष राजद),श्रीरघु साह जी श्री मुन्ना मुस्ताक जी (नेता जदयू),श्री ललन कुमार झा प्रबंधक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।ढट कॉम्पलेक्स में अयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरीय समाजसेवी ई. मनोज कुमार झा जी द्वारा किया जाएगा।

प्रदेश प्रवक्ता जदयु,प्रो.त्रिलोकनाथ झा जी(प्रिंसिपलके एन डिग्री कॉलेज, बखरी, कुसार्काटा), श्री अफताब उर्फ पप्पू अजीम (अध्यक्ष

अररिया जिले ने एक समर्पित महान समाजसेवी पूर्व सरपंच कालीकांत मिश्र को खो दिया: संजय मिश्रा

अररिया ।
97 वर्षीय पूर्व सरपंच काली कांत मिश्र का निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने रामपुर पहुंचे एसडीएम ग्रुप के संस्थापक संजय मिश्रा ने कहा जिले महान समाजसेवी कालिकांत मिश्र का निधन रविवार को हो गया ।अररिया जिले ने एक समर्पित महान समाजसेवी को खो दिया,जिसकी भरपाई संभव नहीं है।बताते चले कि निधन की खबर सुनते ही जिलेभर में शोक की लहर व्याप्त है। अररिया प्रखंड के रामपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या नौ अंतर्गत रामपुर गांव निवासी पूर्व सरपंच काली कांत मिश्र का निधन उनके निवास स्थान पर हो गया। वे 97 वर्ष के थे। वे 37 वर्ष तक सरपंच रहे थे। साथ ही रजिस्ट्री ऑफिस अररिया में मुख्य लिपिक के रूप में निरंतर 50 वर्षों तक लोगों के बीच अपना सेवा व सहयोग प्रदान करते रहे। स्व. मिश्र के निधन के बाद उनके गांव सहित जिले में शोक की लहर है।

पलासी मोमिन टोला से जश्ने ईद मिलादुनबी पर निकला जुलूस

पटेगना।
अररिया प्रखंड के किस्मत खवासपुर पंचायत अंतर्गत पलासी मोमिन टोला से गुरुवार सुबह आठ बजे मदरसा सुजातिया मकसुदिया खानका के छात्र एवं छात्राओं द्वारा जश्ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाली गई। हजरत मुहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर हर साल जश्ने ईद मिलादुन्नबी को लेकर मदरसा सुजातिया मकसुदिया खानका के बच्चों द्वारा जुलूस निकाला जाता है। गुरुवार को मदरसा के छात्र एवं छात्राओं के अलावा गांव के नौजवानों ने भी बाईक पर सवार होकर नए कपड़े, पगड़ी,टोपी, हाथ में झंड़ा लेकर अररिया मुख्यालय के सुभाष स्टेडियम में पहुंचकर दुआ में शामिल हुए। नौजवानों ने अपने हुजूर पाक के याद में विभिन्न तरह के नारे जैसे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसुललाह, सरकार

की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा आदि नारे लगाते हुए अररिया पहुंचे। जुलूस को सफल बनाने में मुख्य रूप से मौलाना अब्दुल माजिद नईमी, हाफिज सदरे आलम, अंसारी संगठन के जिलाध्यक्ष जाबीर अंसारी, महमूद अंसारी, हाफिज वाकिफ अंसारी, हाफिज नईम अंसारी, मौलाना दिलवर हुसैन, मौलाना नदीम, हाफिज असगर, हाफिज अब्दुल बारीक, हाफिज मोहसीन अंसारी, आरफीन अंसारी, शमशाद अंसारी, अकमल हुसैन सुरज, राजा अंसारी, लड्डू अंसारी, डाक्टर मोजाहिद, अलाउद्दीन झुमरी तलैया, ऐयूब अंसारी, मुन्ना तबारक आदि शामिल थे।

सामूहिक प्रयास व भागीदारी मिजिल्स-रूबेला उन्मूलन के लिये जरूरी

अररिया ।
मिजिल्स-रूबेला यानी खसरा रोग पांच साल तक के बच्चों की मौत का बड़ा कारण है। ये बीमारी खासतौर पर कम उम्र के बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में रोग का प्रसार आसानी से होता है। यह रोग सांस की नली, नाक व फेफड़ों को सक्रमित करता है। गौरतलब है कि एमआर टीकाकरण रोग से बचने का सबसे आसान जरिया है। वर्ष 2023 तक देश को मिजिल्स रूबेला से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग शत प्रतिशत बच्चों को एमआर टीका से आच्छादित करते हुए निर्धारित लक्ष्य के प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत है।
एक गंभीर संक्रामक बीमारी है मिजिल्स-रूबेला
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ मोईज ने बताया कि संक्रामक रोगों में मिजिल्स-रूबेला एक गंभीर व घातक बीमारी है। सही समय पर उपचार नहीं होने से ये बच्चों के लिये जानलेवा भी साबित हो सकता है। आमतौर पर मिजिल्स को खसरा रोग के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक खसरा रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसी या छींक के साथ निकलने वाली बूंदों में मौजूद वायरस हवा में फैल जाता है। जो संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। रोग के लक्षण देर से दिखते हैं। संक्रमित मरीज को खांसी व बुखार के साथ शरीर पर खुजली वाले लाल दाने हो जाते हैं। ये दाने कानों के पीछे, गर्दन व सिर पर उभरते हैं। मरीज न्यूमोनिया व गंभीर डायरिया से पीड़ित हो जाता है। उचित उपचार नहीं होने की स्थिति में ये जानलेवा साबित होता है।
लक्षणों के आधार पर रोग की पहचान संभव
मिजिल्स रूबेला की पहचान रोग से जुड़े सामान्य लक्षणों के आधार पर आसानी से किया जा सकता है। सूखी खांसी, गले में खराश, बहती नाक, आंखों में सूजन, त्वचा पर चकते का निशान कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं। जिसके आधार पर रोग की पहचान संभव है। इसमें से किसी तरह का लक्षण दिखने पर तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में मरीज का इलाज जरूरी होता है।
कुपोषण व विटामिन ए की कमी रोग की वजह मिजिल्स-रूबेला रोग कई तरह की शारीरिक जटिलताएं खड़ी कर सकता है। ये अंधापन, मैनिन्जाइटिस, मस्तिष्क में सूजन, ब्रेन डैमेज जैसे स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकता है। डीआईओ डॉ मोइज ने बताया कि विटामिन ए की कमी व कमजोर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण ये बच्चों को बड़ी आसानी से प्रभावित करता है। कुपोषित बच्चों को रोगग्रस्त होने का खतरा अधिक होता है।
बच्चों को जरूरी लगायें एमआर का

टीका
सिविल सर्जन डॉ विधानचंद्र सिंह ने कहा कि मिजिल्स रूबेला के खतरों से बचाव के लिये एमआर का टीकाकरण जरूरी है। शत प्रतिशत बच्चों के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित टीकाकरण अभियान संचालित है। इसके अलावा विशेष अभियान के माध्यम से भी शत प्रतिशत बच्चों को टीकाकृत करने का प्रयास जारी है। एमआर का पहला टीका बच्चे के नौ माह की आयु पूर्ण होने पर व दूसरा टीका सोलह से चौबीस माह के बीच लगाना जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों को नियमित रूप से विटामिन-ए की दवा का सेवन कराना रोग से बचाव के लिहाज से जरूरी है।

बेलटांड़ सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने किया भूमि पूजन

नंदा रजक, दैनिक समाज जागरण , प्रखण्ड संवाददाता, पटमदा
पटमदा : श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति लावा (बेलटांड़) की ओर से

बुधवार को पटमदा के बेलटांड़ स्थित दुर्गा मंडप में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसमें पुरोहित शक्तिपद मुखर्जी एवं यजमान के रूप में कल्याण कुमार गोराई ने माता की आराधना की। इसके पश्चात आगामी 20 अक्टूबर तक पूजा पंडाल का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए तैयारी शुरू की गई।
मौके पर समिति के अध्यक्ष ईशान चंद्र गोप, चक्रधर मुदी, शिशुपाल सिंह सरदार, रांगा सिंह सरदार, सुभाष दास, संजय कुमार दास, मिहिर कुमार प्रमाणिक, तापस हालदार, प्रदीप कुमार पैड़ा, सुमित कुमार दास, प्रवीण मल्लिक, राजू मंडल, रविंद्र नाथ भौमिक, विश्वनाथ मल्लिक व निर्मल कांति दास आदि मौजूद थे।
इस संबंध में समिति के पंडाल प्रभारी प्रदीप कुमार पैड़ा ने बताया कि इस वर्ष भव्य पंडाल का निर्माण बंगाल के कारीगरों द्वारा किया जाएगा और प्रतिमा भी बंगाल के पुरुलिया से आये कलाकारों द्वारा बनाया जा रहा है जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।

राधे राधे फुटबॉल टीम को हरा कर नेग्रो स्पोर्टिंग चैंपियन

नंदा रजक, दैनिक समाज जागरण , प्रखण्ड संवाददाता, पटमदा
पटमदा : बोड़ाम प्रखंड के दामोदरपुर फुटबॉल मैदान में बृहस्पतिवार को एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रीयल ब्लास्टर क्लब, दामोदरपुर की ओर से आयोजन किया गया,जिसमें बोड़ाम-पटमदा प्रखंड के 16 टीमों ने भाग लिया।प्रतियोगिता का फाइनल मैच राधे राधे फुटबॉल टीम और नेग्रो स्पोर्टिंग ,आंधारझोर के बीच खेला गया जिसमें निर्धारित समय में दोनों टीम बराबर रही, पेनल्टी शूटआउट में नेग्रो स्पोर्टिंग ,आंधारझोर ने राधे राधे फुटबॉल टीम को 7-6 से हरा कर चैंपियन बना। विजेता टीम नेग्रो स्पोर्टिंग ,आंधारझोर को 20 किलोग्राम पोल्ट्री, उपविजेता राधे राधे फुटबॉल टीम को 15 किलोग्राम पोल्ट्री, तृतीया किंग्स स्पोर्टिंग और चतुर्थ फ्रेंड्स फुटबॉल टीम, दामोदरपुर को 10- 10 किलोग्राम पोल्ट्री देकर कमिटी की ओर से पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में रीयल ब्लास्टर क्लब, दामोदरपुर के लबघन सिंह, विकाश सिंह, देवेन सिंह, श्रवण सिंह, सुनिल सिंह, अजीत सिंह, त्रिलोक सिंह, परिमल सिंह, दुलाल सिंह, अर्जुन सिंह, हेमन्त सिंह,रेफरी भीम सिंह और त्रिलोचन सिंह का अहम योगदान रहा।

कोयरा ग्राम में पशु पालन लाभुकों का चयन

नंदा रजक, दैनिक समाज जागरण , प्रखण्ड संवाददाता, पटमदा
पटमदा : बोड़ाम प्रखंड के पहाड़पुर

पंचायत के कोयरा ग्राम के हरिमंदिर में ग्राम प्रधान बुचन सिंह की अध्यक्षता में एक ग्राम सभा किया गया जिसमें पशु पालन योजना के लाभुकों का चयन किया गया। ग्राम सभा के बैठक में प्रमुख प्रतिनिधि अंगद सिंह, सनातन हांसदा, राधाकृष्ण महतो, सीताराम सिंह आदि उपस्थित थे।

अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी के डीह पर गए एसडीएम ग्रुप के निदेशक संजय मिश्रा

सिमराहा।
एसडीएम ग्रुप के निदेशक संजय मिश्रा ने अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु के अवतरण डीह हिंगना गांव पहुंच कर उनके दरवाजे पर लगा उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने रेणु के

बड़े पुत्र पूर्व विधायक पदम पराग राय वेणु को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। श्री मिश्रा ने प्रेस वार्ता में समाज को जोड़ने की बात कही साथ ही रेणु के सम्मान में उनके रचना और कृति पर भी चचाएं की।

2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अयोध्या में 125 किलो सोने का बना हुआ शिवलिंग स्थापित होगा

राजेश तिवारी

अयोध्या। पावन नगरी अयोध्या में रामादल ट्रस्ट ने सोने की शिवलिंग की स्थापना करने की घोषणा की है। राम नगरी में स्वर्ण शिवलिंग की स्थापना हो सकती है। इसके लिए रामादल ट्रस्ट ने एक मनोकामना मांगी है और वो मनोकामना पूरी होते ही शिवलिंग स्थापित की जाएगी। अपनी मनोकामना के साथ रामादल ट्रस्ट ने घोषणा करते हुए बताया कि मनोकामना पूरी होने पर उनकी ओर से अयोध्या में सोने की शिवलिंग स्थापित की जाएगी। उन्होंने मनोकामना मांगी है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे तब रामादल ट्रस्ट की ओर से शिवलिंग स्थापित की जाएगी।

जानकारी के अनुसार सरयू नदी के तट पर स्थित रामा दल यज्ञशाला के संत अध्यक्ष ने संकल्प लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं और पूरा होते ही सोने की शिवलिंग स्थापित करेंगे। इसकी स्थापना केदारनाथ की शिवलिंग की तर्ज पर होगी। खास बात ये हैं कि 2014 से लगातार रामादल ट्रस्ट धार्मिक अनुष्ठान कर

रहा है। ये धार्मिक अनुष्ठान प्रधानमंत्री के सफलता के लिए लगातार किया जा रहा है। इस बार भी पीएम की सफालता की कामना की जा रही है।

स्वर्ण शिवलिंग की डिजाइन रामादल ट्रस्ट की तरफ से समर्पित की जाएगी। विशाल गणेश मंदिर में ये शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये 125 किलो और 3 फीट ऊंचा शिवलिंग होगा। ये देश का पहला सोने से बना शिवलिंग होगा। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्कि राम ने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इसे लेकर भी धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। रामलला को साक्षी मानकर कल्कि राम ने कहा कि प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही भारत के पहले स्वर्ण शिवलिंग की स्थापना रामनगरी में की जाएगी।

राम मंदिर के परकोटे की बनावट ऐसी होगी जिस टनल पर डेढ़ लाख लोगों का एक साथ हो सकेगा आवागमन

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जैसे जैसे समय निकट आ रहा है वैसे वैसे राम मंदिर के निर्माण की गति तेज होती जा रही है। राम मंदिर के प्रथम तल पर बन रहे स्तम्भों की उंचाई काफी तेजी से बढ रही है। परकोटे पर टनल का निर्माण पूरा होने को है। 800 मीटर लम्बे टनल पर छत डालने का काम भी पूरा होने को है।

मंदिर निर्माण की कार्यदायी संस्था एलएण्डटी के परियोजना निदेशक वीके मेहता ने बताया कि इस टनल पर एक साथ लगभग डेढ लाख श्रद्धालुओं का आवागमन हो सकता है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा अनिल मिश्र का कहना है कि इस परकोटे के टनल से रामलला के दर्शनार्थियों की वापसी होगी जब कि इसके उपर प्रवेशद्वार से आगमन होगा। आने जाने वाले श्रद्वालुओं में टकराव को बचाने के लिए अंडरपास

की व्यवस्था की जा रही है।

परकोटे पर बनेंगे छह मंदिर

श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि परकोटे में पंच देव उपासना में छह मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। इसमें भगवान शंकर, मां दुर्गा,सूर्यदेव,गणपति का मंदिर शामिल रहेगा। परकोटे के ईशान कोण पर गणपति विराजेंगे और दक्षिण दिशा में परकोटे के मध्य में हनुमान जी व उत्त परकोटै के मध्य मात अन्नपूर्णा का स्थान रहेगा।

बिजली विभाग के मेगा कैंप में दो लाख 54 हजार रुपए की हुई वसूली

उपभोक्ताओं की शिकायतों का भी किया निस्तारण

अयोध्या।

विद्युत बकाया वसूली एवं विद्युत चोरी को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विद्युत उपकेंद्र मिल्कीपुर के कुचेरा बाजार में मेगा कैंप लगाया गया। कैंप में दो लाख 54 हजार विद्युत बिल की वसूली की गई। मेगा कैंप में 32 विद्युत उपभोक्ताओं के गलत बिल से संबंधित शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। मेगा कैंप

के तहत विद्युत कर्मियों द्वारा सघन चेकिंग अभियान में 19 उपभोक्ताओं के संयोजन घरेलू से वाणिज्यिक में परिवर्तित किए गए। चेकिंग के दौरान पाए गए 15 खराब मीटरों को भी बदला गया। आठ विद्युत उपभोक्ताओं की बाधित विद्युत आपूर्ति सप्लाई संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया गया। पांच विद्युत उपभोक्ताओं के नाम एवं पते को भी दुरुस्त किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी अमित कुमार सिंह, अवर अभियंता राम चरित्र सहित अन्य बिजली कर्मी मौजूद रहे।

बार एसोसिएशन का समय से चुनाव न कराने पर मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अध्यक्ष तलब

अयोध्या।

मिल्कीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर फिर घमासान शुरू हो गया है। समय पूर्ण होने के बाद चुनाव ना कराये जाने से आहत वकील उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दिया है। जहां वर्तमान अध्यक्ष पवन कुमार शुक्ला एवं एल्डर कमेटी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तलब किया गया है।

बताते गया कि वार्षिक चुनाव वर्ष 2023- 24 को लेकर बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के अधिवक्त-ाओं द्वारा अशोक कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष एल्डर्स कमेटी को 2 अगस्त को एक प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें वार्षिक चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी, परंतु कोई कार्यवाही न होने पर पुनः दिनांक 25 अगस्त को एल्डर्स कमेटी को एक स्मारक पत्र दिया गया। फिर भी बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के वर्तमान अध्यक्ष पवन कुमार शुक्ल के द्वारा ना तो आय-व्यय का ब्यौरा दिया गया और ना ही 17 अगस्त को कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया ही संचालित की गई। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, उसके बाद भी कोई कार्यवाही न होने से छुब्ध होकर बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के पूर्व उपाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में याचिका को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। न्यायालय में दाखिल याचिका में न्यायालय द्वारा मिल्कीपुर अयोध्या के वर्तमान अध्यक्ष एवं अध्यक्ष एल्डर कमेटी को चुनाव के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु 10 अक्टूबर को तलब किया गया है। इस कार्रवाई के बाद मिल्कीपुर बार एसोसिएशन में गर्माहट आ गई है। वर्तमान अध्यक्ष पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि जब न्यायालय द्वारा बुलाए जायेगा तो हम अपनी बात रखेंगे। नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं किया गया है।

विद्युत करंट के चपेट में आने से युवक की हुई दुखद मौत

अयोध्या। हैदरगंज थाना क्षेत्र के बैती कला गांव में बुधवार को दोपहर बाद नलकूप पर धान के फसल की सिंचाई करने गए 35 वर्षीय किसान राम अगस्त पुत्र मेवाराम की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया गया कि नलकूप के टीन शेड में उतरे विद्युत करंट की चपेट में आने से राम अगस्त झुलस गया और

मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक किसान के शव को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

सहादतगंज ओवर ब्रिज पर घायल पड़े युवक को उपजिला अधिकारी सदर ने अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान, तमाशबीन बने थे लोग

अयोध्या - जनपद के सहादतगंज ओवर ब्रिज के पास हुए एक सड़क हादसे में घायल युवक सड़क पर पड़े रहे पर किसी ने उनकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। इसी दौरान उपजिला अधिकारी /आ-ईएएस श्री विशाल कुमार वापस आ रहे थे। जब उन्होंने सड़क पर भीड़ देखी तो कार रुकवाकर मौके पर पहुंच कर देखा तो एक युवक खून से लतपथ सड़क पर पड़े हुए हैं। उपजिलाधिकारी ने तत्काल युवक को इलाज के लिए ई रिक्शा बुलाकर अस्पताल पहुंचाया। खुद भी जिला अस्पताल पहुंच गए। चिकित्सकों को बुलाकर युवक का इलाज शुरू करवाया।

जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर आसपास के लोगों और राहगीरों की भीड़ लगी हुई थी। जितने भी लोग वहां पर मौजूद रहे सभी लोग घायलों की मदद करने के बजाय फोटो खींचने में व्यस्त रहे। भला हो उपजिला अधिकारी विशाल कुमार का कि वे वहां से गुजर रहे थे और तत्काल ही घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

मानवता भूल गए लोग

हादसे के दौरान घायल युवक को उपजिला अधिकारी सदर ने एम्बुलेंस एंबुलेंस को फोन किया लेकिन उसे देर होने पर उन्होंने तत्काल प्राइवेट वहां से घायल युवक को ई रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया। सवाल ये उठ रहा है कि लोग मानवता के नाते भी घायलों की मदद के लिए आगे नहीं आए।

घायलों की मदद की अपील

सड़क हादसे में घायल युवकों की मदद के लिए लोगों के आगे न आने पर आईएएस विशाल कुमार ने दुख व्यक्त करते हुए अपील कि है कि जब भी कोई सड़क हादसे में घायल हो तो कम से कम उसकी मदद के लिए लोग आगे आए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति थोड़ी सी मानवता दिखाते हुए घायल की मदद कर उन्हें इलाज उपलब्ध कराने में सहयोग करें तो न केवल उनकी जिंदगी बच जाती है बल्कि एक परिवार पर पूरी जिंदगी के लिए आने वाला संकट टल जाता है। किसी भी घर के व्यक्ति कि जब असमय मौत हो जाती है तो उसका परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाता है। ऐसे में हमें हरसंभव मदद करना चाहिए।

टीजीटू व लाइमैन पर हमला, की मारपीट,एसडीओ जेइ समेत बिजली कर्मी कोतवाली पहुंचे, पुलिस को दी गई तहरीर

कायमगंज। फरुर्खाबाद

बिजली चेकिंग के दौरान टीजीटू व लाइनमैन के ऊपर एक घर के तीन लोगो ने हमला कर मारपीट की और जानमाल की धमकी दी। टीजीटू ने पुलिस को आरोपितों के खिलाफ तहरीर है।

बुधवार को टीजीटू मोहम्मद साहिद अपने दो साथी लाइनमैन पंकज व ध्रुव सिंह के साथ गांव कैमापुर में नए संयोजन के जांच के लिए पहुंचे थे। कार्य निपटाने के बाद गांव से वापस आ रहे थे तभी करीब दोपहर तीन बजे गांव में स्थित एक घर के पास पहुंचा। जहां एक केबिल बिना किसी वैध संयोजन के जा रही थी। जब टीजीटू घर के आंगन में पहुंचा तभी उस घर के तीन सदस्यों ने हमला कर दिया। दो मोबाइल छीन लिए। जान से मारने की धमकी दी। मारपीट की। गांव के ग्रामीणों ने बचाया। उसके बाद वह निकल पाए। घटना की जानकारी टीजीटू ने उच्चाधिकारियों को दी, जिस पर पी-ड़ितों के साथ एसडीओ समीम अंसारी, जेई विजय शंकर व लाइनमैन व अन्य बिजली कर्मी कोतवाली जा पहुंचे और आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया।

डेगू बुखार से शिक्षक की मौत, मचा कोहराम,कानपुर में चल रहा था इलाज

कायमगंज।फरुर्खाबाद

शिक्षक की कानपुर में डेगू बुखार से मौत हो गई। मौत पर कोहराम मच गया।शिक्षक का इलाज कानपुर में चल रहा था।

क्षेत्र के गांव अताईपुर निवासी अफीज खां के पुत्र मुफीद शाह नगर के एक निजी स्कूल में कैमिस्ट्री के शिक्षक थे। 11 सितंबर को उन्हे बुखार आया। उसके बाद उन्होंने नगर के एक निजी हास्पिटल में दिखाया। वहां हालत में सुधार न होने पर परिजन कानपुर स्थित रीजेंसी ले गए। परिजनों के मुताबिक जांच में डेगू के लक्षण पाए गए। इलाज के दौरान मंगलवार की रात उनकी मौत हो गई। मौत की जानकारी पर परिवारीजनों में कोहराम मच गया। शव जैसे ही गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। पत्नी व परिवार के लोगो का रो-रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है शिक्षक बेहद मिलनसाल थे। ग्रामीणों का कहना है वह कैमिस्ट्री के शिक्षक थे। शिक्षक की मौत पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक दो भाइयों में सबसे बडे थे। मृतक के तीन बच्चे है। जिसमें बड़ा पुत्र 14 वर्षीय हसनैन, 12 वर्षीय पुत्री फातिमा व आठ वर्ष की पुत्री अक्शा है।

खंड शिक्षा अधिकारी की प्रताड़ना से शिक्षक ने खाया जहरीला पदार्थ हायर सेंटर के लिए रिफर

फरुर्खाबाद के कस्बा कायमगंज की कोतवाली के मोहल्ला आजम खा निवासी शिक्षक अनिल त्रिपाठी ने, विभागीय अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया है जिससे उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में भर्ती कराया गया हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक अनिल त्रिपाठी को 8 वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा था शिक्षक ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी कायमगंज गजराज सिंह ने वेतन निर्गत नहीं किया जब वह कल खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर खंड शिक्षा अधिकारी गजराज सिंह सुरेंद्रनाथ, अबस्थी निर्देश गंगवार ने उन्हें अपमानित कर भगा दिया जिससे तंग आकर शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें कहा गया है की 96 माह से वेतन नहीं दिया गया खंड शिक्षा अधिकारी ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी वेतन निर्गत नहीं किया इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी फरुर्खाबाद से जब संपर्क किया गया उन्होंने भी नियमानुसार व्यवहार नहीं किया सुसाइड नोट में पीड़ित शिक्षक ने खंड शिक्षा अधिकारी गजराज सिंह सुरेंद्रनाथ अबस्थी निर्दोष गंगवार को जिम्मेदार बताया शिक्षक के पुत्र ने कहा पिता ने विभागीय अधिकारियों सेअपमानित होने के कारण, जहरीला पदार्थ खा लिया है इन अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी यह सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया

आखिर कब सुनवाई होगी मोहल्लेवासी परेशान उरई के मबई रोड का मामला कई बार शिकायत कर चुके हैं मोहल्ले वासी

उरई जालौन - नगर पालिका उरई के मैन रोड मबई रोड स्थित मोहल्ला व मुख्य हाइबे से जुड़ा हुआ है जिसमे विद्युत पोल ना होने से बिजली की समस्या बनी हुई है कई बार विद्युत विभाग को भी जानकारी व लिखित शिकायतें की गयी लेकिन कार्यवाही के नाम पर समस्या का निदान अब तक नही हो पाया ।

इस बार शिकायतकर्ता ने जनप्रतिनिधि से सहायता मांगी है जिसमे उक्त शिकायतकर्ता ने केंद्रीय मंत्री भानू प्रताप वर्मा को लिखित शि-ाकायत करते हुए बताया कि उरई के मबई रोड स्थित विद्युत विभाग द्वारा पोल ही नही गाड़े गये बिजली कहाँ से आये यह समस्या लगभग एक

किलोमीटर बसे मोहल्ले की है जिसमे बिजली ना आने के कारण अंधकार बना हुआ है विभाग को बिजली के लिए कई फरियादें की गयी लेकिन समस्या जस की तस है जबकि मुख्य हाइबे भी इसी मोहल्ले से गुजरा हुआ है जिसमे रहवासियो ने विद्युत पोल के लिए विभाग से कई बार गुजारिश की लेकिन निदान नही हो पाया है। समस्या को लेकर सांसद केंद्रीय मंत्री भानू प्रताप वर्मा ने कहा कि संबंधित जानकारी विभाग को दी जाएगी व जल्द ही विद्युत पोल लगवाये जाएंगे जिससे अंधकार में डूबा मोहल्ला उजाले में विकसित हो सके।

भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता का हुआ जोरदार स्वागत

कम्पिल/फरुर्खाबाद

भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार नगर कम्पिल में आगमन पर जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता का वरिष्ठ भाजपा नेता निशांत गुप्ता व ऋषभ गुप्ता के द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया एवं भाजपा कार्यकर्ता द्वारा नगर कम्पिल में जगह-जगह स्वागत किया गया।

अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मुकेश राजपूत मौजूद रहे। क्षेत्र भर से बधाई देने पहुंचे हजारों कार्यकर्ता स्वागत करने पहुंचे।

कस्बा कम्पिल में गुरूबार को कम्पिल अटैना बाईपास पर व्यापारी नेता ऋषभ गुप्ता के आवास पर आयोजित स्वागत समारोह से अभिभूत होकर जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा। कार्यकताओं का विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। साथ ही पार्टी जिले में जीत का पुराना इतिहास दोहराएगी। आगामी लोक सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होंगी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मुकेश राजपूत ने कहा संगठन का कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता ही पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाता है विषम से विषम परिस्थितियों में भी पार्टी कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करते हैं। भाजपा का संगठन कार्यकताओं पर आधारित है जनसंघ से लेकर भाजपा के निर्माण तक महापुरुषों और लाखों कार्यकताओं ने अपना बलिदान दिया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लेकर पार्टी आगे बढ़ी और आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रि-ाक पार्टी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ देश को एक मजबूत नेतृत्व देने का कार्य किया 2014 के पहले का भारत आतंकवाद भ्रष्टाचार तुष्टिकरण जैसे मुद्दों से भरा हुआ था मोदी के नेतृत्व में आज का भारत विश्व पटल पर सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। भारत को और मजबूत करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा की सरकार बनना जरूरी है।बरिष्ठ भाजपा नेता निशांत गुप्ता एवं ऋषभ गुप्ता के नेतृत्व में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष एवं भाजपा सांसद मुकेश चंद्र राजपूत को स्मृति चिन्ह एवं फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। स्वागत समारोह में प्रमुख समाजसेवी पुखराज डागा, पूर्व मंडल अध्यक्ष बरिष्ठ भाजपा नेता धीरज शाक्य, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हसनैन, आदेश वर्मा, राजेंद्र प्रजापति, संजीव,भूरे, आदि लोग मौजूद रहे '

मिशन वात्सल्य, मानव तस्करी, लैंगिक हिंसा की रोकथाम तथा बाल एवम बंधक श्रम विषय पर महिला एवं बाल विकास विभाग और जन स-ाहस द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न

उरई(जालौन)।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मी बाई सभागार में मिशन वात्सल्य, मानव तस्करी, लैंगिक हिंसा की रोकथाम तथा बाल एवम बंधक श्रम विषय पर कार्यशाला का आयोजन जन साहस संस्था जालौन तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा किया गया। डॉ अमरेंद्र पौत्स्यायन जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा जिले में महिला एवम बाल विकास द्वारा आयोजित गतिविधियों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक, पंचायत की सहभागिता और विभागो के बेहतर समन्वय के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन हेतु जिलाधिकारी व भीमजी उपाध्याय मुख्य विकास अधिकारी, के सामने विचार साझा किए। जिलाधिकारी ने उचित कार्यवाही और मार्गदर्शन हेतु सहमति प्रदान की। मुख्य विकास अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस विभाग, द्वारा बच्चों के विषय पर गंभीरता से और आपसी समन्वय से विभागो को कार्य करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यशाला के तकनीकी सत्र के आयोजन में डॉ अमरेंद्र पौत्स्यायन, अधिवक्ता बृजराज सिहं, यूनिसेफ प्रतिनिधि चंद्रेश यादव, जन साहस टीम से शादाब आलम, करन राठौर, आशुतोष सिंह, और रविंद्र यादव शामिल हुए।

कार्यशाला में अमिता शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश व रेनू यादव, माननीय न्यायाधीश/ सचिव जिला विधि सहायता अभिकरण उपस्थित होकर न्याय विभाग द्वारा संचालित योजनाओ और जागरूकता गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में सतीश चंद्र अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग से जगदीश वर्मा, जूली बाल संरक्षण अधिकारी, अनिल कुमार AHTU प्रभारी, इफ्तेखार अहमद डीपीओ आईसीडीएस, रामदत्त प्रजापति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सत्यम त्रिपाठी, समाज कल्याण अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी, जन साहस संस्था से आशुतोष सिंह, नंदकुमार बौद्ध, पंचम, राहुल, हेमा, मणि, प्रदीप और जन साहस जालौन टीम के सभी सदस्य शामिल हुए।

जिलाधिकारी द्वारा मेडिकल कालेज का किया गया औचक निरीक्षण कर दिये गए दिशा निर्देश

उरई(जालौन)।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने राजकीय मेडिकल कालेज का औचक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम इमरजेन्सी ओ0टी0, सर्जरी वार्ड, प्लास्टर कक्ष, इमरजेन्सी पंजीकरण कक्ष, ट्रामासेन्टर, न्योरोलॉजी, ओ0पी0डी0, डिजिस्टल ऐक्सरे कक्ष, आथोर्वार्ड, पीडिया वार्ड आदि वार्डो का निरीक्षण कर संबंधित को निर्देशित किया। उन्होने चिकित्सकों को निर्देशित किया कि मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं व उपचार में किसी भी प्र-कार की लापरवाही न बरती जाये। उन्होने उपस्थित संबंधित अधिकारी को पंजीकरण बढ़ाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि आयुष्मान क-ार्ड धारकों के मरीजों को आयुष्मान मित्र के द्वारा प्राथमिकता पर उपचार दिलाया जाये, आयुष्मान मित्र वार्डो में भर्ती मरीजों से वार्ता कर जो पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड से वंचित है ऐसे सभी मरीजों को चिन्हित करते हुये त्वरित मौके पर ही आयुष्मान कार्ड बनाया जाये। उन्होने निर्देशित किया कि बिना आयुष्मान कार्ड धारकों के लिये उचित दर पर उपकरण व दवाईओं के लिये टेण्डर प्रक्रिया शुरू की जाये। उन्होने कहा कि राजकीय मे-

डिकल कालेज में पर्याप्त दवाईयां उपलब्ध है किसी भी चिकित्सक द्वारा मरीजों को बाहर की दवा न लिखी जाये, यह सुनिश्चित करें। मेडिकल प्राचार्य ने 100 बेड, 25 व्हील चेयर, 25 स्ट्रेचर की मांग की, सी0एस0आर0 फण्ड से सी0टी0/एम0आर0आई0 की मांग की। जिलाधिकारी ने कहा कि पत्र के माध्यम से अपनी मांगो को प्रेषित करें जिससे राजकीय मेडिकल कालेज में आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति की जा सके। उन्होने ई0ई0जी0 मशीन पर मरीज के उपचार के दौरान उसका कुशलक्षेप जाना, इस मशीन से मिर्गी, सिर दर्द व मेन्टल ग्राफ चैक किया जा रहा हैं। जिलाधिकारी ने भर्ती मरीजों से वार्ता कर वहां उपलब्ध हो रहे उपचार के लिये उपकरण, दवाई और किसी भी प्रकार की परेशानी की जानकारी ली जिस पर मरीजों द्वारा सन्तोषजनक उपचार दिये जाने की बात कही। परिसर में बेहतर साफ-सफाई न मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की, साथ ही निर्देशित किया कि परिसर में और सुदृढ़ साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। निरीक्षण के दौरान राजकीय मेडिकल कालेज प्राचार्य आर0के0 मौर्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एन0डी0 शर्मा, सी0एम0एस0 मे-डिकल प्रशान्त निरंजन, डिप्टी कलेक्टर राहुल द्विवेदी सहित चिकित्सक मौजूद रहे।

ग्राम प्रधान ने गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा जाति सूचक गाली गलौज करने व रंगदारी मांगने का लगाया आरोप पुलिस अधीक्षक से की शिकायत

उरई जालौन ग्राम प्रधान ने अपने पूरे परिवार सहित पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय दबंगों पर रामपुरा थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने से आहत होगा की पुलिस अधीक्षक से शिकायत ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में बाधा पहुंचा रहे दबंगों से भयबीत ग्राम प्रधान ने पुलिस अधीक्ष-ाक डॉ ईराज राजा से न्याय की गुहार लगायी उक्त शिकायतकर्ता का कहना है कि गांव के ही दबंगों ग्राम पंचायत में होने वाले सरकारी कार्यों में बाधा डाल रहे है उक्त दबँगों का कहना है कि ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य फर्जी बताते है एवं दबँग 50 हजार रुपये की मांग करते है मांग पूरी ना होने पर दबँगों ने प्रधान प्रतिनिधि तेज सिंह दोहरे व ग्राम प्रधान संगीता को धमकाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जाति सूचक गाली गलौज दी।

ग्राम प्रधान सुल्तानपुरा के मजरा भैलावली निवासिनी महिला ग्राम

प्रधान संगीता देवी ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के ही दबँग पूर्व प्रधान गंभीर सिंह यादव, समरथ सिंह यादव , उदय यादव,पुत्र तिलक सिंह ने दबाव बनाकर जातिसूचक गाली गलौज की जब उक्त दबँग मारपीट पर आमादा हुए तो परिजनों व मोहल्ले के लोगों को इकठ्ठा होता देख दबँग मौके से भागने में सफल हुए उक्त शिकायतकर्ता का आरोप है कि दबंगों द्वारा 50 हजार की मांग करते है मांग पूरी ना होने पर ग्राम पंचायत के कार्यों को फर्जी बताते है उक्त ने पूर्व में क्षेत्रधिकारी माधौगढ़ एवं थानाध्यक्ष रामपुरा 20-09-2023 को शिकायती पत्र दिया था लेकिन अभी तक कार्यवाही नही हुई जबकि शिकायतकर्ता तेज सिंह पत्नी संगीता देवी का कहना कि इस घटना को लेकर पति तेज प्रताप एवं पूरा प-रिवार भयभीत है उक्त लोगों ने पुलिस अधीक्षक से दबँगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।

अनूपपुर जिले में सालों से पदस्थ है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी

दैनिक समाज जागरण

अनूपपुर। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनूपपुर जिला मुख्यालय में कई शासकीय विभागों में अधिकारी से लेकर बाबू स्तरके कर्मचारी जमे हुए हैं लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। बताया जाता है कि ग्रामीण यंत्र की विभाग में पदस्थ मिश्रा नामक उपयंत्री कई वर्षों से अनूपपुर जिले में पदस्थ है और अपनी ऊंची पकड़ के कारण कोतमा एवं जैतहरी विकासखंड में पदस्थ हो जाता है सूत्र तो यह भी बताते हैं कि मिश्रा का मूल पद उप यंत्री है लेकिन अनुविभागीय अधिकारी के पद पर जुगाड़ के दम पर पोस्टिंग हो जाती है। इनके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वीरेंद्र नामक बाबू भी कई वर्षों से इसी कार्यालय में पदस्थ है कई जिला अधिक शिक्षा अधिकारी आए और अन्यत्र स्थानांतरित हो गए लेकिन कथित बाबू अभी तक अनूपपुर जिले में ही पदस्थ है आखिर क्या कारण है कि जब अन्य विभागों में वर्षों से पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है तो वर्षों से पदस्थ ऐसे कर्मचारियों की ओर जिला प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता।

तृतीय धनबाद जिला योगासना स्पोर्ट्स प्रतियोगिता दिनांक 2 व 3 अक्टूबर को दी रीत रिसोर्ट में आयोजन किया जाएगा

दैनिक समाज जागरण शीतल दत्ता वरीय संवाददाता धनबाद झारखंड

धनबाद जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ की और से मीडिया को जानकारी देते हुए कहा गया कि तृतीय धनबाद जिला योगासना स्पोर्ट्स प्रतियोगिता दिनांक 2 व 3 अक्टूबर को द रीत के सभागार में किया जाएगा ` प्रतियोगिता बालक/बालिका आयु वर्ग 9 वर्ष से कम, आयु वर्ग 9 से 14 वर्ष, आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष, आयु वर्ग 18 से 28 वर्ष, मास्टर में तीन आयु वर्ग 28 से 35 वर्ष, 35 से 45 वर्ष, 45 से 55 वर्ष में किया जाना है` इच्छुक खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन संघ कार्यालय, स्काई आटॉमोबाइल सेन्टर, नियर गोल बिल्डिंग, 8 लेन एच.पी. पेट्रोल पंप के सामने अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अथवा ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करवा के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं इसीलिए इस मौका का ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेकर अपना प्रतिभा दिखाएं` इस प्रतियोगिता के आधार पर आगामी दिनांक 8 व 9 अक्टूबर को जमशेदपुर में आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी भाग लेंगें` बैठक में राज्य संघ के महासचिव श्री विपिन कुमार पाण्डेय, जिला संघ के संरक्षक श्री परीक्षित पाण्डेय, अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष डा.शैलेष कुमार, जितेन्द्र सिंह, बी.के. सिंह, जशपाल सिंह, संजय यादव, प्रियंका कुशवाहा, आरती सिंह, आरती शर्मा, अनामिका विश्वकर्मा उपस्थित थे, यह जानकारी संघ के सचिव कुणाल कुमार ने दी

सांसद महोदय को मासस से लग रहा है डर टिकट पाने की लालच में धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह का बेतुका बयान

दैनिक समाज जागरण धनबाद झारखंड

सिंदरी : धनबाद पशुपतिनाथ सिंह का बेतुका बयान यानी झूठा इलजाम से मासस कार्यकताओं में दिन ब दिन आक्रोष बढ़ते जा रहा है । इसी कारण मासस सिंदरी कांडरा में सांसद पीएम सिंह के द्वारा दिए गए बयान के विरोध में सांसद का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया '

मासस के केंद्रीय सचिव बबलू महतो ने कहा । अगर ये झूठा आरोप वापिस नही हुआ तो आगे और आंदोलन जारी रहेगा । ये आक्रोश जारी रहेगा । यह कहना

आक्रोश बड़ना भी जायज है सांसद होकर इस तरह का बयान कतय बर्दास्त करने की बात नहीं है । सांसद मोहदय को पता होना चाहिए की महीनों पहले भाजपा कार्यकर्ता रात रात भर कोयला गाड़ी रोक रहा था । और पैसा वसूल हो रहा था ।, झूठा आरोप लगाना बच्चो का काम होता है सबूत देना पहाड़ काटने के बराबर होता। है । आपने तो वोट के चक्कर में आरोप तो लगा दिया । मासस आपको खुली चुनौती भी देता है कृपया सबूत भी दे दीजिए तब मासस खुद मान लेगा की मासस कोयला का दलाल है । मासस गरीबों का हक अधिकार दिलाने वाला पार्टी है , संघर्ष का पार्टी है मजदूरों का पार्टी है , आंदोलन का पार्टी है । कोयला चोरी कोन करता है और करता है किसी से छुपी नहीं है जनता सब जान रही है और देख भी रही है बस अब जनता को 2024 का इंतजार है । मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे

ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम के द्वारा लगातार जारी है मानव सेवा

दैनिक समाज जागरण धनबाद झारखंड

समाजसेवी गौतम कुमार मंडल एवं उनके टीम के सदस्य के द्वारा आठ लेन रोड पर मृत पड़े गौवंश और रोड एक्सीडेंट पर पड़े लोगो की लगातार कर रहे हैं सेवा। किसी को हॉस्पिटल पहुंच कर जान बचाना तो कभी मृत पड़े गौवंशों का अंतिम संस्कार करना यह कार्य हमेशा जारी है इस प्रकार ठीक आज का भी एक घटना नालंदा कोटेज की पास की है। जिसमें ह्यूमैनिटी टीम के सदस्य सक्रिय भूमिका एवं अपना कर्तव्य निभाएं।

पढ़ाई के साथ-साथ खेल कूद भी उतना ही महत्वपूर्ण - दिपेश चौहान

दैनिक समाज जागरण धनबाद झारखंड

सामाजिक संस्था समर्पण एक नेक पहल के संस्थापक दिपेश चौहान ने किशोरों के बीच फुटबॉल बांटा और साथ ही उन्होंने बताया कि खेल का महत्व हमारे जीवन में उतना ही होना चाहिए जितनी पढ़ाई की महत्व होती हैं क्योंकि आज अपने झारखंड प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के भी ऐसे कई युवा खिलाड़ी आगे आए हैं जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, खेल के कारण कई खिलाड़ी एक संपन्न जीवन यापन कर रहे हैं इतना ही नहीं खेल कूद से शरीर व मस्तिष्क दोनों बिल्कुल स्वस्थ्य रहते हैं, इसीलिए आज हमारी संस्था के द्वारा इन बच्चों के बीच खेल सामाग्री प्रदान की गई हैं, मौके पर संस्था के सक्रिय सदस्य धीरज सिंह, राहुल कुमार, सोनू कुमार, रोहित चौहान सूरज कुमार, अभिषेक शर्मा इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे

खुशी एवम गम के माहौल में मना मिलाद उन नवी का त्योहार

दैनिक समाज जागरण कामाख्या नारायण मिश्र वरीय संवाददाता

धनबाद (झारखंड):-28 सितंबर 2023: जिले के टुंडी प्रखंड अंतर्गत कमारडीह मे गत बृहस्पतिवार को मिलाद उन नबी के मौके पर कमारडीह मोड से उपर भोजूडीह मोड़ तक जलूस ए मोहम्मदी पुर्व मुखिया अब्दुल रसीद एवं जामा मस्जीद के इमाम इमरान रजा के नेतृत्व मे निकाला गया , जिसमे सैकडो की तादाद मे लोग शामिल होकर हजरत मोहम्मद के शान मे नारे लगाये। आज ही के दिन पेगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म एवं मृत्यु एक ही दिन हुआ था , जिस कारन खुशी एवं गम का मिलाजुला पर्व है। टुंडी प्रज्ञा केंद्र के संचालक शहजाद अंसारी भी इस जुलूस में शिरकत किया ।

बाद मे कमारडीह जामा मस्जीद मे जमा होकर संयुक्त दुआ खैर किया गया । मौके पर इमाम अबदुल जब्बार , पूर्व मुखिया अबदुल रशीद ,सलाहुद्दिन अंसारी, शहजाद अंसारी, नेशार अहमद, मो फैज, जाहीद मोईनुल हक , मजीद अंसारी आदि शामिल थे ।

लालमणि वृद्धा आश्रम में जन्मदिन पर खुशियों का माहौल

दैनिकसमाज जागरण कामाख्या नारायण मिश्र
वरीय संवाददाता

धनबाद (झारखंड):-28 सितंबर 2023: जिले के लोहार बरवा टुंडी रोड स्थित लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम अपना घर में समाजसेवी असलम खान अपने पूरे परिवार के साथ आश्रम में आश्रय ले रहे वृद्धजनों की सेवा करने एवं शुद्ध बुद्ध लेने पहुंचे। उन्होंने बताया आज मेरे एक वर्षीय पोते अहमदुल्लाह का जन्मदिन है और मैं और मेरे पूरे परिवार ने उसका जन्मदिन यहीं आश्रम में मनाने का निश्चय किया क्योंकि यहां पर माहौल बहुत ही भावनात्मक होता है साथ ही सेवा से वृद्धजनों का निस्वार्थ हार्दिक दुआ आशीर्वाद प्राप्त होता है जो जीवन में बहुत बहुमूल्य है। मेरे सारे परिवार यहां पर वृद्ध जनों की सेवा कर, घुल मिलकर काफी खुश है इससे बड़ा हार्दिक संतोष और क्या हो सकता है। इस दुनिया में इंसानियत का भला करने से बड़ा दूसरा कोई काम नहीं है। आश्रम में

अहमदुल्लाह का वृद्ध जनों के बीच जन्मदिन काटा गया। तथा वृद्धजनों के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया गया था। पूरे परिवार का अपनापन, प्यार और सेवा से गदगद थे सभी बुजुर्गों ने मो. असलम खान के पूरे परिवार और दोस्तों को आत्मिक हार्दिक आशीर्वाद दिया। बुजुर्गों के सेवा सत्कार के लिए आश्रम अध्यक्ष मो. नौशाद गद्दी ने बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए पूरे परिवार का आभार प्रकट कर शुक्रिया अदा किया। बुधवार को बुजुर्गों की सेवा में मो. असलम खान, मुस्ताक अहमद खान, अख्तर खान, अकबर खान, मो. नजीबुल्लाह, रेहाना खातून, नुजहत नाज,मरियम खानम, सफीकुन निशा, अमीना खान, अलीशा खान सक्रिय थे।

मनियाडीह थाना में मिलाद-उन-नबी को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने हेतु शान्ति समिति की बैठक सम्पन्न।

दैनिक समाज जागरण कामाख्या नारायण मिश्र वरीय संवाददाता

धनबाद (झारखंड):- जिले के टुण्डी प्रखण्ड+ अंचल के मनियाडीह थाना परिसर में गत बुधवार को मिलाद-उन-नबी पर्व को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने हेतु शान्ति समिति की बैठक सम्पन्न हुई । कयूटी से यो यो उर यो

बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी पवन कुमार चौधरी एवं संचालन एस-ाआई राहुल पासवान ने किया ।

बैठक की शुरूआत नये थानेदार पवन कुमार चौधरी ने अपने समिति के सदस्यों के समक्ष दिया तत्पश्चात जनप्रतिनिधियों के साथ - साथ सबों ने बारी-बारी से अपने - अपना परिचय दिया ।

परिचय सत्र समाप्त होने उपरान्त नये थानेदार ने क्षेत्र में होनेवाले उन स्थानों की जानकारी मांगी जहां मिलाद-उन-नबी पर्व से सम्बन्धित कार्यक्रम किये जातें रहे हों। बैठक में उपस्थित मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा वैसे कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं अन्य दिनों की भांति हमसभी नमाज यदा करते हैं ,गांव क्षेत्रों में साधारण दिनों की तरह ही कार्यक्रम होते रहते हैं ।।

बैठक समाप्ति से पूर्व सबों ने चाय - बिस्कुट का संयुक्त रूप से आनन्द लिया और उसके बाद प्रभारी पवन कुमार चौधरी ने समाप्ति की घोषणा किया ।

मौके पर मुख्य रूप से मनियाडीह मुखिया सुपर्णा देवी के प्रतिनिधि जय प्रकाश दा, मछियारा मुखिया चांदमुनी देवी के प्रतिनिधि बुधन हेम्ब्रम , समाजसेवी नवीन चन्द्र सिंह , मनोरंजन दा ,मुख्तार अंसारी , समसुद्दीन अंसारी , छोटु अंसारी , आसुतोष दा , कृष्ण कन्हैया दा, परेश सेन , छोटे पण्डित एवं गोविन्द साव इत्यादि उपस्थित रहें

मुस्लिम धमार्लंबियों ने पैगंबर मुहम्मद साहब का धुम धाम से जयन्ति मनाया।

दैनिक समाज जागरण
घनश्याम पाठक, ब्यूरो चीफ

हजारीबाग (झारखंड) 28 सितंबर 2023 : - आखरी मुस्लिम धर्मावलंबियों के पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब की जन्म दिवस को सम्पूर्ण जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। उसके अनुयायियों ने कहा कि मेरे आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब की जन्मदिवस (जयंती) बारह रब्बीउल अव्वल, ईद मिलादुन्नबी हैं जिनका मजार शरीफ मक्का शरीफ में वहीं मदीना शरीफ भी है। भारत से मक्का शरीफ पश्चिम दिशा में है इसीलिए भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पश्चिम दिशा की ओर रुख करके पढ़ते हैं ' हजरत मुहम्मद साहब 570 ई - 8 जून 632 ई) इस्लाम के संस्थापक थें। इस्लामिक मान्यता के अनुसार, वह एक पैगम्बर और ईश्वर के सच्चे और ईमानदार संदेशवाहक थे, उसके रंगों में सहानुभूति, दया , न्यायप्रियता, संयमी, सदाचारी, एकता, धर्मनिरपेक्षता , वे इन भाव के गुणों से अपने जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए प्रेरित किया जिन्हें इस्लाम के पैगम्बर भी कहते हैं । जो पहले आदम , इब्राहीम , मूसा ईसा (येशू) और अन्य पैगम्बर द्वारा प्रचारित एकेश्वरवादी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए भेजे गए थे। तथा आज के दिन हमलोग अपने अपने घरों में गली में मुहल्ले में इस्लामिक झंडा लगाते हैं और उनकी आमद की खुशी में ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं । उनके अनुयाई के अनुसार उनके चारित्रिक गुणों में

सहानुभूति और दया,

वे हमेशा दूसरों के दुःख और दर्द को महसूस करते थे , और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। न्यायप्रिय थे हमेशा न्याय की बात पर विश्वास करते थे,

वे पीड़ितों के पक्षधर थे,लोगों के आवाज बनकर अधिकारों की रक्षा करते थे। मोहम्मद साहब को अद्वितीय संयम की शक्ति थी।उनको सभी उम्र के लोगों का सम्मान करने का आदर्श प्राप्त हुआ । वे हमेशा अपने दरबार में सभी का समान आदर

करते थे और उनकी बात सुनते थे। वे

एक साथ रखने और समझने की बात कही।

वे लोगों को एक साथ मिलकर अच्छे रिश्ते बनाने और एक दूसरे का सम्मान करने का संदेश देते रहे।

धर्म-निरपेक्षता में उनका साफ संकेत था कि विश्वास पर धर्म की आजादी होनी चाहिए।

उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और सभी लोगों को एक साथ रखने के लिए धर्म-निरपेक्षता का संदेश दिया।

मोहम्मद साहब के विचार और उपदेशों से हमेशा लोग प्रेरणा लेते रहे हैं।

उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से दूसरों को आशा दी

और उन्हें जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए प्रेरित किया।

उनके जन्मदिवस के कार्यक्रम को हजारीबाग जिले के बरकट्ठा बड़ी बिशनगढ़ हजारीबाग समेत सभी स्थान पर मिलजुल कर लोगों ने मनाया विष्णुगढ़ में किरतोड़ी मैं मध्य जीव सदस्य पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ताज अंसारी एवं गणमान्य लोगों ने मिलकर मनाया , वहीं पांडे डी , बराएं , गैड़ा , नवादा , बनासो , एवं बरकट्ठा के कई पंचायत क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य शमीम अंसारी एवं उनके सहयोगियों ने मिलकर सभी को मुबारकबाद दिया, और इसको धूमधाम से मनाया गया जिसमें गणमान्य प्रतिनिधि और समाजसेवी उपस्थित हुए आप सभी को इस पवित्र त्योहार बारह रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं, सभी त्योहार कुछ ना कुछ अच्छा संदेश देता है चाहे वो किसी भी जाति धर्म का त्योहार हो सभी त्योहारों से हमें कुछ सीखना चाहिए और खुशी खुशी त्योहारों का आनंद लेना चाहिए।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी भगत सिंह के जयंती पर नारायण प्राइवेट आईटीआई लुपुंगडीह में दी गई श्रृद्धांजलि

फुलचांद पारित, समाज जागरण
संवाददाता, नीमडीह

नीमडीह (झारखंड), 28 सितंबर 2023 : सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत नारायण प्राइवेट आईटीआई लुपुंगडीह नीमडीह में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धसुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक डॉक्टर जटाशंकर पांडे ने कहा कि भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रान्तिकारी थे। चन्द्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केन्द्रीय संसद (सेण्ट्रल असेम्बली) में बम-विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलन्दी प्रदान की। इन्होंने असेम्बली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया। जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों, राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फाँसी पर लटका दिया। उस समय भगत सिंह करीब बारह वर्ष के थे जब जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियाँवाला बाग पहुँच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने

चाचाओं की क्रान्तिकारी किताबें पढ़ कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आन्दोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रान्तिकारियों के हिंसक आन्दोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गाँधी का सम्मान करते थे। उन्होंने गाँधी जी के अहिंसात्मक आन्दोलन की जगह देश की स्वतन्त्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारम्भ किया तथा कई क्रान्तिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रान्तिकारियों में चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी काण्ड में 4 क्रान्तिकारियों को फाँसी व अन्य 16 को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस अवसर पर मुख्य रूप से एडवोकेट निखिल कुमार, शांति राम महतो, पवन कुमार महतो, देवकृष्ण महतो,अजय मंडल, गौराब महतो, शिशु मति दास, निमाई मंडल आदि मौजूद थे।

चांडिल में जे बी के एस एस द्वारा सुकसारी स्कूल मैदान में वार्षिक करम महोत्सव का हुआ आयोजन

शशि भूषण महतो,दैनिक समाज
जागरण,अनुमंडल संवाददाता(चांडिल)

चांडिल : सराइकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चांडिल सुकसारी मैदान में प्रति वर्ष की भाती इस वर्ष भी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति द्वारा वार्षिक करम महोत्सव का आयोजन किया गया।करम अखाड़ा का उद्घाटन रसूनिया पंचायत के मुखिया मांझी ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र से आए हजारों लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा।करम महोत्सव अखाड़े में विभिन्न क्षेत्रों से आए कुल 12 करम दलों ने अखाड़े में भाग लिया। करम अखाड़ा में अच्छे प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी विजेता करम दलों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया । जिसमे प्रथम स्थान पाने वाले करम दल को 9000 द्वितीय स्थान करम दल 7000 एवं तृतीय स्थान करम दल 5000 नगद राशि देकर सम्मानित किया साथ प्रतिभागी सभी करम दलों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य सह छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एवं जेबीकेएसएस के कोल्हान शेरनी बेबी महतो का गाजे बाजे एवं फूल वर्षा के साथ स्वागत हुआ।

करम महोत्सव कार्यक्रम में विशेष रूप से मंचाशीन हुए ईचागढ़ विधानसभा के लोकप्रिय समाजसेवी विश्वरंजन महतो,खगेन महतो,सोनू महतो,कृष्ण महतो,घोड़नेगी पंचायत समिति सदस्य छुटूलाल महतो,समाजसेवी सह जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य मोहम्मद जवाद,झारखंड आंदोलनकारी सह

समाजसेवी सुनील महतो,उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के गोपेश महतो ने बताया हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित सांस्कृतिक को लोगो के साथ नए सिरे से जोड़कर एवं युवा पीढ़ियों में अपने सांस्कृतिक को उभारने के लिए करम महोत्सव अखाड़े का आयोजन हर साल किए जा रहे हे।

करम महोत्सव पर सांस्कृतिक झूमूर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमे लखीमनी झुमुर दल झालदा द्वारा करम गीत सहित विभिन्न तरह के झुमुर संगीत से पूरे विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे लोगो को झुमाया। मौके पर मुखिया मंगल माझी,ग्राम प्रधान बिदुभूसन महतो,समाजसेवी विवेक गोप,जगन्नाथ महतो,पांडव गोप,गोपेश महतो, फूल चांद महतो,चिरंजीत महतो,विश्वनाथ महतो,सुकदेव महतो,रिंकू महतो,आदित्य महतो,सुदामा महतो,आशु कालिंदी,कमल महतो,सूरज महतो सहित झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे।

बिष्णुगढ़ के नवादा के नजदीक चार पहिया और दो पहिया में सीधी टक्कर से पांच लोग हुए जख्मी

दैनिक समाज जागरण घनश्याम पाठक ब्यूरो चीफ

हजारीबाग (झारखंड) 28 सितंबर 2023:- विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र के बिष्णुगढ़ गोमिया रोड स्थित नवादा के समीप आज करीबन 10:00 बजे सुबह आमने-सामने से एक चार पहिया और दो पहिया वाहन में सीधी टक्कर हो गई , जिससे महताब अंसारी बराएं गंभीर रूप से घायल हो गया । और चार पहिए में बैठे श्रियांशु कुमार , सुप्रिया ठाकुर , विमला देवी , ममता झा , समेत फुसरो निवासी भी घायल है । घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिष्णुगढ़ लाया गया , जहां डॉक्टर अंकित जय पुरियार, डॉक्टर वंदना कुमारी , डॉक्टर जागेंद्र कुमार , एवं सामुदायिक केंद्र के सहकर्मी सिकंदर राम , मोहन महतो , समेत सभी लोगों ने मिलकर चिकित्सा करते हुए महताब अंसारी बरांय को रेफर कर हजारीबाग भेज दिया।

जैन समाज का दशलक्षण महापर्व अनंत चतुर्दशी के दिन समापन निकली शोभा यात्रा

दैनिक समाज जागरण घनश्याम पाठक ब्यूरो चीफ

गिरिडीह(झारखंड)28 सितंबर 203:- गिरिडीह जिले में अनंत चतुर्दशी के साथ ही जैन समाज का दश दिनों तक चलने वाला 10 लक्षण महापर्व का समापन आज हो गया । जिसे भव्य शोभा यात्रा निकालकर किया गया शहर के जैन मंदिर से निकले शोभा यात्रा में काफी संख्या में जैन समाज के भक्त शामिल हुए , शोभा यात्रा में महिलाएं भी बढ़-चढ़कर भाग ली हुई थी , मौके पर भक्तों की टोली भगवान महावीर के अष्टधातु से सजे मूर्ति को पालकी में सजाकर साथ चल रहे थे , जैन मंदिर से निकले शोभा यात्रा शहर के कई हिस्सों से गुजरते हुए बड़ा चौक जैन मंदिर पहुंची जहां शांति धारा का पाठ किया गया । इसके बाद शोभा यात्रा बड़ा चौक स्थित जैन मंदिर पहुंचकर समापन किया गया , इधर अनंत चतुर्दशी के मौके पर अन्नत भगवान की पूजा घर-घर में धूमधाम से किया गया। तो मंदिरों में भी भगवान अनंत की पूजा अर्चना भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक किया और उनका यह आवाहन लेकर आगे फल की प्राप्ति की कामना की।

सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के निमित भाजपा युवा मोर्चा कोइरी डिह मंडल की बैठक

दैनिक समाज जागरण , घनश्याम पाठक, ब्यूरो चीफ

गिरिडीह (झारखंड) 28 सितंबर 2023 :- सरिया प्रखंड के बागोडीह स्थित पंचायत सचिवालय में मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा के अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुआ।

इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री श्री अमित साहु,पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शशि कुमार शामिल हुए।इस बैठक सेवा पखवाड़ा के निमित आगामी कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया , साथ ही संघठन मजबूती पर जोर देने की बात कही गई।

इस बैठक में प्रभारी सोनू सिंह, महामंत्री अमरनाथ सिंह,मुखिया धानेश्वर साव,जिला आईटी सेल संयोजक नवीन पांडेय,महामंत्री मुकेश ठाकुर,सांसद प्रतिनिधि रामदेव ठाकुर,मंडल अध्यक्ष सतीश मंडल,पंसस विनोद महतो, मोहन कुमार,दीपक साव,राजेश पासवान, सकलदेव यादव, रोहित साव,पवन वर्मा,पंकज,वर्मा,राजेश पासवान,राजेश पांडेय,डिक्की यादव,विजय महतो,सहित मंडल अन्तर्गत आने वाले सभी पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति सदस्य लोग मौजूद रहें।

श्री श्री दुर्गा पूजा कमिटी कांड्रा कॉलोनी के पंडाल का हुआ भूमि पूजन, भव्य होगा दुर्गा पूजा का आयोजन

अभय कुमार मिश्रा, दैनिक समाज जागरण, प्रखंड संवाददाता, आदित्यपुर

सरायकेला खरसावां (झारखंड) 28 सितंबर 2023:झ सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत श्री श्री दुर्गा पूजा कमिटी कांड्रा कॉलोनी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने और पंडाल निर्माण के लिए गुरुवार सुबह भूमि पूजन किया गया. भूमिपूजन पं श्यामा प्रसाद बनर्जी के द्वारा श्री श्री दुर्गा पूजा कमिटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति में भूमि पूजन कराया गया . भूमि पूजन के मौके पर कमिटी के अध्यक्ष होनीसिंह मुंडा ने बताया कि श्री श्री दुर्गा पूजा कमिटी कांड्रा कॉलोनी द्वारा लगभग 1951 ई. से लगातार पूजा किया जा रहा है. 15 अक्टूबर को प्रातः 5 बजे से कलश स्थापना के साथ मां का विधिवत पूजा अर्चना और आराधना शुरू हो जायेगी, जो 24 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ समापन होगा. महाअष्टमी व महानवमी को महाआरती के साथ, महाभोग का वितरण किया जायेगा.भूमि पूजन के अवसर पर अध्यक्ष होनीसिंह मुंडा, त्रिनाथ राव, साधन दास, सुशील वार्ष्णेय, संजय वार्ष्णेय, विपिन वार्ष्णेय, महासचिव के०दुर्गा राव, विजय महतो,राजू मंडल, राजगोपाल वार्ष्णेय,चन्दन सिंह, स्वाधीन महतो, साई राव,विनोद सेन,रंजीत सेन, आदित्य चौधरी,कपीश सिंह,ऋतिक प्रसाद,विक्की मिश्रा,अमन गुप्ता आदि सदस्य शामिल हुए.

युवक को मरणासन्न करने के खिलाफ कानपुर के सिखों में भाजपायों के खिलाफ रोष : आज बंद

- पुलिस ने हमला करने वाले पांच भाजपायों के खिलाफ घोषित किया है 25000 का इनाम, तलाश जारी

सुनील बाजपेई

कानपुर कानपुर में भाजपायों द्वारा बिरादरी के दवा व्यवसायी युवक को गंभीर रूप से घायल करने के खिलाफ कानपुर के सिखों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। उन्होंने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज 29 सितंबर को प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किए जाने की घोषणा की है।

इस बीच पुलिस नेभाजपा पार्षद के प्रति समेतसभी आरोपियों के खिलाफ 25000 का इनाम भी घोषित किया है । साथ ही पुलिस की टीमें भी उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इसके खिलाफ ही सिखों ने बंद का आवाहन किया है अवगत कराते चलें कि कानपुर में सिख दवा व्यापारी को अधमरा करने वाले भाजपा पार्षद पति अंकित शुक्ला समेत अन्य आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। जिसके बाद बड़ी संख्या में समर्थक कल बुधवार शाम पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे।

इस मामले में जिस तरह से सिख समाज के विरोध के बाद पुलिस एक्शन में आई है। उसके बाद भाजपाई भी अब मामले में मुखर होने लगे हैं। विरोध को देखते हुए भाजपा और सिख समाज में टकराव बढ़ जाने की भी प्रबल संभावना व्यक्त की गई हैइसके खिलाफ पुलिस भी सतर्क है वहीं मामले में सिख समाज ने आज 29 सितंबर को प्रदेश भर में आंदोलन करने का एलान पहले ही कर दिया है।

जिला भाजपा कोर कमेटी की परिचय बैठक के बाद सांची विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों की बैठक आयोजित

रायसेन। गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला भाजपा कोर कमेटी के पदाधिकारीयो की बैठक के बाद सांची विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक का शुभारंभ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत शुरूआत की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देवेंद्र प्रताप सिंह ने विचार व्यक्त करते हुए सभी मंडल अध्यक्षों को विधानसभा चुनाव के बारे मैं अवगत कराया एवं प्रत्येक बूथ स्तर पर अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया गया। उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों से आह्वान किया कि वह अपने-अपने मंडल स्तर पर पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी मजबूती से करें और

प्रत्येक शक्ति केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक विशेष ध्यान देकर काम करें। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से मंडल अध्यक्षों को अवगत कराया। इस अवसर पर जिला भाजपा संगठन प्रभारी सुधीर अग्रवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह कुशवाह, जिला महामंत्री रविंद्र विजयवर्गीय, राजेंद्र अग्रवाल, जमना सेन, राकेश तोमर, रामकुमार साहू, बृजेश चतुर्वेदी, दातार सिंह मीणा, संतोष शर्मा, जीतू आदित्य शर्मा, श्री चौकसे, मोहन चक्रवर्ती, वर्षा लोधी, संजू जैन, अमन कुशवाह, जीतू ठाकुर सहित भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने सेवासनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का किया भूमिपूजन

चिलवाहा और बरूखार में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का किया भूमिपूजन

रायसेन, 28 सितम्बर 2023

स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा गुरूवार को सांची जनपद के ग्राम चिलवाहा में 71.16 लाख रू की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने ग्राम सेवासनी में 295.45 लाख रू लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन और ग्राम बरूखार में 71.16 लाख रू लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी द्वारा कन्यापूजन और दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया गया तथा उपस्थित जनसमूह को क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यो एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में संबोधित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

जिंदगी और मौत के बीच चल रहा हैं युवक का इलाज,शराब फिर बनी वजह

शराब पीने को लेकर घर वालों ने डांटा तो काट ली कलाई की नस

समाज जागरण/शिवशंकर पाण्डेय ब्यूरो चीफ

बालाघाट।(29 सितंबर)शराब पीने के लिए मना करने पर एक युवक ने ब्लेड से अपने बाएं हाथ की कलाई काट ली। मामला वारासिवनी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पिपरिया भांडी का है जहां युवक आशीष पिता ईश्वरलाल लिल्हारे 26 वर्ष ने परिवार वालों के मना करने पर ऐसा कदम उठाया। युवक का इलाज जिला अस्पताल में किया गया इसके पहले भी एक युवक ने शराब के नशे में आत्मघाती कदम उठा चुका हैं,एक सप्ताह के अंदर यह जिले की दूसरी घटना हैं।

शराब पीने का आदी था युवक

जानकारी अनुसार आशीष लिल्हारे मजदूरी करता है और वह शराब पीने का आदी है। परिवार के लोग उसे शराब पीने के लिए मना करते हैं। इसी को लेकर उसे और उसके परिवार के बीच विवाद होते रहता है। 27 सितंबर को वह जब शराब पीकर घर आया था। इसी को लेकर के उसे और उसके परिवार वालों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद के चलते उसने ने ब्लेड से अपने बाएं हाथ की कलाई काट ली।

दर्द होने पर उसने अपने दोस्त राहुल शेंडे को बताया जिस पर उसके दोस्त ने उसे मोटर साइकिल से जिला अस्पताल लाया और इलाज करवाया। इसकी जानकारी अस्पताल चौकी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल के बयान दर्ज कर मामले को विवेचना में लेकर मामले की अग्रिम कार्रवाई के लिए डायरी संबंधित थाना पुलिस को भिजवा दी है।

अनंत चतुर्दशी पार्वती धाम के साथ मनाया, सम्मान के साथ श्री गणेश प्रतिमा को किया गया विसर्जित

रायसेन। हर बार की तरह इस बार भी अनंत चतुर्दशी पर्व के मौके पर श्री गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, इस मौके पर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के साथ महा आरती कि गई, इसके पश्चात श्री गणेश प्रतिमाओ को सम्मान का साथ जल स्त्रोत पर पहुंचकर विसर्जन किया गया शहर जो सर से ही श्री गणेश प्रतिमा को धारण के लिए ले जाने का क्रम शुरू हुआ जोगी देर रात तक चलता रहा । गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ भगवान श्री गणेश के जयकारे लगाते हुए सनातन धर्म प्रेमियों ने भगवान श्री गणेश प्रतिमा को विसर्जित करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया एवं सुख समृद्धि की कामना की गई। अनंत चतुर्दशी पर्व के अवसर पर जिला मुख्यालय रायसेन के महामाया चौक पर अनंत चतुर्दशी समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी शामिल हुए उन्होंने कार्यक्रम में श्री गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी, मंदिर के पुजारी, आदि कई समाजसेवियों का सम्मान किया गया इसके अलावा श्री गणेश उत्सव समिति के अध्यक्षों को पुरस्कृत किया गया इससे पूर्व श्री हिंदू

उत्सव समिति के अध्यक्ष बंटी माहेश्वरी ने मुख्य अतिथि स्वास्थ मंत्री डॉक्टर चौधरी का पुष्पहार के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सविता सेन मोजूद रही। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शहर के प्राचीन मिस्त्र तालाब, बेतवा नदी, पगनेस्वर नदी, शायद जल स्त्रोतों पर किया गया इसके साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्री गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया ग्रामीण सनातन धर्म प्रेमियों ने जल स्त्रोतों पर पहुंचकर सम्मान के साथ भगवान श्री गणेश प्रतिमा को विसर्जित किया। अनंत चतुर्दशी कार्यक्रम में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष बंटी महेश्वरी, राजकुमार यादव, राकेश तोमर, शिवराज सिंह कुशवाह, कैलाश पहलवान, अनिल चौरसिया, बबलू ठाकुर, शिवराज सिंह कुशवाहा, बृजेश चतुवेर्दी, चंद्र कृष्ण रघुवंशी, केलाश ठाकुर, जितेंद्र शर्मा, ब्रज बिहारी मिश्रा,अमित चतुवेर्दी, मनोज कुशवाह सहित बाली संख्या में सनातन धर्म प्रेमी मौजूद रहे।

कांग्रेस युवा नेता जयंत मनहर विघन्हर्ता गणेश जी की विशेष आरती में लोहर्सी में सहयोगियों के साथ शामिल हुए

समाज जागरण ब्यूरो विवेक देशमुख

मस्तुरी। कांग्रेस के युवा नेता जयंत मनहर युवाओं के विशेष आमंत्रण पर ग्राम-लोहर्सी में विराजित विघन्हर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना कर क्षेत्र वासियों की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया साथ ही पंडाल मे उपस्थित बड़े बुजुर्गों से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस विशेष आरती में उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेसी अजय तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, प्रकाश तिवारी, विनोद सिंह(किसान कांग्रेस),राकेश शर्मा,लक्ष्मण बैगा, पी डी महंत, मुकेश केंवट, देवचरण साहू, साकेत गोस्वामी, सुयश तिवारी, विनीत साहू, संजू साहू, राजू साहू, नरेन्द्र साहू, दसरथ साहू, यूथ कांग्रेस महासचिव सार्थक तिवारी, सत्य निज नाम परिवार लोहर्सी परिवार संस्था के सदस्य संतोष कुमार साहू, रोहित कुमार साहू, शिव कुमार साहू, अशोक कुमार साहू, अरुण कुमार साहू, रामकुमार साहू, संतोष कुमार साहू, प्रकाश साहू, संतोष कुमार साहू(बी),

मुकेश कुमार साहू और सम्मानित बुजुर्ग व महिलाएं शामिल रहे।

एक महीना हड़ताल पूरा होने पर पटवारियों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने की भरी हुंकार

सामान जागरण/शिवशंकर पाण्डेय ब्यूरो चीफ

बालाघाट।(29 सितंबर) पिछले 28 अगस्त से 28 सितंबर तक पटवारियों की हड़ताल को पूरा एक माह हो गया। एक माह से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे है। इससे पटवारियों से संबंधित विभागों के काम पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। बावजूद इसके अपनी मांगों को पूरा करवाने पटवारी अडिग है, जबकि गत दिनों सरकार ने कैबिनेट में पटवारियों को 3 हजार रुपए एग्रीस्टेक और 500 रुपए हल्का पटवारी देने की निर्णय लिया है, लेकिन सरकार की कैबिनेट में लिए इस निर्णय को आंदोलनकारी पटवारी लॉलीपाप बता रहे है।

पटवारियों ने कहा कि सरकार ने जो कैबिनेट में पटवारियों को एग्रीस्टेक और 500 रुपए हल्का भत्ता बढ़ाने का जो निर्णय लिया है। वह पटवारियों की मांगों में शामिल ही नहीं है। एग्रीस्टेक का काम कृषि विभाग को दिया जाए, हम वह नहीं करना चाहते है। सरकार हमारी पांच सूत्रीय मांगों पर विचार करें, जिसके बिना हम काम पर लौटने तैयार नहीं है।पटवारी संघ जिलाध्यक्ष अरूण बिरनवार ने कहा कि सरकार हमें लॉलीपाप दे रही है, लेकिन हम चाहते है कि सरकार हमारी पांच सूत्रीय मांगों का निराकरण करें। हमें कैबिनेट का निर्णय अस्वीकार है, हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा और भविष्य में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे।

कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची बालाघाट, कमलेश्वर पटेल सहित अन्य नेताओं ने भाजपा पर साधा निशाना

समाज जागरण/शिवशंकर पाण्डेय ब्यूरो चीफ

बालाघाट।(29 सितम्बर)भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेसी भाजपा सरकार की योजनाओं की नाकामियों को गिना रहे है। मुख्यालय में यह जन आक्रोश यात्रा बैहर, लांजी के बाद 28 सितंबर गुरुवार को बालाघाट नगर पहुंची। यात्रा में बालाघाट के प्रभारी मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल, विधायक हिना कावरे, कांग्रेस में नवागत प्रवेश किए जिले के पूर्व सांसद बोधसिंह भगत, अनुभा मुंजारे, राजा सोनी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे।

जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस नेता जनता के बीच प्रदेश सरकार की नाकामी एवं घोटाले बता रही है,साथ ही कमलनाथ की सवा साल की सरकार के कामकाज और उनके 11 वचन भी जनता को बता रही हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस की ओर से भाजपा की नीतियों व कुशासन के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है।कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा गुरुवार को बालाघाट पहुंची। यहां हनुमान चौक में कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में यात्रा प्रभारी एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है।

यात्रा प्रभारी कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यात्रा के दौरान जनता में भाजपा के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सीएम के खिलाफ भी आक्रोश है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। महंगाई के कारण जनता परेशान है। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए अभी से लड़ाई शुरू हो गई है। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार की विफलताओं को लेकर जनता में आक्रोश है इसलिए जन आक्रोश यात्रा निकाली है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को कर्जदार बना दिया है। साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज की अदायगी प्रतिवर्ष 26 हजार करोड़ रुपए की राशि जमा कर की जा रही है। जब कांग्रेस की सरकार हटी थी, तब केवल 28 हजार का कर्ज था।

प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यह सभी पिटे हुए मोहरे है। भाजपा को मालुम है कि प्रदेश और केंद्र की सरकार जाने वाली है तो ऐन-केन प्रकारेण जीत का प्रयास है।

उन्होंने कहा कि महंगाई, कोविड और मंदी में यह नेता, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, यह सरकार को चेता सकते थे लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। देश में हजारों किसानों ने सुसाइड कर लिया तो आदिवासी मामलों की संख्या में भी हजारों में ही है। जिसका जवाब जनता आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देगी।

भाजपा अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश सूर्या ने अनुसूचित जाति बस्तियों में जाकर अनुसूचित जाति समाज के बीच की बैठक

समाज जागरण ब्यूरो विवेक देशमुख

मस्तुरी। भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक और कैसे बढ़ सकता है, किस तरह से हम भाजपा संगठन को और मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से हम अनुसूचित जाति वर्ग को राजनीतिक लाभ दे सकते हैं, किस तरह से अनुसूचित जाति के भाई बहनों को शासन की योजनाओं को सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं, और किस तरह से हम अपने हक और अधिकार के लिए आगे आ सकते हैं, यह प्रमुख बातों को लेकर भाजपा नेता चंद्र प्रकाश सूर्या ग्राम भनेसर, पराघाट, खैरा आदि आदि गांव में जाकर अनुसूचित जाति भाइयों के बीच में बैठक किया । सूर्या ने बताया कि अनुसूचित जाति बस्तियों में जब जाते हैं तो वहां पता चलता है कि अनुसूचित जाति के भाई एवं बहन जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ सही रूप से नहीं ले पा रहे हैं केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है लेकिन गांव वालों को कई योजना का पता ही नहीं चलता केंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना, 99.01% घटा दिया 11000 करोड़ से बढ़कर 59000 करोड़ किया है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना, सरकार शिक्षा , रोजी रोजगार काम धंधा व्यवसाय आदि करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है अनुसूचित जाति समाज के भाई कई बार

जानकारी के अभाव में योजना का लाभ नहीं उठा पाते जिसकी वजह से आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होती है इन सभी बातों को ध्यान आकर्षित करते हुए सूर्या ने सभी योजनाओं की बात कही और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं और सबका विकास ही भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है साथ में चंद्रप्रकाश सूर्या ने बताया कि30 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हो रहा है उनके लिए भी सभी को आर्मत्रित किया और उनसे आग्रह किया ,की विश्व शिखर पर भारत का परचम लहराने वाले देश के सर्वमान्य नेता को सुनने के लिए निश्चित रूप से आवे।

आयुष्मान भवः कार्यक्रम के तहत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तुरी मे रक्तदान शिविर का आयोजन

समाज जागरण ब्यूरो विवेक देशमुख

मस्तुरी। आयुष्मान भवः अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मस्तुरी में 29 सितंबर शुक्रवार को हैल्थ कैम्प एवं रक्त दान शिविर (blood donetion camp)का आयोजन रखा गया है। जिसके तहत आयुष्मान भवः कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैछिक रक्त दान कार्य कर सकते है इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को अधिक से अधिक आगे आकर स्वैछिक रक्त दान महादान करे एवं दूसरों को भी प्रेरित कर सहयोग प्रदान करने अपील की गई है उपरोक्त जानकारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी नंद राज कंवर समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मस्तुरी ने दी।

कृषक सह श्रमिक सम्मेलन : नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे और मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को दी करोड़ों रूपए के विकास कार्यों की सौगात

266 करोड़ 40 लाख रूपए के 264 विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण-भूमिपूजन

समाज जागरण ब्यूरो

बलौदाबाजार। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम सुमाभाटा में 266 करोड़ 40 लाख रूपए की लागत के 264 विकास कार्यों की सौगात दी। जिसमें 90 करोड़ 35 लाख रूपए की लागत के 114 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 176 करोड़ रूपए की लागत के 150 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

सम्मेलन में लोकार्पित किए गए कार्यो में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनातंर्गत 12.63 करोड़ रूपए की लागत से 41 सड़कों का निर्माण कार्य, लोक निर्माण अंतर्गत 96.58 करोड़ रूपए की लागत से 14 भवन तथा सड़क निर्माण कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलौदाबाजार अंतर्गत 9.97 करोड़ रूपए की लागत से 34 विभिन्न स्कूल, औषधालय सहित अन्य भवनों का निर्माण कार्य, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 2 करोड़ रूपए की लागत के 5 निर्माण कार्य, 3.83 करोड़ रूपए की लागत से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के 15 गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण कार्य, 8.91 करोड़ रूपए की लागत से लोक निर्माण विभाग सेतु, बलौदाबाजार में आमाखोहा-भवरीद मार्ग पर रानीधाम नाला पर पुल निर्माण कार्य शामिल है। इसी प्रकार बलौदाबाजार जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों में 5.65 करोड़ रूपए की लागत से 29 विभिन्न निर्माण कार्य के साथ ही वन मंडल विभिन्न निर्माण कार्य शामिल है। इसी प्रकार 7.64 करोड़ रूपए की लागत से जल जीवन मिशन के 5 कार्य, 5.31 करोड़ रूपए की लागत के

बलौदाबाजार अंतर्गत 36.45 करोड़ रूपए की लागत से कृष्ण कुंज निर्माण तथा नरवा विकास के कार्य शामिल है।

सम्मेलन में भूमिपूजन किए गए कार्यो में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनातंर्गत 7.67 करोड़ रूपए की लागत के 14 सड़क निर्माण कार्य, 15.90 करोड़ रूपए की लागत के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 13 सड़क निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार अंतर्गत 31.34 करोड़ रूपए की लागत के 21 सड़क तथा भवन निर्माण कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बलौदाबाजार अंतर्गत 5.37 करोड़ रूपए की लागत के 19 जल संसाधन विभाग बलौदाबाजार के नहर लाइनिंग तथा जीर्णोद्धार के 2 कार्य, 1.10 करोड़ रूपए की लागत के स्वास्थ्य विभाग के 4 कार्य, 9.14 करोड़ रूपए लागत के छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल 8 भवन निर्माण कार्य, बलौदाबाजार के विभिन्न जनपद पंचायतों 3.53 करोड़ रूपए की लागत के विभिन्न कार्यो सहित नगर पालिका बलौदाबाजार में 1.20 करोड़ रूपए की लागत के 4 तथा नगर पालिका अंतर्गत 2.10 करोड़ रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यो का भूमिपूजन शामिल है।

*रामपुर बटूरा में गोली को लेकर कोयला प्रबंधन के खिलाफ फैलाया जा रहा, अफवाह

शहडोल जिले के अंतिम छोर पर स्थित रामपुर बटूरा खुली खदान प्रोजेक्ट में रामपुर में रहने वाले कुछ लोगो द्वारा मंगलवार को कोयले के परिवहन से लगी ट्रैकों को रोककर शासकीय कार्य में व्यवधान पैदा किया गया वाहन चालकों से गाली गलौज और इस क्षेत्र में कामना करने की धमकी दी गई

मामला जब कोल प्रबंधक ट्रक मालिकों तक पहुंचा तो धीरे-धीरे वहां इकट्ठे होने लगे इस दौरान अमलई के अलावा आसपास का पुलिस का बल भी मौके पर पहुंच कालरी के अधिकारी भी इस घटना से भयभीत दिखे मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा ट्रक चालकों ने मालिकों को इसकी सूचना दी तो वह धीरे-धीरे बड़ी संख्या में पहुंचने लगे सूत्रों की माने तो स्थानीय युवक सुधीर के द्वारा पुलिस के सामने दबंगई दिखाते हुए हवाई फायर किया गया जब तक पुलिस उसे पकड़ पाती वह उसकी आंखों के सामने से ही फरार हो गया यह नि संदेह यह घटना नींदनीए है और इस पर दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए लेकिन सुधीर मिश्रा और उन लोगों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए उक्त कार्य को अंजाम दिया गया है इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती कोयला प्रबंधन एवं तकनीकी निरीक्षक का नाम घटना से जोड़ा जा रहा है जबकि ना ही उनका उक्त घटना से कोई लेना देना है जो भी घटना घटी वह स्थानीय लोगों द्वारा घटित की गई है लेकिन कुछ लोगों द्वारा जबरन अपनी रोटी सेकने के लिए पूरे घटना में का नाम बदनाम किया जा रहा है है कालरी प्रबंधन और पुलिस को चाहिए कि ऐसी अफवाह फैलाने वाले से दूर रहें और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की पहले जांच कर लें फिर किसी ईमानदार व्यक्ति पर दोष लगे और अफवाह फैलाने वालों से दूर रहें और दोषियों पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन निर्दोष का नाम अनावश्यक उछलकर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए सीसीटीवी के कैमरे के जांच के बाद सब सोता स्पष्ट हो जाएगा

ईद मिलाद-उन-नबी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया

मुस्लिम समाजजनों ने बच्चों के साथ निकाला जुलूस

अमलाई। गुरुवार को ईद मिलाद-उन-नबी का पर्व मुस्लिम समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया । रबीउल अव्वल महीने की 12वीं तारीख को मिलादुन्नबी के दिन इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम के जन्म के मौके पर जुलूस निकाला गया। नगर में जगह-जगह लंगर का प्रोग्राम रखा गया और स्वागत किया गया। बताया जाता है कि इस दिन मुस्लिम समाजजनों के घरों और मस्जिदों में पवित्र कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। मान्यताहै कि इस दिन पवित्र कुरान पढ़ने से 'अल्लाह का रहम बरसता है। इस अवसर पर प्रातः 10 बजे स्थानिय मस्जिद से भव्य जुलुस प्रारंभ होकर जो दुर्गा मंदिर चौक शनिचरी बाजार दफाई बस स्टैंड बापू चौक इंदिरा नगर से होकर मस्जिद पहुंच कर समाप्त हुआ। जुलुस में धर्मगुरू, बच्चों के साथ बड़ी संख्या में समाजजन सम्मिलित हुए।

मुस्लिम समाज के सलीम अहमद ने चर्चा मे बताया कि

ईद मिलाद-उन-नबी के दिन घर, मस्जिद और कार्यक्षेत्र को सजाया जाता है और धूमधाम से पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन कुरान का पाठ करते हैं और उनके संदेशों को जीवन में उतारते हैं। मोहम्मद साहब के सम्मान में इस दिन जुलूस निकाल जाते और समाजजन इस दिन गरीबों व जरूरतमंदों को दान व जकात करते हैं। मिलाद-उन-नबी की रात को अल्लाह की इबादत की जाती है।

हर्षोल्लास से मनाया गया जश्ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व

विजय तिवारी

अनूपपुर, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिन गुरुवार प्रातः 10:00 बजे से मुस्लिम समुदाय द्वारा सब्जी मंडी मस्जिद के पास सभी भाई इकट्ठे हो कर झंडे बैनर डीजे बाजे गाजे में कव्वाली, नात जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शांति ढंग सेजुलूस निकाला गया इस अवसर पर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा को देखते

हुए पूरे जुलूस में साथ चलकर यातायात को व्यवस्थित करते हुए अपनी ड्यूटी निभाते रहे जगह जगह लंगर का इंतजाम किया गया जुलूस मेन रोड होकर बस स्टैंड पहुंचे जहां पर दर्जनों स्टॉल सजाकर तरह-तरह के मीठे बिस्किट चाय कॉफी फल फ्रूट नाना प्रकार के स्वादिष्ट नाश्ता से स्वागत किया गया जुलूस में छोटे बड़े बच्चे बड़े बुजुर्ग नए कपड़े पहन कर एक दूसरे के गले मिलकर खुशी का इजहार करते रहे मुस्लिम समुदाय के सदर मोहम्मद सलीम, बाबा खान, अकबर भाई नौशाद खान इस अवसर पर नगर पालिका के द्वारा रोड़ो में साफ सफाई की व्यवस्था की गई जिला वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद रईस खान के द्वारा पूरे आवाम को जश्ने ईद मिलादुन्नबी की शुभकामना दिए है एवं उन्होंने यह भी कहा आपसी भाईचारे के साथ पर्व को शांति से मनाएं इस अवसर पर सहयोग के लिए शासन प्रशासन को धन्यवाद किया